



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 41] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 14—अक्टूबर 20, 2006 (आश्विन 22, 1928)
No. 41] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 14—OCTOBER 20, 2006 (ASVINA 22, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्टूबर 2006

सं. 498, दिनांक 13 सितम्बर 2006—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित श्रेणी-ग आशुलिपिकों को दिनांक 29.08.2006 से 31.12.2006 तक अथवा जब तक नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं होते अथवा इनमें से जो भी पहले हो, इस प्रभाग में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के पद पर नियुक्ति करते हैं:—

1. श्रीमती सुखपाल वालिया
2. श्री एस. सी. ढींगरा
3. श्रीमती निर्मल आनंद
4. श्रीमती जनक चोपड़ा
5. श्रीमती विजय नारंग
6. श्री आर. के. मेहता
7. श्री अशोक कुमार

दिलीप कुमार पाण्डेय,
निदेशक (वित्त/स्थापना)

सेना शाखा

सं. 499, दिनांक 14 अक्टूबर 2006:—राष्ट्रपति निम्नलिखित को सहर्ष नियुक्ति करते हैं:—

नियमित सेना

(अल्प सेवा आयोग)

लै. के पद पर

निम्नलिखित अधिकारी को दिनांक 02 सितम्बर 2000 से पांच वर्ष के लिए लै. के पद पर अल्प सेवा आयोग प्रदान किया गया है। इस अधिकारी का नाम एस एस सी (नन टैक) 70 से दिनांक 20 अप्रैल 2006 को एस एस सी (टैक) 13 कोर्स में स्थानान्तरित किया गया है एवं साथ ही उन्हें दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता एवं वित्तीय प्रभाव जैसा कि एस एस सी (टैक) 13 कोर्स के अधिकारियों पर दिनांक 06 सितम्बर 1998 से लागू है प्रदान किया जाता है किन्तु इसका वेतन, भत्ते एवं अन्य संबंधित वित्तीय लाभ पर कोई पूर्व प्रभाव नहीं होगा:—

रितेश श्री वास्ताव (एस एस 38620ए), ई एम ई निर्दिष्टता ज्येष्ठता लै. विशाल सिंह रघुवंशी (एस एस 38554एच), सिग्नल जिनका नाम भारतवर्ष के राजपत्र में 11 मई 2002 को प्रकाशित हो चुका है, इसी में अंकित किया जाता है।

एस. के. शर्मा
लै. कर्नल
ए एम एस डबी

इलैक्ट्रानिकी और यांत्रिक अभियंता कोर

सं. 500, दिनांक 14 सितम्बर 2006:--राष्ट्रपति महोदय, श्री दीपक गोयल को ई एम ई कोर में, रक्षा मंत्रालय के अधीन 08 मई 2006, (पूर्वाह्न) से सहायक कार्यकारी अभियन्ता समूह 'क' के पद पर स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एन. के. कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 501, दिनांक 18 सितम्बर 2006:--राष्ट्रपति निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी आयोग

लै. के पद पर 08 दिसम्बर 2001 से

निम्नलिखित अधिकारी को भारत सरकार के राजपत्र, जो कि दिनांक 26 अक्टूबर 2002 को प्रकाशित हुआ है, में सम्मिलित किया जाता है:--

पंकज कुमार मिश्रा (आई सी 61934डब्ल्यू) सिग्नल ज्येष्ठता सुहेल वाई सौदागर (आई सी 61433एन) मेकनाइज के नीचे प्रदर्शित किया जाए।

चन्द्र शेखर
लै. कर्नल
सहायक सेना सचिव एम एस 8-बी

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 502, दिनांक 19 सितम्बर 2006:--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

डा. आर. पी. त्रिपाठी को अस्थाई रूप से वैज्ञानिक 'जी' में एक साल की परखावधि पर इनमास, दिल्ली में 05 अगस्त 2005 से वेतनमान रु. 18,400-500-22,400 के वेतनमान पर।

जे. के. खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

सं. 503, दिनांक 14 सितम्बर 2006:--रक्षा मंत्रालय में मुख्य क्रय अधिकारी श्री एच.एस. भाटिया के समयपूर्व प्रत्यावर्तन होने के कारण 30 अगस्त, 2006 से उनकी सेवाएं आयुध निर्माणी बोर्ड को सौंपी जाती हैं।

वी. सरस्वती
उप सचिव

थल सेना विभाग

सं. 504, दिनांक 15 सितम्बर 2006:--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं।

नियमित सेना

सेना शिक्षा कोर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार चमरा मिंज (जेसी-802969एन), 19 अक्टूबर 2005@

@(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार गोविन्द सिंह भैसोरा (जेसी-803003ए), 28 नवम्बर 2005\$

\$(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2005 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वेद प्रकाश बाबल (जेसी-803020ए), 14 जनवरी 2006#

#(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार कुरियाक्कोस वी एम (जेसी-803021एच), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार पन्ना लाल (जेसी-803022एल), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार कमल नयन राय (जेसी-803030के), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार धर्मवीर (जेसी-803031एम), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार दीन दयाल निरंजन (जेसी-803037एन), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार शिवपाल सिंह (जेसी-803039वाई), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार राम निवास (जेसी-803040एन), 03 फरवरी 2006&

नायब सूबेदार राकेश कुमार शर्मा (जेसी-803046पी), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार मुकेश कुमार (जेसी-803049एच), 28 फरवरी 2006&

नायब सूबेदार महबूब खान (जेसी-803050एक्स), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार संजय काकरन (जेसी-803051ए), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार चन्द्र भान उपाध्याय (जेसी-803053एल), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार कृष्ण कान्त भट्ट (जेसी-803054एन), 01 फरवरी 2006

&(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार वीरेन्द्र कुमार द्विवेदी (जेसी-803055डब्ल्यू), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार सुभाष चन्द्र (जेसी-803056वाई), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार हनुमान दत्त मिश्रा (जेसी-803058के), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार भुवन चन्द्र मिश्रा (जेसी-803059एम), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार मदन सिंह रावत (जेसी-803060एफ), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार हरीश चन्द (जेसी-803063पी), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार जनार्दन प्रसाद (जेसी-803065ए), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार वीरेश्वर कुमार राठौर (जेसी-803067एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार परमवीर सिंह (जेसी-803068एन), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार सनत कुमार (जेसी-803070एल), 01 मार्च 2006
 नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह बिष्ट (जेसी-803071एन), 03 मार्च 2006#
 # (सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जायेगी)

विजय कपूर
 अवर सचिव

एम जी ओ/ई एम ई कार्मिक

सं. 505, दिनांक 14 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियों करते हैं :--

सूबेदार मेजर टेक्नीकल के रैंक में

सूबेदार दिलीप कुमार सिंह (जेसी-748537एच), 01 अगस्त 2005
 सूबेदार डी पी रोय (जेसी-748432वाई), 01 अगस्त 2005
 सूबेदार रामानन्द वर्मा (जेसी-748086एन), 07 जुलाई 2005/01 जून 2005×
 सूबेदार जय बन्स चौबे (जेसी-747660पी), 06 अगस्त 2005/01 मई 2005×
 सूबेदार सुशील कुमार शर्मा (जेसी-748144एम), 23 जुलाई 2005/01 जून 2005×
 सूबेदार वी एस मैथ्यू (जेसी-748094एम), 16 अगस्त 2005/01 जुलाई 2005×

सूबेदार मेजर आरटीजन (ईसी) के रैंक में

सूबेदार सुभाष सिंह (जेसी-751199एफ), 21 जुलाई 2005/01 जून 2005×
 सूबेदार भोपैया के एम (जेसी-751217वाई), 15 अगस्त 2005/01 जून 2005×
 सूबेदार महेन्द्र सिंह बिस्ट (जेसी-751148एन), 01 अगस्त 2005

सूबेदार रणधीर सिंह धनकर (जेसी-751153वाई), 02 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005×

सूबेदार मेजर आरटीजन (एन ई) के रैंक में

सूबेदार अभिमन्यू महाराणा (जेसी-749265ए), 02 अगस्त 2005/01 जून 2005×

सूबेदार मोहन के (जेसी-750287एल), 01 सितम्बर 2005

सूबेदार मेजर रिकवरी मैक के रैंक में

सूबेदार शिविन्दर सिंह (जेसी-748774एम), 01 अगस्त 2005

सूबेदार मेजर ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

सूबेदार अशिक हुसैन (जेसी-829127एम), 29 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार के सी शुक्ला (जेसी-755633ए), 20 जुलाई 2005/01 मई 2005×

नायब सूबेदार जी एन भूषण राव (जेसी-754398ए), 20 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार नन्द किशोर सिंह (जेसी-755344एल), 13 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार प्रधान भोपाई (जेसी-755480एफ), 18 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार के दुरई श्वामी (जेसी-755481के), 25 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार भादूर सिंह (जेसी-755504ए), 16 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार महेश कुमार दीक्षित (जेसी-755541एन), 19 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार बलदेव सिंह दबास (जेसी-755641वाई), 22 जून 2005/01 मई 2005×

नायब सूबेदार अशोक कुमार माजी (जेसी-755644एम), 19 जुलाई 2005/01 मई 2005×

नायब सूबेदार राधेश्याम चौबे (जेसी-755650ए), 19 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार भूदेव प्रसाद शर्मा (जेसी-755659पी), 19 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार मोहमद मोखतार आलम (जेसी-755646एक्स), 21 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार सी पत्तनी (जेसी-755711एम), 22 जुलाई 2005/01
जुलाई 2005×

नायब सूबेदार राम शाम पाल (जेसी-755858एच), 26 जुलाई
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार नारायण सिंह (जेसी-755889एच), 25 जुलाई 2005/01
जून 2005×

नायब सूबेदार माया राम (जेसी-755537एल), 25 जुलाई 2005/01
जुलाई 2005

नायब सूबेदार पतना वासुदेव रेड्डी (जेसी-755888ए), 01 अगस्त
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार अनिल कुमार (जेसी-755496एम), 18 जुलाई
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार धनन्जय रोय (जेसी-755478के), 08 अगस्त 2005/01
जुलाई 2005×

नायब सूबेदार अर्विन्दाक्षन सी डी (जेसी-755495के), 27 जुलाई
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार अनुराधा कुमार (जेसी-755710के), 22 जुलाई 2005/01
जुलाई 2005×

नायब सूबेदार पी के के भाईलाल भाई (जेसी-755498वाई), 22 जुलाई
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार आलेक्जेंडर टी (जेसी-755502पी), 01 अगस्त
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार कुनवर सिंह (जेसी-755548एक्स), 13 अगस्त 2005/01
जुलाई 2005×

नायब सूबेदार सुरिन्दर सिंह नेगी (जेसी-755647ए), 16 अगस्त
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार श्री कृष्ण (जेसी-755648एच), 25 जुलाई 2005/01
जून 2005×

नायब सूबेदार शिव कुमार मिश्र (जेसी-755703एन), 18 जुलाई
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार राम लखन (जेसी-755709पी), 25 जुलाई 2005/01
जुलाई 2005×

नायब सूबेदार रविशंकर सिंह (जेसी-756150पी), 15 जुलाई 2005/01
जून 2005×

नायब सूबेदार सुकान्ता हाजारा (जेसी-756365एन), 16 जुलाई
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार अरदी प्रभाकर राव (जेसी-755500के), 06 अगस्त
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार शिव प्रसाद अधिकारी (जेसी-755482एम), 12 अगस्त
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार राम चन्दर लाल (जेसी-755497पी), 06 अगस्त
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार महेन्द्र कुमार (जेसी-755658एम), 01 अगस्त 2005/01
जून 2005×

नायब सूबेदार माथी अझागन (जेसी-755546एम), 10 अगस्त
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार ए प्रभाकर अचारी (जेसी-755507एन), 15 अगस्त
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार गणेश शर्मा (जेसी-755657के), 23 अगस्त 2005/01
जून 2005×

नायब सूबेदार जबार सिंह (जेसी-755806एम), 25 अगस्त 2005/01
अगस्त 2005×

सूबेदार आरटीजन (ई सी) के रैंक में

नायब सूबेदार सतीश चन्द्र राय (जेसी-757272एल), 25 जुलाई
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार कासी राजन वी पी (जेसी-757280के), 25 जुलाई
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार शिव कान्त झा (जेसी-757308वाई), 05 अगस्त
2005/01 जुलाई 2004×

नायब सूबेदार गंभीर सिंह (जेसी-757277के), 20 जुलाई 2005/01
जुलाई 2005×

नायब सूबेदार पी समान्ता (जेसी-757247एम), 30 जुलाई 2005/01
जून 2005×

नायब सूबेदार विद्यार पाली नाराय (जेसी-757279पी), 28 जुलाई
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार शिव शरन तिवारी (जेसी-757335एच), 05 अगस्त
2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार नारायण राम (जेसी-757556पी), 23 जुलाई 2005/01
जुलाई 2005×

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार द्वारीका नाथ राय (जेसी-755151एल), 26 जुलाई
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार चन्द्रका प्रसाद (जेसी-756021पी), 25 जुलाई 2005/01
जुलाई 2005×

नायब सूबेदार तारा चन्द (जेसी-755191एम), 02 जुलाई 2005/01
मई 2005×

नायब सूबेदार उमा शंकर पाण्डे (जेसी-755194एम), 30 जुलाई
2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार समिर कुमार चटोपाध्याय (जेसी-754240एक्स),
03 अगस्त 2005/01 दिसम्बर 2004×

नायब सूबेदार सुखदेव खिडीया (जेसी-755193एक्स), 01 अगस्त 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-755734एन), 30 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार साउदान सिंह (जेसी-755300एन), 25 जुलाई 2005/01 जून 2005×

सूबेदार टेक्नीकल (एवियेशन) के रैंक में

नायब सूबेदार आंजनयल्लू बी (जेसी-756319वाई), 17 जून 2005/01 मार्च 2005×

नायब सूबेदार प्रकाश चन्द्र (जेसी-756510ए), 27 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार गोपाला कृष्णा कुरूप (जेसी-756583एम), 28 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार के सेकर (जेसी-756498के), 28 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार नरोत्तन महापात्रा (जेसी-756502एफ), 22 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005×

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार हरजिंदर सिंह (जेसी-754000ए), 27 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार विरेन्द्र सिंह (जेसी-754001एच), 26 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार शंगारा सिंह (जेसी-753957ए), 30 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार बिक्रम सिंह (जेसी-753999वाई), 30 जुलाई 2005/01 जून 2005×

नायब सूबेदार बी देवी दास (जेसी-752777एक्स), 12 अगस्त 2005/01 जून 2005×

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार ब्रिजबासी चौहान (जेसी-754215वाई), 26 जुलाई 2005/01 जून 2005×

सूबेदार आर्मीअर के रैंक में

नायब सूबेदार वाडेकर जयराम धोण्डबा (जेसी-755293एच), 26 जून 2005/01 सितम्बर 2003×

नायब सूबेदार हरीदास बरमन (जेसी-754707एक्स), 27 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार जी अलागर सामी (जेसी-755814एल), 06 अगस्त 2005/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार शिन्दे रघुनाथ सिंदराम (जेसी-755816डब्ल्यू), 03 अगस्त 2005/01 फरवरी 2004×

नायब सूबेदार एस पलानी चममी (जेसी-755295एन), 05 अगस्त 2005/01 दिसम्बर 2003×

नायब सूबेदार राधा कान्त प्रसाद सिंह (जेसी-754852पी), 08 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005×

सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

नायब सूबेदार हनमन्त बन्दीवड्डर (जेसी-752612वाई), 26 जुलाई 2005/01 जुलाई 2005×

नायब सूबेदार राजा राम (जेसी-752313ए), 03 अगस्त 2005/01 जून 2005×

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

नायब सूबेदार नरमेश्वर तालुकदार (जेसी-757602वाई), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार जी शशीधरन नायर (जेसी-757306एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार मुहाब्बत सिंह (जेसी-757609के), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुरेश के (जेसी-757460एम), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार तुलसी सा (जेसी-757465एल), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार द्वारका राम (जेसी-757382ए), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार रामगोपाल (जेसी-757469एफ), 22 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार सत पाल (जेसी-757264डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह (जेसी-757565डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार एस एल पत्तनिया (जेसी-757354एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार नेम सिंह (जेसी-757383एच), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार एम एस रावत (जेसी-757386डब्ल्यू), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार सुन्दर सिंह (जेसी-757564एन), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार कमलेश्वर महतो (जेसी-757470ए), 18 अगस्त 2005/01 अगस्त 2005×

नायब सूबेदार वर्मा सिंह पनवर (जेसी-757470ए), 01 अगस्त 2005

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-757470एम), 01 अगस्त 2005

सूबेदार धर्म सिन्हा के रैंक में

नायब सूबेदार अमरेश राम त्रिपाठी (जेसी-756707ए), 13 अप्रैल 2005/18 मार्च 2005×

एच एम टी सी नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेंट के रैंक में

जे एन पात्रो (14610706डब्ल्यू अब जेसी-760615एफ), 01 अप्रैल 2006

डी के पति (14611318एल अब जेसी-760616के), 01 अप्रैल 2006

डी डी अर्जुन (14610348डब्ल्यू अब जेसी-760614वाई), 01 अप्रैल 2006

वी एस यादव (14607701एम अब जेसी-760613डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

एस पी सिंह (14605428के अब जेसी-760610एच), 01 मार्च 2006

सुखदेव घोश (14605072एफ अब जेसी-760608एल), 01 मार्च 2006

राजेन्द्र कुमार साहू (14604254एच अब जेसी-760606ए), 20 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

बनारसी दास (14604880एम अब जेसी-760607एच), 14 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट्रीशियन के रैंक में

वी तिनरसु (14604397एच अब जेसी-760642एल), 01 अप्रैल 2006

सचिदानन्द प्रसाद (14602068एन अब जेसी-760638एच), 20 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

राजु के ए (14604598एच अब जेसी-760643एन), 01 अप्रैल 2006

रसेल राज टी (14607746एम अब जेसी-760634एम), 01 अप्रैल 2006

मिथिलेश कुमार पांडे (14603037ए अब जेसी-760639एल), 09 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

एस एस यादव (14597258एन अब जेसी-760529डब्ल्यू), 31 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005×

मनोज कुमार सरकार (14609764एन अब जेसी-760636एक्स), 14 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

माया राम पाल (14604335एच अब जेसी-760641एच), 01 मार्च 2006

परिहृथव दिगंबर राव (14602030के अब जेसी-760630डब्ल्यू), 13 मार्च 2006/01 जनवरी 2006×

अशोक कुमार तिवारी (14605152वाई अब जेसी-760632एफ), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आरमोर के रैंक में

एस एलक्जेंडर (14608433ए अब जेसी-740624एच), 01 अप्रैल 2006

अश्वनी कुमार (14611331पी अब जेसी-760627डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2006

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वी एफ (ई एल एफ) के रैंक में

प्रमोद कुमार शिशोदिया (14575208एच अब जेसी-760644डब्ल्यू), 03 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

एस अप्पन्ना दोरा (14606229एच अब जेसी-760619एक्स), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

हरीश चन्द्र सेन (14609309एल अब जेसी-760621पी), 23 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

गवास विजय महादेव (14604304एच अब जेसी-760618पी), 16 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वेहिकल के रैंक में

विज्ञान मोहान्ती (14572600एक्स अब जेसी-760234ए), 20 अक्टूबर 2005/01 जून 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में

करतार सिंह (14609853एम अब जेसी-760262एम), 21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

पी पुरुसोथम आर (14608532एच अब जेसी-760249एच), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

बसन्त बालाह भट्ट (14608721एम अब जेसी-760255डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

दोपाना दामबुरू (14607976ए अब जेसी-760248ए), 20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक अरमोर के रैंक में

विष्वाजित बिसवास (14611765पी अब जेसी-760287वाई), 09 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

दया राम पाल (14612062ए अब जेसी-760289के), 22 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

सी एन चिट्टी (14573318वाई अब जेसी-760280पी), 27 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

के यू सूर्यान (14610575डब्ल्यू अब जेसी-760286डब्ल्यू), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

नवनीथा कृशनन बी (14613375एल अब जेसी-760290वाई), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

आर पी सरोज (14608223ए अब जेसी-760283एच), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

अशोक कुमार त्रिपाठी (14571228वाई अब जेसी-760271एन), 24 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेंट के रैंक में

एश एन जेना (14606853एफ अब जेसी-760266एच), 25 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक एविएशन के रैंक में

राजबीर (14591156एफ अब जेसी-760265ए), 22 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

राम सेवक (14565704डब्ल्यू अब जेसी-760269डब्ल्यू), 22 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एम वी) के रैंक में

सुरेश कुमार (14540022ए अब जेसी-760171एच), 13 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

अरुन कुमार त्रिपाठी (14539860एच अब जेसी-760169एल), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

अजान्थ कुमार टी आर (14539625के अब जेसी-760167एल), 01 नवम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

शिवजी राम (14540426एच अब जेसी-760294पी), 19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफ वी) के रैंक में

सुधा कान्त झा (14537786एन अब जेसी-760180के), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

प्राताप दास (14536962एन अब जेसी-760179पी), 25 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोर के रैंक में

मुकेश्वर दयाल (14550160पी अब जेसी-760229पी), 13 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

मनहे लाल लोदी (14550474डब्ल्यू अब जेसी-760227के), 08 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

बी के बिसवास (14559018वाई अब जेसी-760207डब्ल्यू), 17 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

सूखदेव (14546412वाई अब जेसी-760183एक्स), 11 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

टीपीएल प्रासाद राव (14549239एल अब जेसी-760212एफ), 06 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

गुजर एच एस (14547067एच अब जेसी-760192वाई), 08 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

सुरीन्द्र सिंह (14549389एफ अब जेसी-760217ए), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

विश्वनाथ ओरान (14549541के अब जेसी-760225वाई), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

यादव साजन सिंह पी सिंह (14548223एन अब जेसी-760204एच), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार से नायब सूबेदार झाईवर (एम टी) के रैंक में

नरेन्द्रा सिंह (14543354पी अब जेसी-760157डब्ल्यू), 16 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

मोहन सिंह (14543056वाई अब जेसी-760156एन), 17 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

सी सेखर प्रासाद सिंह (14543362एन अब जेसी-760158वाई), 01 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

हवलदार से नायब सूबेदार वैल्डर के रैंक में

सुर्या भान (14547141एल अब जेसी-760163के), 06 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

कृष्णा धान सिंगहा (14546874एल अब जेसी-760162एफ), 13 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

बी मिरथयुजया रेड्डी (14546678एल अब जेसी-759489एन), 01 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 *

हवलदार से नायब सूबेदार मेथल स्मिथ के रैंक में

पितावास महाराणा (14551043डब्ल्यू अब जेसी-760159एफ), 10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005 *

सूबेदार टैक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार एस राधाकृष्ण (जेसी-755356ए), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार बी. आर. पी. चन्द्रू (जेसी-755555एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार जय कनवर सिंह (जेसी-755523एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार प्रजय कुमार महापात्रा (जेसी-755557वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार शिव लाल यादव (जेसी-755358एल), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार के आर विठैबा (जेसी-755578पी), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार राम सागर यादव (जेसी-755353एम), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार कुसूम दत्ता (जेसी-755357एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार मोहन चन्द्र (जेसी-755565एक्स), 11 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005 *

नायब सूबेदार महेश चन्द्र (जेसी-755566ए), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार लक्ष्मण सिंह (जेसी-755570एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार के रामकृष्णदू (जेसी-755572एन), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार आर बी सिंह (जेसी-755584एच), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार शिवनाथ (जेसी-755588वाई), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार एम करूनाकरन (जेसी-755559के), 01 अप्रैल 2005

नायब सूबेदार दया शंकर प्रसाद (जेसी-755595पी), 01 मई 2005

नायब सूबेदार तरिक कुमार विसवास (जेसी-755532एम), 01 मई 2005

नायब सूबेदार पी जी रामन (जेसी-755511डब्ल्यू), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार ब्रिज विलास मिश्रा (जेसी-755528के), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार अब्दूल कलाम अन्सारी (जेसी-755574वाई), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार शाम कुमार (जेसी-755354पी), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-755583ए), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार सुरेश कुमार (जेसी-755510एन), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार सत्यदेव (जेसी-755800एल), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार देवेन्द्रनाथ मोहन्ती (जेसी-755514के), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार गुरदेव सिंह (जेसी-755744के), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार सीताराम सिंह (जेसी-755593के), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-755743एच), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार हार सिंह (जेसी-755515एम), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह (जेसी-755592एन), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार नरेन्द्र नाथ एम (जेसी-755575एफ), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार अनन्द पाल यादव (जेसी-756010एच), 01 अप्रैल 2005
 नायब सूबेदार प्रदेप कुमार बारिक (जेसी-755596एक्स), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार हारवीर सिंह (जेसी-755513एफ), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार जी बूपालन (जेसी-755590एन), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार विमल भट्टाचार्या (जेसी-755594एम), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार रविन्द्रनाथन टी एम (जेसी-755591वाई), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार विरेन्द्र यिंह (जेसी-755531के), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार आजाद अहमद अन्सारी (जेसी-755674के), 02 मई 2005/01 मई 2005*
 नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी-755468ए), 09 मई 2005/01 फरवरी 2005*
 नायब सूबेदार एम रविचन्द्रन (जेसी-755313एल), 13 मई 2005/01 मार्च 2005*
 नायब सूबेदार प्रसन कुमार झा (जेसी-755516पी), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार वासुदेव सरकार (जेसी-755517एक्स), 01 मई 2005
 नायब सूबेदार जितेन्द्र सिंह (जेसी-755529एम), 01 मई 2005
 सूबेदार आरटीजन (ईसी) के रैंक में
 नायब सूबेदार बेनु सिन्हा (जेसी-757206एच), 06 अप्रैल 2005/01 अक्टूबर 2004*

नायब सूबेदार सुदिप्ता कुमार रॉय (जेसी-758047एच), 02 मई 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार माति राम चोयल (जेसी-757243डब्ल्यू), 10 मई 2005/01 फरवरी 2005*

सूबेदार आरटीजन (एन ई) के रैंक में

नायब सूबेदार अदल सिंह (जेसी-754737पी), 04 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

नायब सूबेदार जी एस गोविन्दा (जेसी-754958एफ), 01 मई 2005

नायब सूबेदार कृष्णानन्द (जेसी-754951एक्स), 01 मई 2005

नायब सूबेदार बलबीर सिंह शर्मा (जेसी-752206वाई), 21 मार्च 2005/08 दिसम्बर 2005*

नायब सूबेदार शामा नन्द (जेसी-755018एच), 10 मई 2005/01 मई 2005*

सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

नायब सूबेदार रन्जन चन्द्र मण्डल (जेसी-753955एफ), 30 मई 2005/01 मई 2005*

सूबेदार एस के टी के रैंक में

नायब सूबेदार सुगर पाल सिंह (जेसी-754212एल), 01 मई 2005

सूबेदार डी डब्ल्यू के रैंक में

नायब सूबेदार राजेन्द्र प्रसाद चौबे (जेसी-757237एच), 05 अप्रैल 2005/01 फरवरी 2005*

नायब सूबेदार किशन सिंह (जेसी-755117एल), 08 अप्रैल 2005/08 दिसम्बर 2004*

सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

नायब सूबेदार कनाकन के (जेसी-752311पी), 25 मार्च 2005/01 फरवरी 2005*

सूबेदार रिलीजीयस टीचर के रैंक में

नायब सूबेदार देवकिनन्दन मिश्रा (जेसी-750708एच), 14 अप्रैल 2005/18 मार्च 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहीकल के रैंक में

किशन सिंह (सं. 14610693के अब जेसी-760333एच), 12 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

गौतम कुमार मानीक (सं. 14600038एक्स अब जेसी-760317एल), 17 दिसम्बर 2005/01 सितम्बर 2005*

सुनील कुमार (सं. 14609682एल अब जेसी-760329ए), 22 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

राज नारायन (सं. 14609318एमअब जेसी-760334एफ), 21 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

अत्तर सिंह (सं. 14610639एल अब जेसी-760332ए), 17 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

जुबु जोस (सं. 14613608एफ अब जेसी-760339के), 19 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

परमजीत त्रिवेदी (सं. 14611972एफ अब जेसी-760337वाई), 19 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

सुरेश कुमार (सं. 14610072एल अब जेसी-760326एम), 19 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

रमेश कुमार जावला (सं. 14610145एम अब जेसी-760328एक्स), 18 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

हरेन्द्र कुमार (सं. 14609260ए अब जेसी-760261के), 01 जनवरी 2006/01 सितम्बर 2005 *

पी पान्डा (सं. 14609845एन अब जेसी-760457एक्स), 04 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

ए के सामन्ता (सं. 14609949पी अब जेसी-760315ए), 26 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

भिकारी चरण साहू (सं. 14609673के अब जेसी-760454के), 07 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

डी आर मुर्ती (सं. 14612707एक्स अब जेसी-760465डब्ल्यू), 09 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

जगन्नाथ साहू (सं. 14609396के अब जेसी-760452वाई), 09 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

जी सीमाचलम (सं. 14610987एक्स अब जेसी-760460एक्स), 05 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

ओम प्रकाश सिंह (सं. 14610056एन अब जेसी-760453एफ), 07 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

कुमारी बाला नगन्ना (सं. 14610635ए अब जेसी-760459एच), 10 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

जावेद अहमद (सं. 14611556एक्स अब जेसी-760461ए), 07 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

बनाम्बर नायक (सं. 14610491एच अब जेसी-760456पी), 08 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

एन प्रकालाथन (सं. 14610566पी अब जेसी-760458ए), 13 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

सुरेश चन्द्र (सं. 14611797एक्स अब जेसी-760336डब्ल्यू), 05 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

अशोक मोर्या (सं. 14610334डब्ल्यू अब जेसी-760331एक्स), 30 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

के ब्रह्मा (सं. 14603567पी अब जेसी-760318एन), 22 दिसम्बर 2005/01 सितम्बर 2005 *

सैयद इस्लाम अली (सं. 14611357के अब जेसी-760335एन), 23 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

बी आर एस कुमार (सं. 14610990एक्स अब जेसी-760334एल), 27 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

सी मारी मुथू (सं. 14610321वाई अब जेसी-760455एम), 08 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

राम फल (सं. 14611891एफ अब जेसी-760464एन), 03 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक ए वेहीकल के रैंक में

उदय प्रकाश कुनवार (सं. 14611042एफ अब जेसी-760322डब्ल्यू), 19 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

समशेर (सं. 14572667डब्ल्यू अब जेसी-760316एच), 19 दिसम्बर 2005/01 जुलाई 2005 *

आर श्रीधरन (सं. 14610229ए अब जेसी-760321एन), 02 जनवरी 2006/01 जुलाई 2005 *

जी नागेश्वर डोरा (सं. 14612550एच अब जेसी-760323वाई), 15 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

अरून कुमार (सं. 14608268ए अब जेसी-760251ए), 07 जनवरी 2006/01 सितम्बर 2005 *

सरवन राम जागीर (सं. 146123355एल अब जेसी-760451डब्ल्यू), 09 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

के पी मुथैया (सं. 14613714ए अब जेसी-760448डब्ल्यू), 12 जनवरी 2006/01 अगस्त 2005 *

सतवीर सिंह (सं. 14611207एन अब जेसी-7603450एन), 20 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

राम कुमार राय (सं. 14611186एन अब जेसी-760519एम), 30 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005 *

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इलेक्ट के रैंक में

अजी कुमार के (सं. 14593343वाई अब जेसी-760350एच), 19 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005 *

साजी एम एल (सं. 14600586पी अब जेसी-760356के), 01 जनवरी 2006

अविनिन्द्र कुमार (सं. 14599026एन अब जेसी-760353डब्ल्यू), 16 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005 *

बद्री प्रसाद यादव (सं. 14602417एम अब जेसी-760357एम), 01 जनवरी 2006

लखवीन्द्र सिंह (सं. 14598319एम अब जेसी-760474एक्स), 10 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005 *

विजय कुमार उपाध्याय (सं. 14596477एचअब जेसी-760352एन),
20 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

सुरेन्द्र सिंह (सं. 14595724एमअब जेसी-760528एन), 28 जनवरी
2006/01 अक्टूबर 2005*

मुकुट बिहारी उपाध्याय (सं. 14597084वाई अब जेसी-760351एल),
16 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

बालागनेशन के (सं. 14598700एअब जेसी-760354वाई),
24 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (आर ओ) के रैंक में

मनोज कुमार दुबे (सं. 14571961के अब जेसी-760343एम),
17 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

पाटील भगवान गनपती (सं. 14580102एअब जेसी-760345एक्स),
19 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

मजमिल अली बरमुइया (सं. 14580406एक्सअब जेसी-760346ए),
17 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

सलगर बीरबल भिमा (सं. 14604126एलअब जेसी-760468के),
07 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सतपूते दिगम्बर अशरू (सं. 14602186एअब जेसी-760466वाई),
06 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

मोहनन पिल्लई आर (सं. 14595532एअब जेसी-760347एच),
16 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

सुभाष चन्द (सं. 14577940के अब जेसी-760273वाई), 26 जनवरी
2006/01 सितम्बर 2005*

चित्रव विजय कुमार रामलिंग (सं. 14604122पीअब
जेसी-760467एफ), 13 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक आरमोर के रैंक में

नरिन्दर पाल (सं. 14613370एमअब जेसी-760342के), 21 दिसम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

टी पी सिंह (सं. 14613116एचअब जेसी-760341एफ), 17 दिसम्बर
2005/01 अक्टूबर 2005*

बाबू लाल (सं. 14613710के अब जेसी-760278एक्स), 21 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005*

मनोज कुमार (सं. 14613471एअब जेसी-760469एम), 02 जनवरी
2006/01 अक्टूबर 2005*

विक्रम जीत शर्मा (सं. 14613598एच अब जेसी-760470एफ),
12 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेन्ट के रैंक में

लक्ष्मीधर साहू (सं. 14611316ए अब जेसी-760359एक्स),
01 जनवरी 2006

सुखदेव सिंह (सं. 14611459एफ अब जेसी-760360एम),
01 जनवरी 2006

बैजबासी पटेल (सं. 14609734डब्ल्यू अब जेसी-760358पी),
20 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

सत्यानन्द यादव (सं. 14610586एचअब जेसी-760472एम),
07 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक राडार के रैंक में

के एस मनकोटी (सं. 14583086वाईअब जेसी-760349एन),
15 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक कम्प्यूटर के रैंक में

एस के मंडल (सं. 14606891एच अब जेसी-760348एल),
23 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

महेश प्रसाद सिंह (सं. 14553822एक्सअब जेसी-760409एक्स),
13 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

अजय कुमार (सं. 14553852पीअब जेसी-760411पी), 23 जनवरी
2006/01 नवम्बर 2005*

विनोद कुमार (सं. 14553836एक्सअब जेसी-760410एम),
24 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिस्ट के रैंक में

सिद्धेश्वर कलिता (सं. 14546324एच अब जेसी-760412एक्स),
01 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मिथ के रैंक में

हरपाल सिंह (सं. 14551424एक्स अब जेसी-760415एल),
01 जनवरी 2006

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफ वी) के रैंक में

सुबोध कुमार शर्मा (सं. 14538747एफ अब जेसी-760394ए),
24 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

सुदर्शन प्रसाद साहा (सं. 14537848एच अब जेसी-760392पी),
27 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

पूरेन्द्र कुमार साहा (सं. 14539704वाई अब जेसी-760396एल),
01 जनवरी 2006

राम चन्द्र यादव (सं. 14539465पीअब जेसी-760395एच),
01 जनवरी 2006

सचिदानन्द पान्डे (सं. 14539386ए अब जेसी-760475ए),
09 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एम वी) के रैंक में

पन्जाबी जीत सिंह के (सं. 14540573एल अब जेसी-760385वाई), 24 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

सी के राय (सं. 14540252एन अब जेसी-760387के), 23 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

शिशुपाल सिंह जाट (सं. 14540302एनअब जेसी-760388एम), 26 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

राजेन्द्र यादव (सं. 14540829पीअब जेसी-760399पी), 21 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005*

विजय बहादुर सिंह (सं. 14540940एमअब जेसी-760391एम), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

सुधीर तिवारी (सं. 14540389एअब जेसी-760384डब्ल्यू), 02 जनवरी 2006/01 अक्टूबर 2005*

अनिल कुमार सिंह (सं. 14540598एक्स अब जेसी-760386के), 29 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

चन्द्रन मुलेरी पोइल (सं. 14540503एम अब जेसी-760390के), 12 जनवरी 2006/01 दिसम्बर 2005*

विद्या नन्द मिश्रा (सं. 14540962एल अब जेसी-760476एच), 14 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार फिटर (एफ डी) के रैंक में

गुलाब सिंह (सं. 14540800ए अब जेसी-760406के), 23 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (एमवी) के रैंक में

रविन्द्र कुमार सिंह यादव (सं. 14676340के अब जेसी-760397एन), 21 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005*

देव नारायण (सं. 14540624एनअब जेसी-760399वाई), 01 दिसम्बर 2005

नन्द किशोर त्रिवेदी (सं. 14540248एलअब जेसी-760477), 05 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार एवीएशन के रैंक में

बुधी बल्लभ (सं. 14553130एच अब जेसी-760481एन), 12 जनवरी 2006/04 दिसम्बर 2005*

दयानन्द (सं. 14536554एचअब जेसी-760408पी), 22 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

अमरजीत सिंह (सं. 14546603ए अब जेसी-760484एफ), 01 जनवरी 2006

महीपाल सिंह (सं. 14556063एनअब जेसी-760482डब्ल्यू), 19 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

मुकेश बाबू (सं. 14550099 डब्ल्यू अब जेसी-760480एल), 19 जनवरी 2006/04 दिसम्बर 2005*

एस जे पंचू (सं. 14536652एच अब जेसी-760483वाई), 09 जनवरी 2006/01 नवम्बर 2005*

लक्ष्मन चौहान (सं. 14539376डब्ल्यू अब जेसी-760407एम), 26 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (जीसीई) के रैंक में

जसराम सिंह (सं. 14558363एन अब जेसी-760485के), 05 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006*

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (राडार) के रैंक में

अश्वनी कुमार दिवेदी (सं. 14543178एच अब जेसी-760404वाई), 26 दिसम्बर 2005/01 अक्टूबर 2005*

ए के गौतम (सं. 14676534एमअब जेसी-760402एन), 22 दिसम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

चन्द्रन एन (सं. 14676454पीअब जेसी-760401एल), 23 दिसम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

बिजेन्द्र प्रसाद (सं. 14676425एअब जेसी-760400एच), 24 दिसम्बर 2005/01 अगस्त 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में

सरोज कुमार सिंह (सं. 14607901एच अब जेसी-760240एन), 01 सितम्बर 2005

सथिस कुमार एम पी (सं. 14608542एम अब जेसी-760250एक्स), 20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

रनजीत सिंह (सं. 14601421एच अब जेसी-760235एच), 18 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

मोहमद मोनिरुल इस्लाम (सं. 14607941के अब जेसी-760243एफ), 20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

अलोक कुमार (सं. 14608066वाई अब जेसी-760244के), 21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005*

जय नाथ प्रसाद (सं. 14611697एम अब जेसी-759960एच), 16 जून 2005/01 जून 2005*

जोशी कृष्ण सवलाराम (सं. 14604503डब्ल्यू अब जेसी-760068एक्स), 01 सितम्बर 2005

सी बी दास (सं. 14598781एल अब जेसी-760033एफ), 01 सितम्बर 2005

हरिष चन्द (सं. 14607144वाई अब जेसी-760081एफ), 01 सितम्बर 2005

बलबीर सिंह (सं. 14606244एक्स अब जेसी-760077वाई), 01 सितम्बर 2005

दुर्गा सिंह (सं. 14602514के अब जेसी-760061एन), 01 सितम्बर 2005

नरेश पाल (सं. 14607092एन अब जेसी-760079के),
01 सितम्बर 2005

कामराज टी व्ही पी (सं. 14599975ए अब जेसी-760032वाई),
01 सितम्बर 2005

निरन्जन जेना (सं. 14605542एफ अब जेसी-760072ए),
01 सितम्बर 2005

रमेश चन्दर (सं. 14600936डब्ल्यू अब जेसी-760036पी),
01 सितम्बर 2005

सुनिल कुमार कैल (सं. 14605876डब्ल्यू अब जेसी-760073 एच),
01 सितम्बर 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक्नीकल 'ए' वेहिकल के रैंक में
जोगिन्दर सिंह (सं. 14579260एच अब जेसी-760012एल), 01 अगस्त
2005/01 जून 2005×

सुभाष चन्दर (सं. 14576477एफ अब जेसी-760011एच),
01 अगस्त 2005/01 जून 2005×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक्नीकल (आर ओ) के रैंक में
जी समरसम (सं. 14578758डब्ल्यू अब जेसी-760274एफ),
01 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक्नीकल (आरमोर) के रैंक में
अरुन कुमार (सं. 14608878एम अब जेसी-760284एल),
20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

पुष्पेन्द्र कुमार पाल (सं. 14606023एल अब जेसी-760281एक्स),
20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

मनोज कुमार (सं. 14613193एक्स अब जेसी-760291एफ),
20 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

इकबाल सिंह (सं. 14613237के अब जेसी-760292के),
19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

मदन प्रसाद सिंह (सं. 14596521एफ अब जेसी-760135एक्स),
08 अक्टूबर 2005/01 जुलाई 2005×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (इलेक्ट्रीशियन) के रैंक में
सन्जय उपाध्याय (सं. 14608346एम अब जेसी-760044एन),
01 सितम्बर 2005

डी सी प्रताप कुमार (सं. 14611190एल अब जेसी-760047एफ),
01 सितम्बर 2005

परमेश सहा (सं. 14612061एक्स अब जे सी-760082के),
01 सितम्बर 2005

सुभाष सिंह (सं. 14586240एक्स अब जे सी-760083एम),
01 सितम्बर 2005

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (गन) के रैंक में

जगविन्दर सिंह (सं. 14610797एल अब जेसी-760127वाई),
01 अगस्त 2005/12 जून 2005×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक (एवियेशन) के रैंक में

अजित कुमार झा (सं. 14570673एल अब जेसी-760270एल),
21 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

गीथा कृष्णन नायर के (सं. 14574203ए अब जेसी-759875ए),
26 अगस्त 2005/01 मार्च 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार फिटर (फिल्ड) के रैंक में

धर्मा नन्द (सं. 14539950के अब जेसी-760172एल),
04 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

राम सिंह (सं. 14540463डब्ल्यू अब जेसी-760173एन),
07 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार व्ही एम (एम व्ही) के रैंक में

साजल कुमार दास (सं. 14536401वाई अब जेसी-760177के),
10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

एम के पाठक (सं. 14536483एम अब जेसी-760178एम),
11 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (आर ओ) के रैंक में

सी एस पोखरीयाल (सं. 14555073एल अब जेसी-760175वाई),
10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

बुद्धोपु तोगैया (सं. 14557512के अब जेसी-760176एफ),
14 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार व्ही एम (एम व्ही) के रैंक में

बसाप्पा काडशिटा नावर (सं. 14538095एन अब जेसी-760095एफ),
17 अगस्त 2005/01 जून 2005×

दिनेश प्रसाद (सं. 14540429डब्ल्यू अब जेसी-760171ए),
10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

एस पी मण्डल (सं. 14539588एफ अब जेसी-760166एक्स),
10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

राम बाबू (सं. 14539816वाई अब जेसी-760168एच),
13 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार प्रशिक्षित के रैंक में

मस्त राम (सं. 14546155एन अब जेसी-760160डब्ल्यू),
11 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नबा कुमार मण्डल (सं. 14546204एच अब जेसी-760161वाई),
10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्लर के रैंक में

एस के सिंह (सं. 14549054के अब जेसी-760165पी),
10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

पवन कुमार शर्मा (सं. 14547954पी अब जेसी-760164एम),
15 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार आरमोरर के रैंक में

शिव मुनि राम (सं. 14548123एच अब जेसी-760201पी),
10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

जोगन पाठक (सं. 14549398एच अब जेसी-760215पी),
08 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

बहादुर चन्द (सं. 14550265वाई अब जेसी-760230के),
14 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

गोपाल सिंह (सं. 14550453ए अब जेसी-760226एफ),
19 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

उमेश कुमार काकड (सं. 14549282एम अब जेसी-760216एक्स),
14 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

विट्ठल निकम (सं. 14546109एक्स अब जेसी-760232पी),
18 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

बी एल बिण्णोई (सं. 14547092एफ अब जेसी-760193एफ),
08 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

डेविड सुन्दर राज एम (सं. 14547077एम अब जेसी-760189वाई),
06 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

सनतनू मण्डल (सं. 14549021वाई अब जेसी-760208वाई),
07 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

कैरा कुडाडा (सं. 14548486एम अब जेसी-760206एन),
14 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

एस एन कुमार (सं. 14543340पी अब जेसी-760190एन),
30 सितम्बर 2005/01 सितम्बर 2005×

अशोक घोरपडे (सं. 14546416पी अब जेसी-760185एच),
18 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

जयराजन के एन (सं. 14549406डब्ल्यू अब जेसी-760221एच),
10 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

घनशाम (सं. 14549017डब्ल्यू अब जेसी-760205एल), 10 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

निल कन्ता सिंहा (सं. 14550067एन अब जेसी-760231एम),
08 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

राम चन्द्र प्रजापती (सं. 14549686पी अब जेसी-760228एम),
06 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

ए सी दत्ता (सं. 14548091एल अब जेसी-760198ए), 10 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

काली कुमार मण्डल (सं. 14549099के अब जेसी-760213के),
09 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

अर्जुन प्रसाद (सं. 14547880एल अब जेसी-760199एच),
06 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

आर एन सहा (सं. 14547704एन अब जेसी-760197एक्स),
06 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

पी के देब (सं. 14547703एल अब जेसी-760196पी), 10 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

उदय भान (सं. 14549526पी अब जेसी-760223एन), 10 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

रघुपथी ए (सं. 14547175एम अब जेसी-760194के), 7 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

बी जी यशवन्त राव (सं. 14549359के अब जेसी-760214एम),
06 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

इन्दरजित सिंह (सं. 14547467पी अब जेसी-760195एम),
07 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

बी आर खिचर (सं. 14550371एक्स अब जेसी-760220ए),
07 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

अशोक कुमार सिंह (सं. 14544733एक्स अब जेसी-760209एफ),
05 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

हावलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

राम पती पाण्डे (सं. 14557620एन अब जेसी-760049एम),
01 सितम्बर 2005

चौधरी बेहरा (सं. 14558043वाई अब जेसी-760149एक्स),
01 सितम्बर 2005

निरन्जन सिंह (सं. 14558534पी अब जेसी-760182पी), 06 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

आर व्ही कडादेवरु (सं. 14553321एक्स अब जेसी-760181एच),
07 अक्टूबर 2005/29 मई 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर (एम टी) के रैंक में

पी एस प्रधान (सं. 14542436एल अब जेसी-760152एक्स),
11 अक्टूबर 2005/01 सितम्बर 2005×

नेमी चन्द (सं. 14542786एक्स अब जेसी-760153ए), 08 अक्टूबर
2005/01 सितम्बर 2005×

एस आर मिश्रा (सं. 14542894एफ अब जेसी-760121एक्स),
01 अगस्त 2005

हनोमान सिंह (सं. 14542904ए अब जेसी-760125एन), 01 अगस्त
2005

सूबेदार टेक्नीकल के रैंक में

नायब सूबेदार गोपाल राम कालिराजा (जेसी-755904एम), 29 दिसम्बर 2005/01 दिसम्बर 2005 *

नायब सूबेदार राम बहादुर पाल (जेसी-755957एल), 14 फरवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

नायब सूबेदार गणेश चन्द्र महतो (जेसी-756040ए), 09 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार मोहम्मद यासीन (जेसी-756041एच), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रघुराज सिंह (जेसी-756042एल), 09 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार जवहार मल जाट (जेसी-756044डब्ल्यू), 03 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार शेर सिंह बिष्ट (जेसी-756045वाई), 09 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार घना श्याम सिंह (जेसी-756046एफ), 07 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रामबीर शर्मा (जेसी-756051एम), 08 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार प्रथीपन एम (जेसी-756054ए), 06 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार वचन वीर सिंह (जेसी-756056एल), 17 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार रामवीर मिस्त्री (जेसी-756157वाई), 11 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार विद्याधर (जेसी-756273एफ), 14 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार अनील कुमार सिंह (जेसी-756059वाई), 14 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार श्यामल कुमार रे (जेसी-756299डब्ल्यू), 14 मार्च 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार शीश राम (जेसी-756163एम), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ओमप्रकाश (जेसी-756164पी), 09 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार श्री क्रिष्णा राय (जेसी-756275एम), 09 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार बलवन्त सिंह (जेसी-756149ए), 09 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार हिम्मत सिंह मक्वाना (जेसी-756238वाई), 09 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रामअवतार गुर्जर (जेसी-756166ए), 08 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सुरेन्द्र कुमार (जेसी-756169एन), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार विजय कुमार टी (जेसी-756170एच), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार अमिर्थालिनाम ए (जेसी-756377एच), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार मोहम्मद सत्तार (जेसी-756621एक्स) 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राज बीर सिंह (जेसी-756286वाई), 12 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार गैन सिंह (जेसी-756300ए), 08 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार गोलाप सी एच भगाली (जेसी-756144एफ), 18 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार कारेड्ला प्रभाकरा राव (जेसी-756205एन), 13 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार पाटिल महादेव पान्डुरंग (जेसी-756309पी), 26 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार प्रसान्ता कुमार साहा (जेसी-756310के), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार जे एस माहुरकर (जेसी-756289एम), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ग्यान चन्द्र प्रसाद गुप्ता (जेसी-756239एफ), 22 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रामैय प्रसाद (जेसी-756240डब्ल्यू), 22 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार नरेन्द्र पाल सिंह सोम (जेसी-756241वाई), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रघुवीर सिंह (जेसी-756394एच), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सुल्तान सिंह (जेसी-756242एफ), 19 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रेतुमान बोरा (जेसी-756301एच), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ओम प्रकाश मिश्रा (जेसी-756248एच), 16 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार पी जयवेलु रेड्डी (जेसी-756321डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार प्रमानिक (जेसी-756473एक्स), 13 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार कौशल किशोर सक्सेना (जेसी-756371एफ), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार वेद प्रकाश (जेसी-756436के), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-756376ए), 14 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार एम डी जहीर हुसैन (जेसी-756630वाई), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार जोगेस्वर प्रधान (जेसी-756463एन), 14 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राम अछैकियर शुक्ला (जेसी-756620पी), 13 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार गुन्दूरि नागेस्वरा राव (जेसी-756440एम), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार काशी नाथ सिंह (जेसी-756441पी), 14 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार गजे सिंह (जेसी-756623एच), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार रसानन्दा बेहेरा (जेसी-756382एन), 12 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार त्रिभुवन सिंह (जेसी-756442एक्स), 13 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार दयाल चंद (जेसी-756443ए), 14 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार ब्रज लाल साहा (जेसी-756444एच), 08 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार राम किशोर सिंह (जेसी-756445एल), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार सुनील कुमार सिंह (जेसी-756386के), 21 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार जी जया सीलन (जेसी-756628एफ), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार अरुण चक्रबोर्ती (जेसी-756631एफ), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार बलबीर सिंह (जेसी-756447डब्ल्यू), 18 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार भुनू दास पात्रा (जेसी-756370वाई), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार बोन्गाला खागेस्वरा राव (जेसी-756676एफ), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार पिताम्बर सिंह (जेसी-756677के), 17 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार किशन सिंह (जेसी-756147पी), 09 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

नायब सूबेदार हरिहर गौडा (जेसी-756058डब्ल्यू), 04 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006 *

नायब सूबेदार भरत प्रसाद (जेसी-756141एन), 12 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006 *

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जी डी) के रैंक में

बिजया कुमार प्रधान (सं. 14561913डब्ल्यू अब जेसी-760666पी), 15 अप्रैल 2006/01 मार्च 2006×

एन के मूर्ति (सं. 14554831एल अब जेसी-760547वाई), 10 अप्रैल 2006/01 फरवरी 2006×

राजवीर सिंह (सं. 14562615एम अब जेसी-760592एल), 01 अप्रैल 2006

शिव नाथ ठाकुर (सं. 14561451पी अब जेसी-760544एल), 18 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

कुसुम पाल सिंह (सं. 14561631एक्स अब जेसी-760586एक्स), 18 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

सुभाष चन्द्र झा (सं. 14561950के अब जेसी-760590ए), 13 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

मंजीत सिंह बाजवा (सं. 14562237वाई अब जेसी-760591एच), 01 अप्रैल 2006

हवलदार से नायब सूबेदार एस के टी के रैंक में

हरपाल सिंह पुन्दिर (सं. 14544047के अब जेसी-760574एच), 13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

परमोध कुमार (सं. 14543691के अब जेसी-760654ए), 29 मार्च 2006/01 जनवरी 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार अरमोरर रैंक में

भूमन्ना श्रीअध्यद (सं. 14550649एन अब जेसी-760369एफ), 16 दिसम्बर 2005/01 नवम्बर 2005×

पुनियन चुतिया (सं. 14551699एल अब जेसी-760494एल), 14 फरवरी 2006/01 दिसम्बर 2005×

शिवेन्द्र पाठक (सं. 14551283एन अब जेसी-760578वाई), 27 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

डी जी रामसा (सं. 14551391एक्स अब जेसी-760579एफ), 17 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

कृष्णन मुरारि (सं. 14549273एल अब जेसी-760580डब्ल्यू),
20 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

डब्ल्यू बी आर नाथूजी (सं. 14550338ए अब जेसी-760581वाई),
13 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

प्रेम नारायण मीना (सं. 14550456एन अब जेसी-760584एम),
14 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

अवदेश कुमार शुक्ला (सं. 14551637एम अब जेसी-760576एन),
24 मार्च 2006/01 जनवरी 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राईवर एम टी के रैंक में

राम अवतार (सं. 14545548डब्ल्यू अब जेसी-760427ए), 01 जनवरी
2006/01 दिसम्बर 2005×

राम अवतार (सं. 14542116डब्ल्यू अब जेसी-760550वाई), 07 मार्च
2006/01 जनवरी 2006×

हर प्रसाद बिस्वास (सं. 14545663डब्ल्यू अब जेसी-760553एम),
29 मार्च 2006/01 जनवरी 2006×

नावल सिंह (सं. 14545097एफ अब जेसी-760554पी), 07 मार्च
2006/01 जनवरी 2006×

जगदीश प्रसाद (सं. 14545851एक्स अब जेसी-760557एच),
11 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

घना के टी दास (सं. 14545104एम अब जेसी-760558एल),
20 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

धनपता सिंह (सं. 14545107ए अब जेसी-760559एम), 10 मार्च
2006/01 फरवरी 2006×

रवीन्द्र प्रताप सिंह (सं. 14545108एच अब जेसी-760560एच),
24 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

ब्रज मोहन (सं. 14545938वाई अब जेसी-760562एन), 21 मार्च
2006/01 फरवरी 2006×

नरेन्द्र प्रताप (सं. 14545947वाई अब जेसी-760564वाई), 11 मार्च
2006/01 मार्च 2006×

दशरथ राम (सं. 14545969वाई अब जेसी-760567एम), 01 अप्रैल
2006

इन्द्र सिंह (सं. 14545972वाई अब जेसी-760568पी), 01 अप्रैल
2006

रवि कांत श्रीवास्तवा (सं. 14545627एल अब जेसी-760658डब्ल्यू),
04 अप्रैल 2006/05 मार्च 2006×

कमलेश्वर ठाकुर (सं. 14545199एक्स अब जेसी-760570एम),
01 अप्रैल 2006

सिध्दानाथ गिरि (सं. 14545196के अब जेसी-760569एक्स),
01 अप्रैल 2006

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मिथ के रैंक में

बदरी प्रसाद यादव (सं. 14551207एफ अब जेसी-760602के),
18 मार्च 2006/01 नवम्बर 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार वैल्डर के रैंक में

लखपति (सं. 14581072ए अब जेसी-760672एच), 06 अप्रैल
2006/05 मार्च 2006×

तपन कुमार डे (सं. 14549914एम अब जेसी-760669एच),
06 अप्रैल 2006/01 दिसम्बर 2005×

बुध्धा राम (सं. 14550448एफ अब जेसी-760671ए), 07 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006×

शशि कांत पांडे (सं. 14550482पी अब जेसी-760598एम), 16 मार्च
2006/01 मार्च 2006×

देवेन्द्र कुमार शर्मा (सं. 14548893पी अब जेसी-760594डब्ल्यू),
13 मार्च 2006/01 अक्टूबर 2005×

हवलदार से नायब सूबेदार ए एफ के रैंक में

धीरेन्द्र सिंह (सं. 14558672डब्ल्यू अब जेसी-760647के), 28 मार्च
2006/01 फरवरी 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार इलेक्ट (एम वी) के रैंक में

प्रमोद कुमार (सं. 14540544डब्ल्यू अब जेसी-760645वाई),
24 मार्च 2006/01 जनवरी 2006×

एस एन प्रसाद (सं. 14541295पी अब जेसी-760646एफ), 01 अप्रैल
2006

हवलदार से नायब सूबेदार मशीनिष्ट के रैंक में

विजय थापा (सं. 14548553एम अब जेसी-760673एल), 06 अप्रैल
2006/05 फरवरी 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (एम वी) के रैंक में

नन्द लाल तिवारी (सं. 14541011ए अब जेसी-760652पी), 25 मार्च
2006/01 फरवरी 2006×

राधे श्याम शर्मा (सं. 14541036एम अब जेसी-760653एक्स),
27 मार्च 2006/01 मार्च 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार वी एम (ए एफ वी) के रैंक में

राजेन्द्र राम (सं. 14544932एल अब जेसी-760650के), 01 अप्रैल
2006

हवलदार से नायब सूबेदार टी सी एम (लाईन) के रैंक में

सोम पाल (सं. 14676538एच अब जेसी-760649पी), 30 मार्च
2006/01 जनवरी 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एस ए) के रैंक में

सत्येन्द्र नारायण झा (सं. 14611977ए अब जेसी-760628वाई), 01
अप्रैल 2006

कूर्मा वी वी नागेश्वर राव (सं. 14608587एम अब जेसी-760623ए),
10 मार्च 2006/01 फरवरी 2006×

ब्रज नन्दन कुमार (सं. 14604987एफ अब जेसी-760681के),
01 अप्रैल 2006

कैलाश रौत (सं. 14611984डब्ल्यू अब जेसी-760684एक्स),
08 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (आर ओ) के रैंक में

सतीश कुमार (सं. 14613488एन अब जेसी-760683पी), 04 अप्रैल
2006/01 मार्च 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इलैक्ट्रीशियन के रैंक में

जगमोहन सिंह (सं. 14570544एल अब जेसी-760687एल), 08 अप्रैल
2006/01 जनवरी 2006×

जगबीर सिंह (सं. 14604630एल अब जेसी-760631वाई), 23 मार्च
2006/01 फरवरी 2006×

हवलदार से नायब सूबेदार टेक इन्स्ट्रुमेंट के रैंक में

के वी श्रीनिवास राव (सं. 14606603ए अब जेसी-760611एल),
01 अप्रैल 2006

हवलदार से नायब सूबेदार टेक बी व्हीकल के रैंक में

मनोरंजन प्रसाद (सं. 14610409एच अब जेसी-760679एम),
08 अप्रैल 2006/05 मार्च 2006×

अनित्या कोन्वार (सं. 14606064पी अब जेसी-760075एन), 12 अप्रैल
2006/01 सितम्बर 2005×

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक बी वेहिकल के रैंक में

देवेन्द्र कुमार सिंह (सं. 14608239एल अब जेसी-759847एन),
09 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

राजेश कुमार (सं. 14609218एफ अब जेसी-759849वाई), 09 अप्रैल
2005/01 अप्रैल 2005*

हरीदास मंडल (सं. 14608224पी अब जेसी-759848डब्ल्यू), 01 अप्रैल
2005

राज कुमार (सं. 14595403एफ अब जेसी-759841एम), 09 अप्रैल
2005/01 अप्रैल 2005*

शेके दिलीप नारायण (सं. 14613067एल अब जेसी-759836एफ),
04 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

मोहनन पी के (सं. 14584677एम अब जेसी-759720एल), 08 फरवरी
2005/01 जनवरी 2005*

राकेश कुमार (सं. 14610825एम अब जेसी-759727पी), 01 फरवरी
2005

चिनयाप्पा एस (सं. 14611277एम अब जेसी-759729ए), 01 मार्च
2005

उमेश नारायण सिंह (सं. 14612815एफ अब जेसी-759833एन),
11 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005*

श्याम वीर (सं. 14607354वाई अब जेसी-759543डब्ल्यू), 29 दिसम्बर
2004/01 अक्टूबर 2004*

दुरबादल कान्ती डे (सं. 14611439एम अब जेसी-759732ए),
01 मार्च 2005

* अजब सिंह राघव (सं. 14611551एल अब जेसी-759731एक्स),
01 मार्च 2005

हरी किशन (सं. 14613032पी अब जेसी-759837के), 15 अप्रैल
2005/01 अप्रैल 2005*

सुनील कुमार शुक्ला (सं. 14610430एल अब जेसी-759718एन),
01 मार्च 2005/01 जनवरी 2005*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक रेडियो के रैंक में

सुकुमार (सं. 14593989के अब जेसी-759806के), 01 अप्रैल 2005

रामचन्द्र पिचकिया (सं. 14590826एल अब जेसी-759803डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2005

पी मरीयाप्पन (सं. 14584266एन अब जेसी-759798डब्ल्यू),
15 मार्च 2005/14 नवम्बर 2004*

अशोक कुमार (सं. 14575545एक्स अब जेसी-759662एम),
23 अप्रैल 2005/17 अक्टूबर 2004*

ब्रज किशोर सिंह (सं. 14605620एन अब जेसी-759618एच),
15 मार्च 2005/14 नवम्बर 2004*

वी मथू कुमार (सं. 14605699एफ अब जेसी-759817डब्ल्यू),
15 अप्रैल 2005/14 नवम्बर 2004*

एच एम टी से नायब सूबेदार टेक एविएशन के रैंक में

गोपाल मंडल (सं. 14579934पी अब जेसी-759799वाई), 17 मार्च
2005/01 फरवरी 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

बिजय कुमार सिंह (सं. 14556879एक्स अब जेसी-759765एल),
06 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005*

हवलदार से नायब सूबेदार ड्राइवर (एमटी) के रैंक में

श्री कृष्ण पान्डे (सं. 14542338एल अब जेसी-759771वाई),
10 मार्च 2005/01 मार्च 2005*

महानन्द लिमा (सं. 14542238ए अब जेसी-759746ए), 19 मार्च
2005/01 मार्च 2005*

ए रमेश (सं. 14542276डब्ल्यू अब जेसी-759773के), 23 मार्च
2005/01 मार्च 2005*

बशिष्ठ तिवारी (सं. 14541277एम अब जेसी-759884एफ), 09 अप्रैल
2005/03 अप्रैल 2005*

कुल बाह साही (सं. 14542181डब्ल्यू अब जेसी-759887पी),
26 अप्रैल 2005/03 अप्रैल 2005*

हरीश पान्डे (सं. 14539046एक्स अब जेसी-759735एन), 04 फरवरी 2005/01 जनवरी 2005 *

चोग सिंह (सं. 14540507के अब जेसी-759572एल), 09 मार्च 2005/01 दिसम्बर 2004 *

जगत सिंह (सं. 14541932ए अब जेसी-759768वाई), 09 मार्च 2005/01 जनवरी 2005 *

कशमीर लाल (सं. 14542268एक्स अब जेसी-759772एफ), 09 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *

हनुमाप्पन बी (सं. 14542287एच अब जेसी-759774एम), 12 मार्च 2005/01 मार्च 2005 *

*(पिछली तारीख से श्रेष्ठता दी जाती है)

नियमित सेना

पक्के सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन के रैंक में

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन उन्निकृष्णन पी टी (जेसी-221715एन), 01 जनवरी 2004

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन बाबलु चक्रवर्ती (जेसी-223952डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन सुरवीर सिंह असवाल (जेसी-223939एम), 01 जनवरी 2004

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन नरेन्द्र कुमार (जेसी-722679एच), 01 फरवरी 2004

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन मोहन मुरारी शर्मा (जेसी-722519एच), 01 जून 2005

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन जगदीश चन्द्र खजुरिया (जेसी-722712पी), 01 जुलाई 2005

सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन मोहनन के (जेसी-722768एफ), 01 अगस्त 2005

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक (ए ओ सी) के रैंक में

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल पिताम्बर सिंह शाकिया (जेसी-722134एल), 01 अगस्त 2003

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल गगन सिंह (जेसी-722245एच), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार मेजर लिपिक जी डी राधेश्याम उपाध्याय (जेसी-722203डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार मेजर लिपिक जी डी सुचा राम (जेसी-722204वाई), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल मस्त राम (जेसी-722253एफ), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल अजीत प्रसाद सिंह (जेसी-722261ए), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल संत लाल (जेसी-722328एन), 01 फरवरी 2004

सूबेदार मेजर लिपिक जीडी प्रेम प्रकाश साहु (जेसी-722164एच), 01 फरवरी 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल भवानी पद चक्रवर्ती (जेसी-722327एल), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल मालिकार्जुनो पटनायक (जेसी-722329डब्ल्यू), 01 मई 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस प्रोविजन कपील चंद्र कार्फा (जेसी-722369एक्स), 01 मई 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस प्रोविजन गिरीश चंद्र (जेसी-722563एम), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल जनार्दन नायर (जेसी-722407एच), 01 मई 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल लाल सिंह (जेसी-722475डब्ल्यू), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल मोहन दासन एम (जेसी-722416के), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल राजेन्द्र सिंह (जेसी-722477एफ), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल मधुसूदन सिंह (जेसी-722420एम), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर लिपिक जी डी अशोक कुमार बन्दोपाध्याय (जेसी-722545के), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर लिपिक जी डी रन्धीर सिंह (जेसी-722481के), 01 जुलाई 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल किशोरी लाल अगरवाल (जेसी-722631पी), 01 अगस्त 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल होशियार सिंह बिर्जानिया (जेसी-722657के), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस प्रोविजन वी एन गोपी (जेसी-722671डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल कृत सिंह (जेसी-722678ए), 16 सितम्बर 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल बिरेन्द्र सिंह राजवार (जेसी-722736एफ), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस जी डी मैथु एम एम (जेसी-722688के), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्दोल रमेश कुमार सिंह (जेसी-722763एच), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल जय रमन वी एन (जेसी-722747एल), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल मोबिनुद्दिन टी (जेसी-722693पी), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल सिया रामसिंह (जेसी-722372एक्स), 01 फरवरी 2005

सूबेदार मेजर लिपिक जी डी भुरी सिंह चौहान (जेसी-722709पी), 01 फरवरी 2005

सूबेदार मेजर लिपिक जी डी हरी प्रसाद (जेसी-722729एच), 01 फरवरी 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल देवी सिंह (जेसी-722779एन), 01 मार्च 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल सूबेदार राम यादव (जेसी-722690एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार मेजर लिपिक जी डी रामा चंद्र नायर आर (जेसी-722778एल), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल सुरेन्द्र सिंह रावत (जेसी-722791पी), 01 जून 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल जी पुरुसोथमन (जेसी-722842एक्स), 01 जून 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल पाटील उत्तम राव बाबू राव (जेसी-722830एच), 01 जून 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल लाल चांद (जेसी-722930एन), 01 जून 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल बाबूजी जी (जेसी-722943एल), 01 जुलाई 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल श्रीधर देहुरी (जेसी-722894एम), 01 अगस्त 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल उमेद सिंह मीराल (जेसी-723025एल), 01 अगस्त 2005

सूबेदार मेजर लिपिक एस कन्ट्रोल भोला यादव (जेसी-722990एच), 01 अगस्त 2005

पक्के सूबेदार मेजर एस के टी के रैंक में

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी प्रकाश चंद (जेसी-722537एल), 01 अगस्त 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी जय प्रकाश लाम्बा (जेसी-722553एच), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी राम कुमार (जेसी-722595पी), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी अशोक कुमार सिंह (जेसी-722596एक्स), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी हरे कृष्णा भोवाल (जेसी-722612के), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी सागर चंद पाटियाल (जेसी-722654डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी जी एस एण्ड सी हरी बाहादुर घाले (जेसी-722676पी), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी फेन्जो वांगड़ी दुपका (जेसी-722737एफ), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एस एण्ड सी इन्द्र सिंह सेखावत (जेसी-722648एच), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी अम्यूनियन महावीर सिंह अत्रि (जेसी-722685डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी सुवास चंद्र जसरोटिया (जेसी-722758एक्स), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी नुसिनहा नन्द पाठक (जेसी-722780एच), 01 फरवरी 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी राज नारिन दुबे (जेसी-722784एन), 01 फरवरी 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी राम चरण (जेसी-722112एम), 01 फरवरी 2004

सूबेदार मेजर एस के टी अम्यूनियन प्रेम कुमार (जेसी-722101ए), 01 मार्च 2004

सूबेदार मेजर एस के टी वेपन संतोष सिंह (जेसी-722103एल), 01 मार्च 2004

सूबेदार मेजर एस के टी जी एस एण्ड सी जर्ज कुली के पी (जेसी-722452पी), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी प्रकाश चंद्र सामन्त राय (जेसी-722682एच), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी बोनोद चाथोथ (जेसी-722661एम), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर एस के टी जी एस एण्ड सी गोपाल सिंह राठौर (जेसी-722650ए), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर एस के टी सिग्नल हंस राज प्रसाद (जेसी-722652एल), 01 मई 2004

सूबेदार मेजर एस के टी वेपन वसंतन बी (जेसी-722744एक्स), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर एस के टी वेपन रजेन्द्र सिंह कौशिक (जेसी-722800एल), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर एस के टी सिग्नल सत्यवीर सिंह नागानीया (जेसी-722814एल), 01 जून 2004

सूबेदार मेजर एस के टी वेपन सरण सिंह जामाल (जेसी-722802डब्ल्यू),
01 अगस्त 2004

सूबेदार मेजर एस के टी सिग्नल प्रकाश चंद (जेसी-722815एन),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी जोगेन्द्र कुमार प्रधान
(जेसी-722816डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी मोहम्मद ओजेद होसेन
(जेसी-722897एफ), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी महावीर सिंह धनकर
(जेसी-722847डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस के टी सिग्नल अभय सिंह यादव (जेसी-722886पी),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस के टी वेपन मोती लाल (जेसी-722913एन),
01 दिसम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी मंजीत सिंह (जेसी-722852एफ),
01 दिसम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी रामानन्द शर्मा (जेसी-722887एक्स),
01 दिसम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस के टी वेपन मुरली धरन नायर सी
(जेसी-722876एल), 01 जनवरी 2005

सूबेदार मेजर एस के टी वेपन किकर सिंह (जेसी-722861एच),
01 फरवरी 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी दया शंकर सिंह (जेसी-722801एन),
01 अप्रैल 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी अक्षयवर नाथ तिवारी
(जेसी-722951के), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी ई वीजय कुमार (जेसी-723058डब्ल्यू),
01 अप्रैल 2005

सूबेदार मेजर एस के टी एम टी धने बदन राव मारुती (जेसी-
722934के), 01 मई 2005

सूबेदार मेजर एस के टी सिग्नल तुलसी राम (जेसी-723072एच),
01 अगस्त 2005

पक्के सूबेदार मेजर ड्राइवर के रैंक में

सूबेदार मेजर ड्राइवर एम टी जी एच कादर खान (जेसी-722823एम),
01 जुलाई 2003

सूबेदार मेजर ड्राइवर स्पेशल राजेन्द्र कुमार (जेसी-722557वाई),
01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर ड्राइवर एम टी सत्येन्द्र कुमार शर्मा (जेसी-722918एम),
01 अगस्त 2004

सूबेदार मेजर ड्राइवर एम टी नील कुमार (जेसी-724216एम),
01 मार्च 2005

सूबेदार मेजर ड्राइवर एम टी कुलदीप सिंह नेगी (जेसी-724239एन),
01 मई 2005

पक्के सूबेदार मेजर एस एच तकनिशियन के रैंक में

सूबेदार मेजर एस एच तकनिशियन स्वपन कुमार डे
(जेसी-723446एन), 01 नवम्बर 2004

पक्के सूबेदार मेजर एस एच जी डी के रैंक में

सूबेदार मेजर एस एच जी डी रोही तासवा (जेसी-722917के),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस एच जी डी मुटियाला वैकट राव (जेसी-722937एक्स),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार मेजर एस एच जी डी दाता राम (जेसी-722307एक्स),
01 जनवरी 2004

सूबेदार मेजर एस एच जी डी राम मानी चतुर्वेदी (जेसी-722559के),
01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर एस एच जी डी अशोक बापू जादव (जेसी-722560वाई),
01 अप्रैल 2004

सूबेदार मेजर एस एच जी डी कृष्ण कुमार (जेसी-722603एच),
01 मई 2004

सूबेदार मेजर एस एच जी डी सुशान्त घोष (जेसी-722966एल),
01 मई 2004

सूबेदार मेजर एस एच जी डी शशी मोहन झा (जेसी-723266एल),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस एच जी डी आर सी ठाकुर (जेसी-723267एन),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार मेजर एस एच जी डी राम दास सिंह (जेसी-723268डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार मेजर एस एच जी डी नदीम पाली आपाला राजू
(जेसी-724241एल), 01 मार्च 2005

सूबेदार मेजर एस एच जी डी सतवीर सिंह (जेसी-723752एच),
01 अप्रैल 2005

पक्के सूबेदार मेजर कारपेंटर (युनिट)/पेंटर (युनिट) के रैंक में

सूबेदार मेजर कारपेंटर (युनिट) दामोदर सोइन (जेसी-722495के),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार मेजर कारपेंटर एण्ड जेनर जगवीर (जेसी-724242एच),
01 मार्च 2005

सूबेदार मेजर पेंटर (युनिट) कुलदीप सिंह (जेसी-724263के),
01 मई 2005

पक्के सूबेदार मेजर टेक्स रेप के रैंक में

सूबेदार मेजर टेक्स रेप जय प्रकाश शर्मा (जेसी-724073एक्स),
01 फरवरी 2004

पक्के सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन के रैंक में

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन मन मोहन सिंह (जेसी-724128 डब्ल्यू), 01 जुलाई 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन जोगिन्दर सिंह (जेसी-724077एन), 01 जुलाई 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन ओम प्रकाश (जेसी-724129वाई), 01 जुलाई 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन राज कुमार (जेसी-724078डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन अशोक मुखोपध्याय (जेसी-724074ए), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सतगुर सिंह (जेसी-724075एच), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन अक्षय कुमार दास (जेसी-724130एस), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन राज कपूर (जेसी-724162डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन विरेन्द्र सिंह (जेसी-724135एम), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन धरम पाल (जेसी-724132वाई), 01 जनवरी 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सत नारायण (जेसी-724131डब्ल्यू), 01 जनवरी 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन गोपाल सिंह खयालिया (जेसी-724133एफ), 01 फरवरी 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन राधा कृष्णन पी (जेसी-724106एक्स), 01 मार्च 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन नारायणन सी (जेसी-724134के), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन शिव शंकर प्रसाद (जेसी-724076एल), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन उतपाला अदितया जेना (जेसी-724136पी), 01 मई 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन पाटिल पुनम चन्द यादव (जेसी-724137एक्स), 01 मई 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन मनजीत सिंह (जेसी-724222ए), 01 जून 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन कमरुद्दिन (जेसी-723993एच), 01 अगस्त 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन रमा कान्त वर्मा (जेसी-724275वाई), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन अमर सिंह (जेसी-724163वाई), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सूवाश कुमार सिंह (जेसी-724224एल), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन महावीर सिंह सिसोदिया (जेसी-724164एफ), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन बी रामानन्द शर्मा (जेसी-724165के), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन तेजवीर सिंह (जेसी-724166एम), 01 जनवरी 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन रबिन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-724225एच), 01 जनवरी 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन महामुलकर आर एम (जेसी-724167पी), 01 फरवरी 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन पुरुषोत्तमन सी के (जेसी-724223एच), 01 मार्च 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सुरेश सिंह (जेसी-724289वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन निराकर सेठी (जेसी-724290एन), 01 जून 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन सुनिल कुमार दास (जेसी-724276एफ), 01 जुलाई 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन शशी धरन नायर बी (जेसी-724291डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन अरधी महेशवर राय (जेसी-724355डब्ल्यू), 01 जुलाई 2005

सूबेदार अम्युनिशन तकनिशियन बैजू ए (जेसी-724398एल), 01 अगस्त 2005

पक्के सूबेदार क्लर्क ए ओ सी के रैंक में

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मोहम्मद मुस्ताक अहमद (जेसी-724107ए), 23 जून 2002

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रामा मूर्ति बागड़ि (जेसी-723709एफ), 01 जुलाई 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल महावीर प्रसाद वर्मा (जेसी-724601डब्ल्यू), 01 जुलाई 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन सुरेश चन्द्र शर्मा (जेसी-724561ए), 01 जुलाई 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी कशूडी राम जाना (जेसी-724502एन), 01 जुलाई 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी आनन्दा कमन (जेसी-724504वाई), 01 जुलाई 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी मोनिरुद्दिन शेख (जेसी-724506के), 01 जुलाई 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी तपस घोष (जेसी-724507एम), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी जोग राज सिंह (जेसी-724556पी), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राज पाल (जेसी-724540के), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जनारधन माडिवाल (जेसी-724602वाई), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी राम पाल यादव (जेसी-724541एम), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी दिवाकर प्रसाद धाजही (जेसी-724554के), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी राम सिंह नेगी (जेसी-724485वाई), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी राज रूप सिंह (जेसी-724489पी), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी अरून कुमार दुबे (जेसी-724486एफ), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी धनश्याम सिंह (जेसी-724487के), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी राम नारायण (जेसी-724577एल), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी नन्दा बल्लभ (जेसी-724583एन), 01 अगस्त 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी तेज पाल सिंह चौहान (जेसी-724510एम), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राजेन्द्रन पिल्लयी पि ए (जेसी-724603ए), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जनारदन दास (जेसी-724581एन), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी अशोक कुमार (जेसी-724544ए), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी एम डी आलम अनसारी (जेसी-724582डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी सुरेश कुमार (जेसी-724488एम), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राम पाल सिंह (जेसी-724558ए), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन मंगतू राम (जेसी-724559एच), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन छत्रल प्रभु दास (जेसी-724604के), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी जागीर सिंह जमोदिया (जेसी-724562एच), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी विरेन्द्र कुमार दिक्षित (जेसी-724605एम), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी विदया पती चौबे (जेसी-724583वाई), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी चान्द सिंह (जेसी-724326एफ), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी डि वी अशोक कुमार (जेसी-724584एफ), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन सुभाष चन्द्र सहारन (जेसी-724580एल), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन रविन्द्र सिंह मोहिला (जेसी-724585के), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन वर्मा रमेश कुमार गन्दलाल (जेसी-724652के), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सुरेश प्रकाश (जेसी-724563एल), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी डैनियल एम जे (जेसी-724542पी), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल शरवन सिंह राठौर (जेसी-724651एफ), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी गुरनाम सिंह (जेसी-724587पी), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी येरम रेड्डी लक्ष्मणा रेड्डी (जेसी-724557एक्स), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन राज कुमार सिंह (जेसी-724565डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन पंजाब सिंह (जेसी-724588एक्स), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल मोहिन्द्र पाल (जेसी-724590पी), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बिशम्बर सिंह (जेसी-724566वाई), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी मदन लाल (जेसी-724606पी), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी श्याम लाल यादव (जेसी-724579डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल रश पाल सिंह (जेसी-724567एफ),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल प्रेम सिंह रावत (जेसी-724591एक्स),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन पुशपेन्द्र सिंह (जेसी-724607एक्स),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी गुरुबचन सिंह (जेसी-724543एक्स), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल श्री राम (जेसी-724592ए), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन सुधीर कुमार सिंह (जेसी-724568एक्स),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल रामेश्वर (जेसी-724569एम), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार क्लर्क जी डी राम बचन (जेसी-724589एफ), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल थन्गा राजु वी (जेसी-724669एक्स),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल अशोक कुमार तिवारी (जेसी-724656ए),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी कृष्ण लाल गगयाम (जेसी-724670एम),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी सुधाकर लाल (जेसी-724657एच), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार क्लर्क पलती साहू (जेसी-724671पी), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल उमा शंकर शर्मा (जेसी-724722एक्स),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी परषोतम चन्द (जेसी-724672एक्स), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन साहब सिंह वर्मा (जेसी-724658एल),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार क्लर्क जी डी नित्या नन्द शर्मा (जेसी-724674एच), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार क्लर्क जी डी जोन पॉल एफ (जेसी-724613एल), 01 जनवरी
2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन मोति राम (जेसी-724689एफ), 01 जनवरी
2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन के सी वेहरा (जेसी-724704पी), 01 जनवरी
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी नरेश कुमार (जेसी-724660एच), 01 जनवरी
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी राकेश सिंह (जेसी-724653एम), 01 जनवरी
2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन सुरेन्द्र नाथ यादव (जेसी-724687ए),
01 जनवरी 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन गणेश प्रसाद यादव (जेसी-724673ए),
01 जनवरी 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी त्रीलोक सिंह (जेसी-724608ए), 01 फरवरी
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल दीप राज भान (जेसी-724659एन),
01 फरवरी 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी शेषदेवा मिश्रा (जेसी-724716के), 01 फरवरी
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी अमरनाथन (जेसी-724610के), 01 फरवरी 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी राम बिलास यादव (जेसी-724723ए), 01 फरवरी
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी कृष्णा चन्द श्वानशी (जेसी-724611ए),
01 फरवरी 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी किशोर कुमार सिंह चौहान (जेसी-724846एम),
01 फरवरी 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी नागपुरकर सुनिल रामचन्द्रन राव (जेसी-
724770एक्स), 01 फरवरी 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी दिवाकर के आर रायकंवर (जेसी-724740ए),
01 फरवरी 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन बिजय नारायन (जेसी-724741एच),
01 मार्च 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी गिलबर्ट एल (जेसी-724732एफ), 01 मार्च
2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन बिरेन्द्र प्रसाद भट्ट (जेसी-724731वाई),
01 मार्च 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी नेलातुरी रायप्पा (जेसी-724769एच), 01 मार्च
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल जगमाल सिंह (जेसी-724742एल),
01 मार्च 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल शत्रूघन मिश्रा (जेसी-724743एन),
01 मार्च 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल सुमेर सिंह (जेसी-724775डब्ल्यू), 01 मार्च
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्दोल एस के अस्मर अली (जेसी-725547ए),
01 मार्च 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन राज किशोर तिवारी (जेसी-724797पी),
01 अप्रैल 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन सुरेश चन्द्र (जेसी-724750के), 01 अप्रैल
2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन राम स्वरूप मिश्रा (जेसी-724981ए),
01 अप्रैल 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन तारा चन्द (जेसी-724798एक्स), 01 अप्रैल
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी राजिन्द्र कुमार (जेसी-724777एफ), 01 अप्रैल
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी नवीन चन्द्र शर्मा (जेसी-724778के), 01 मई
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल काशमीर सिंह (जेसी-724779एम),
01 मई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राम किशोर वर्मा (जेसी-724800के),
01 मई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सुन्दर लाल (जेसी-724812वाई), 01 मई
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल टेक चन्द्र शर्मा (जेसी-724813एफ),
01 मई 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी अनूप कुमार (जेसी-724848वाई), 01 मई 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी राम बहादुर (जेसी-724904एल), 01 मई 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन मुक्तिमनि रॉय (जेसी-724883ए), 01 मई
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी रविन्द्र देवलपुर (जेसी-724814एक्स), 01 मई
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी एस सहाय जोसफ (जेसी-724087एक्स),
01 जून 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल चुन्नी लाल (जेसी-724849ए), 01 जून
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी देवेन्द्र जी (जेसी-724815एम), 01 जून 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जोगिन्द्र सिंह यादव (जेसी-724867एच),
01 जून 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बलवन्त सिंह (जेसी-724817एक्स),
01 जून 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी वामन मरगा बाछे (जेसी-724816पी), 01 जून
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सन्त राम जोन (जेसी-724868एल),
01 जून 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जगदीश मुदगल (जेसी-724869एन),
01 जून 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी बालाजी सिंह (जेसी-724870एच), 01 जून
2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन हरी शंकर सिंह (जेसी-724871एल),
01 जून 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी सि राजेन्द्रन (जेसी-724882एक्स), 01 जून 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सूबे लाल शर्मा (जेसी-724505एफ),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बी वी जरजी बालेविया (जेसी-724578एम),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सचिदा नन्द सिंह (जेसी-724847पी),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल हरी ओम (जेसी-724881पी), 01 जुलाई
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जनारदन भारती (जेसी-724872एच),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल गुरमीत सिंह (जेसी-724851एक्स),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी बीरा किशोर दास (जेसी-724966एल),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी नामदेव जिवप्पा मोरे (जेसी-724949एल),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी हरे राम सिंह (जेसी-724950ए), 01 जुलाई
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल हरी हर प्रसाद सिंह (जेसी-724884एच),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन राधा कृष्णन सि वी (जेसी-724885एल),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल श्रीनिवास महापात्रा (जेसी-724914पी),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल ए एन पटनायक (जेसी-724886एन),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बिशनू मोहन पान्डा (जेसी-724905एन),
01 जुलाई 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल प्रमोद कुमार दास (जेसी-724906डब्ल्यू),
01 अगस्त 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल प्रताप कुमार साहू (जेसी-724888वाई),
01 अगस्त 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन दिनकरन एल (जेसी-724907वाई),
01 अगस्त 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राव जी भावे (जेसी-724915एक्स),
01 अगस्त 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन लक्ष्मी कांत शुक्ला (जेसी-724916ए),
01 अगस्त 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल नागेश्वर प्रसाद शुक्ला (जेसी-724917एच),
01 अगस्त 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन सत्यबीर सिंह (जेसी-724951एच),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जगमोहन सिंह यादव (जेसी-724918एल),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल महिपाल सिंह (जेसी-724908एफ),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोजिवन अभय सिंह (जेसी-724919एम),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल रोजन लाल पाल (जेसी-724920एच),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन गौलम अयुब (जेसी-724934एच),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन जनार्धन प्रसाद (जेसी-724921एल),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल हरनाम सिंह यादव (जेसी-724922एन),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन जय बहादुर सिंह (जेसी-724923डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन पाटिल महती गोविन्द (जेसी-724936एन),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन बादल कुन्डू (जेसी-724938वाई),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी रनवीर सिंह राना (जेसी-724924वाई),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल ओम प्रकाश यादव (जेसी-724925एफ),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी करन सिंह (जेसी-724926एल), 01 अक्टूबर
2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन बन्शी राम (जेसी-724939एफ),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन सुधिर कुमार बिस्वास
(जेसी-724940डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन सुरत सिंह जगलान (जेसी-724952एल),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन अशोक कुमार बावलि (जेसी-724953एन),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी मनफादी बादगिरी रेड्डी (जेसी-724955वाई),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन धिरेन्द्र कुमार पान्डा (जेसी-724967एन),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल श्री भगवान राम (जेसी-724968डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन प्रोवास बिस्वाश (जेसी-724957
के), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी मनसूर अहमद खान (जेसी-725008 के),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन नन्द लाल यादव (जेसी-725017एल),
01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन अजित कुमार मजूमदार (जेसी-
725010एफ), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अमीर चन्द पठानिया (जेसी-725018एन),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बलबीर चन्द (जेसी-725019डब्ल्यू),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बिश्वेश्वर मण्डल (जेसी-724982एस),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन बीरेन चन्द्र बारा (जेसी-725038एफ),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी रिशिकेश त्रिपाठी (जेसी-724983एल), 01 नवम्बर
2004

सूबेदार क्लर्क जी डी प्रकाश चन्द (जेसी-725009एम), 01 नवम्बर
2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन राजेश कुमार (जेसी-725020), 01 नवम्बर
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल राजेश्वर सिंह (जेसी-725011के), 01 नवम्बर
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल अंकुश पाटिल (जेसी-725012एम),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल हिमाल चन्द (जेसी-725021एन), 01 नवम्बर
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल हिरेन्द्र कुमार दुबे (जेसी-725022डब्ल्यू),
01 दिसम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी आर सेलवा राज (जेसी-725075पी), 01 दिसम्बर
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल जी राजन (जेसी-725023वाई), 01 दिसम्बर
2004

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल शिवास्थरू आर (जेसी-725039के),
01 दिसम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी भोपाल सिंह (जेसी-724969वाई), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी उपेंद्र कुमार (जेसी-725136एफ), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी अहमद अली खान (जेसी-724986वाई), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी बेकम्बर राजु (जेसी-725047एच), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क जी डी राम सिंह भंडारी (जेसी-724987एफ), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन युद्धवीर सिंह राघवा (जेसी-724755एच), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क एस प्रोविजन प्रभाकरन पिल्लई के (जेसी-724935एल), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल गनेश कुमार (जेसी-724984एन), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी बासवा राजू जे बी (जेसी-725024एफ), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी संकर जी एन (जेसी-724988के), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी ओम प्रकाश (जेसी-725076एक्स), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी भीम शंकर शर्मा (जेसी-724998एन), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी देबेंद्र कुमार (जेसी-724989एन), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी अशोक कुमार कोल (जेसी-724990एफ), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी रजिन्दर कुमार (जेसी-725014एक्स), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी जशवीर सिंह (जेसी-725015ए), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी गोकुल वालसन वी (जेसी-725016एच), 01 जनवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी नानू के (जेसी-724991के), 01 फरवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी हरीदशन के पी (जेसी-724999डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी जैकब एम ई (जेसी-725000एक्स), 01 फरवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी गुरुदयाल सिंह (जेसी-725026एन), 01 फरवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी हरीश चन्द मिश्र (जेसी-725001एन), 01 फरवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी सुरेंद्र सिंह (जेसी-725002एच), 01 फरवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी दया कृष्ण (जेसी-725027पी), 01 फरवरी 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी आर राजेंद्रन (जेसी-725066एन), 01 मार्च 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी एस जोती (जेसी-725041एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी गोपाल चंद्र सरकार (जेसी-725042के), 01 मार्च 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी भागीरथ ठाकुर (जेसी-725043एच), 01 मार्च 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी बिहारी लाल कौल (जेसी-725044), 01 मार्च 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी मदन मोहन (जेसी-725045एक्स), 01 मार्च 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी सनापाला आनंद राव (जेसी-725077ए), 01 मार्च 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता (जेसी-725078एच), 01 मार्च 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी शिव ओम नागेच्चा (जेसी-725079एल), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी अशोक कुमार (जेसी-725121वाई), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी चंद्र कांत (जेसी-725080ए), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार क्लर्क जी डी विपीन कुमार (जेसी-725081एच), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल सुरेंद्र प्रसाद साहु (जेसी-725082एल), 01 मई 2005

सूबेदार क्लर्क एस कन्ट्रोल बाबु लाल रे (जेसी-725103डब्ल्यू), 01 मई 2005

पक्के सूबेदार एस के टी के रैंक के में

सूबेदार एस के टी एम टी सत्य पाल सिंह (जेसी-723792के), 01 जुलाई 2003

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी नरका पुरम पौरैया (जेसी-723614एफ), 01 जुलाई 2003

सूबेदार एस के टी एम टी के प्रकाश (जेसी-723648पी), 01 अगस्त 2003

सूबेदार एस के टी सिग्नल भाष्कर प्रधान (जेसी-723943एक्स), 01 अगस्त 2003

सूबेदार एस के टी एम टी अशोक कुमार गुप्ता (जेसी-723734ए),
01 अगस्त 2003

सूबेदार एस के टी एम टी अजय शंकर पाठक (जेसी-723821एन),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी धन्दू सिंह वर्मा (जेसी-723877ए), 01 सितम्बर
2003

सूबेदार एस के टी एम टी जय प्रकाश पान्डे (जेसी-724040ए),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार एस के टी सिग्नल हेमन्त कुमार जोशी (जेसी-724348ए),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार एस के टी सिग्नल संजीव कुमार दास (जेसी-724233एम),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी बाबू नन्दन राम (जेसी-724257डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी प्रशांत कुमार मण्डल (जेसी-724250एम),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी फते बहादुर (जेसी-724283एक्स),
01 अक्टूबर 2003

सूबेदार एस के टी सिग्नल रवी बहादुर (जेसी-725285पी), 01 अक्टूबर
2003

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन दिगम्बर सिंह (जेसी-724336एल),
01 अक्टूबर 2003

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी श्याम बिहारी शर्मा
(जेसी-724382वाई), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी पी समपाथू (जेसी-724337एन), 01 अक्टूबर
2003

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन शिव कान्त (जेसी-724338डब्ल्यू),
01 अक्टूबर 2003

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन सत्य नारायण (जेसी-724311वाई),
01 अक्टूबर 2003

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी करम सिंह (जेसी-724313के),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन चक्रधर (जेसी-724339वाई), 01 नवम्बर
2003

सूबेदार एस के टी एम टी अशोक कुमार (जेसी-724314एम),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी सुरेश कुमार (जेसी-724388एफ), 01 नवम्बर
2003

सूबेदार एस के टी एस टी अर्जुन सिंह यादव (जेसी-724365ए),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी परषोत्तम लाल (जेसी-724315पी),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी स्वपन नन्दी (जेसी-724351ए), 01 नवम्बर
2003

सूबेदार एस के टी एम टी भगतावारसालन के के (जेसी-724316एक्स),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी जगमंदर सिंह (जेसी-724317ए),
01 नवम्बर 2003

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी सुभाष चंद (जेसी-724318एच),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार एस के टी सिग्नल सुरेंद्र प्रसाद (जेसी-724340के), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार एस के टी एम टी सुरजीत सिंह (जेसी-724352एच), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार एस के टी एम टी के एस चौहान (जेसी-724353एल),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन आर कृष्ण सामी (जेसी-724407),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार एस के टी वेपन राम लाल (जेसी-724512एक्स), 01 दिसम्बर
2003

सूबेदार एस के टी एम टी सुवास चंद शर्मा (जेसी-724515एल),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार एस के टी एम टी एस डी जलालुद्दीन अहमद
(जेसी-724516एच), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी महेंद्र सिंह ठाकुर (जेसी-724389के),
01 दिसम्बर 2003

सूबेदार एस के टी इंजीनियर खगेश्वर दास (जेसी-723945एच),
01 जनवरी 2004

सूबेदार एस के टी एम टी शुभ राम (जेसी-724041पी), 01 जनवरी
2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल रामायण प्रसाद वर्मा (जेसी-724390वाई),
01 जनवरी 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी कर्ण सिंह (जेसी-724447एच),
01 जनवरी 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी ईश्वर सिंह (जेसी-724373वाई),
01 जनवरी 2004

सूबेदार एस के टी एम टी के आर मधुसूदन (जेसी-724409एम),
01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल जैसी कुटियाल (जेसी-724408के),
01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी सुहरेदेशन नल्लारी चेल (जेसी-724374एफ), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल कुलदीप सिंह (जेसी-724476एक्स), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल मिलन कुमार बासू (जेसी-724306ए), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी एम टी चैन राम भुम्ला (जेसी-724448एल), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन लक्ष्मन हुलकुन्ड (जेसी-724457एल), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन राजेश कुमार यादव (जेसी-724449एन), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल राम अवतार (जेसी-724427पी), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी नरेन्द्र कुमार यादव (जेसी-724416एच), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी एम टी दीना नाथ (जेसी-724413पी), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी एम टी हेमन्त कुमार साहू (जेसी-724451एल), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन एस लक्ष्मी नारायण (जेसी-724415ए), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी इंजीनियर चम्पा लाल (जेसी-724450एच), 01 फरवरी 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी प्रेम चंद तिवारी (जेसी-724477ए), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी वेपन प्रफुल्ल सी एच चेतिया (जेसी-724517डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी एम टी अजय कुमार राय (जेसी-724478एच), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी धनन्जय महतो (जेसी-724452डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन राम चंद्र गुप्ता (जेसी-724453डब्ल्यू), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल राधे श्याम शर्मा (जेसी-724454वाई), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल विष्णु पाटिल (जेसी-724518वाई), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल राधा कृष्णन एन (जेसी-724428एक्स), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल जेम्स कुटी जेवीयर (जेसी-724519एफ), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन राम सिंह (जेसी-724479एल), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन गजेन्द्र सिंह (जेसी-724455एफ), 01 मार्च 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन जय प्रकाश सिंह तबोतिया (जेसी-724456के), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन रमेश प्रसाद (जेसी-724457एम), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन जितेंद्र सिंह (जेसी-724520डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार एस के टी वेपन पी के पांडा (जेसी-724511पी), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन जैलिश चंद्र शर्मा (जेसी-724514एच), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल सुखदेव सिंह (जेसी-724700वाई), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार एस के टी एम टी कमला कांत त्रिपाठी (जेसी-724535वाई), 01 मई 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन नाहर सिंह (जेसी-724593एच), 01 मई 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन पुष्कर सिंह (जेसी-724536एफ), 01 मई 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन दुर्गा प्रसाद (जेसी-724546एल), 01 मई 2004

सूबेदार एस के टी एम टी श्योकरम सिंह (जेसी-724521वाई), 01 मई 2004

सूबेदार एस के टी एम टी बलवीर सिंह (जेसी-724522एफ), 01 मई 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन बलदेव सिंह (जेसी-713798एल), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी पूर्ण सिंह चौहान (जेसी-724523के), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी गोकुल चंद (जेसी-724537के), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी दिनेश सिंह (जेसी-724538एम), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी कैलाश नाथ सिंह (जेसी-724818ए), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी देव राज (जेसी-724616वाई), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी जय सिंह चौहान (जेसी-724571के), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी जान जैकब (जेसी-724617एफ), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी थॉमस वरगिस (जेसी-724618के), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी महा सिंह (जेसी-724547एन), 01 जून 2004

सूबेदार एस के टी एम टी जगजीत सिंह (जेसी-723929एल), 01 जुलाई 2004

सूबेदार एस के टी एम टी मलकीयत सिंह (जेसी-724010पी), 01 जुलाई 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल धर्म पाल भानवार (जेसी-724122पी), 01 जुलाई 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन अवतार सिंह (जेसी-724619एम), 01 जुलाई 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी सीता राम चौहान (जेसी-724620एफ), 01 जुलाई 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी सदा शिव सारंगी (जेसी-724570एफ), 01 अगस्त 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी भेल्लो राम बुरो (जेसी-725219एल), 01 अगस्त 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी ज्योतीष चंद्र बर्मन (जेसी-724662एन), 01 अगस्त 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी जयन्ती प्रसाद (जेसी-724621के), 01 अगस्त 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन सूरज भान सिंह (जेसी-724628एन), 01 अगस्त 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी के एन वीट्टिल (जेसी-724622एच), 01 अगस्त 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन सुनिमल वसु (जेसी-724623पी), 01 अगस्त 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी जाधव रामचंद्र वानु (जेसी-724624एक्स), 01 अगस्त 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी लाल सिंह चाहर (जेसी-724625ए), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी संतोष कुमार पान्डे (जेसी-724626एच), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन रनजीत सिंह (जेसी-724822एच), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन उधबन्द पाल (जेसी-724678वाई), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन सैयद गुलाम सर्वर (जेसी-724747के), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस के टी एम टी सुरेंद्र किशोर (जेसी-724615डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस के टी सिग्नल धना शंकर ए (जेसी-724691एच), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन देवेश चंद्र (जेसी-724780एफ), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन विजय कुमार महापात्र (जेसी-724663डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन जंग बहादुर (जेसी-724664वाई), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन शिव बालक राम वर्मा (जेसी-724630एल), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन प्रेम बल्लभ (जेसी-724631एन), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार एस के टी अम्युनिशन ठगन वागलरी (जेसी-724632डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी आर के एस यादव (जेसी-724633वाई), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी राकेश कुमार (जेसी-724654पी), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी पाटिल सहजी भानु दास (जेसी-724634एफ), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी रमेश कुमार (जेसी-724636एच), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी अजीथ कुमार आर (जेसी-724637पी), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी हरपाल सिंह (जेसी-724638एक्स), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी गोपी ए (जेसी-724639ए), 01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस के टी एम टी शेष नाथ पान्डे (जेसी-723834एफ), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी जगराम सिंह (जेसी-724693एन), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी होशियार सिंह जाट (जेसी-724640पी), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी सत्यवीर सिंह (जेसी-724641एक्स), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी काकाडे दीपक केशव (जेसी-724642ए), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी स्वाती चरन यादव (जेसी-724643एच), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी एम टी कर्मजीत सिंह (जेसी-724644एल), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी एम टी शिव नाथ सिंह (जेसी-724725एल), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी प्रमोद कुमार (जेसी-724705एक्स), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी दिग्विजय पाल (जेसी-724706ए), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस के टी एम टी सुरेन्द्र सिंह चौहान (जेसी-723911पी), 01 जनवरी 2005

सूबेदार एस के टी सिग्नल डब्ल्यू निलधन सिंगा (जेसी-724094एन), 01 जनवरी 2005

सूबेदार एस के टी एम टी सुरेश बाबू एस (जेसी-724534डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

सूबेदार एस के टी एम टी रामावतार शर्मा (जेसी-724679एफ), 01 फरवरी 2005

सूबेदार एस के टी एम टी यासीन खान (जेसी-724707एच), 01 फरवरी 2005

सूबेदार एस के टी एम टी गुरनाम सिंह (जेसी-724708एल), 01 फरवरी 2005

सूबेदार एस के टी एम टी लक्ष्मी नारायण शर्मा (जेसी-724727डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

सूबेदार एस के टी एम टी राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-724782एच), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस के टी एम टी रामेश्वर दयाल शकिया (जेसी-724680डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस के टी एम टी तेज बहादुर राणा (जेसी-724719एक्स), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस के टी एम टी रामा शंकर राम (जेसी-724701एफ), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस के टी एम टी जगवीर शर्मा (जेसी-724681वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस के टी एम टी प्रताप सिंह (जेसी-724682एफ), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी एम टी दशरथ सिंह (जेसी-724702के), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी एम टी विजय कुमार रत्ना (जेसी-724683के), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी एम टी कांती लाल दास (जेसी-724690ए), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी रघुराज सिंह (जेसी-724783पी), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी भागीरथ राम (जेसी-724699पी), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी बेंजीगर जे (जेसी-724676एन), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी लक्ष्मी चंद (जेसी-724692एल), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी ए चंद्र शेखरन (जेसी-724717एच), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी राम निवास (जेसी-724720एम), 01 मई 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी चैन सिंह (जेसी-724694डब्ल्यू), 01 मई 2005

सूबेदार एस के टी वेपन रवीन्द्र नाथ झा (जेसी-724724एच), 01 मई 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी काली शंकर (जेसी-724698एम), 01 मई 2005

सूबेदार एस के टी एम टी रघुवीर सिंह (जेसी-724745वाई), 01 मई 2005

सूबेदार एस के टी जी एस एण्ड सी जगदीश (जेसी-724746एफ), 01 मई 2005

पक्के सूबेदार ड्राईवर के रैंक में

सूबेदार ड्राईवर एम टी अब्दुल रशीद अहमद (जेसी-724655एक्स), 01 जुलाई 2003

सूबेदार ड्राईवर एम टी सतनाम सिंह रन्धावा (जेसी-724961एच), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल एन पी वसन्तन (जेसी-724856डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2003

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल सुभाष चंद्र (जेसी-724879एक्स), 01 जनवरी 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल सुब्ब नारायण प्रसाद (जेसी-724947ए), 01 जनवरी 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल बक्षवार सिंह (जेसी-724933ए), 01 अप्रैल 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल सीता राम सिंह (जेसी-724975एम), 01 मई 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल रमेश चंद्रा (जेसी-725006वाई), 01 मई 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी बलवीर सिंह (जेसी-725062एक्स), 01 मई 2004

सूबेदार ओ एम एच ई रवीन्द्र नाथ पांडे (जेसी-725101एल), 01 मई 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल गोविंद चंद्र सारंगी (जेसी-725180एल), 01 मई 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी छोटे लाल शर्मा (जेसी-725151एक्स), 01 मई 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल गुलजारी लाल (जेसी-725215डब्ल्यू), 01 मई 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी किरण कुमार माल (जेसी-725223पी), 01 मई 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल शिव नारायण (जेसी-725264वाई), 01 मई 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी भारत भूषण (जेसी-725359वाई), 01 जून 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी बांके तिवारी (जेसी-725469एन), 30 जून 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल राजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-725470एच), 01 अगस्त 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी रामजी चौबे (जेसी-725471एल), 01 अगस्त 2004

सूबेदार ड्राईवर नृपेंद्र चंद्र नाथ (जेसी-725665एन), 01 अगस्त 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी ओम पाल सिंह (जेसी-725691पी), 01 अगस्त 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी इन्द्र पाल सिंह (जेसी-725692एक्स), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी पेरी चरला सीता राम राजु (जेसी-725730एच), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल अमर नाथ राय (जेसी-725731एल), 01 सितम्बर 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल नित्येश्वर प्रसाद राय (जेसी-725732एन), 01 अक्टूबर 2004

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल भंवर लाल (जेसी-725759एल), 01 दिसम्बर 2004

सूबेदार ड्राईवर एम टी प्रेम नाथ सिंह (जेसी-725733डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल सिंह इन्द्र सिंह (जेसी-725760ए), 01 फरवरी 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी बिंदा लाल सिंह (जेसी-723735एफ), 01 फरवरी 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी डी सुब्रामनीयाम (जेसी-725761एच), 01 मार्च 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी राजेन्द्र कुमार शुक्ल (जेसी-725762एल), 01 मार्च 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी श्याम नारायण राम (जेसी-725776एल), 01 मार्च 2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल शंकर सरकार (जेसी-725877वाई), 01 मार्च 2005

सूबेदार ड्राईवर स्पेशल चंद्र शेखर प्रसाद (जेसी-725966एक्स), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी प्रदीप शाकिया (जेसी-725969एल), 01 मई 2005

सूबेदार ड्राईवर एम टी यशपाल सिंह राणा (जेसी-725970ए), 01 मई 2005

सूबेदार ओ एम एच ई/स्पेशल भारत लाल शर्मा (जेसी-725971एच), 01 मई 2005

पक्के सूबेदार एस एच तकनिशियन के रैंक में

सूबेदार एस एच तकनिशियन मोहन सिंह (जेसी-725360एच), 01 जुलाई 2003

सूबेदार एस एच तकनिशियन रनबीर सिंह (जेसी-725398एक्स), 01 अगस्त 2003

सूबेदार एस एच तकनिशियन भरत सिंह (जेसी-725366पी), 01 नवम्बर 2003

सूबेदार एस एच तकनिशियन रमेश कुमार (जेसी-725361डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार एस एच तकनिशियन तपस कुमार विश्वास (जेसी-725363एफ), 01 मई 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन सतीश कुमार (जेसी-725364के), 01 मई 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन शेर सिंह (जेसी-725365एन), 01 मई 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन देवराजन वी वी (जेसी-725399ए), 01 मई 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन उदय मण्डल (जेसी-725570एन), 01 मई 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन हर सहाय सिंह (जेसी-725472एन),
01 मई 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन रवी आनंद राव (जेसी-725571डब्ल्यू),
01 जून 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन हरीश चंद्र सिंह (जेसी-725473डब्ल्यू),
01 जून 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन महा सिंह (जेसी-725512के), 01 जुलाई
2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन रामकेवल मिश्र (जेसी-725513एम),
01 अगस्त 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन राज बहादुर (जेसी-725474वाई),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन राम आश्रय (जेसी-725697डब्ल्यू),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन रंगराव जानु पाटिल (जेसी-725663एच),
01 सितम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन विजय कुमार मिश्र (जेसी-725664एल),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन नारायण चन्द्र विश्वास (जेसी-725698वाई),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन अरुण कुमार पांडे (जेसी-725736के),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन सुधाकर नायर (जेसी-725804एन),
01 नवम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन शिव नारायण (जेसी-725935एक्स), 01
नवम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन श्यामल चन्द्र सरकार (जेसी-725905ए),
01 दिसम्बर 2004

सूबेदार एस एच तकनिशियन रत्ना कान्त हाजारिका (जेसी-726026वाई),
01 फरवरी 2005

पद के सूबेदार एस एच जी डी के रैंक में

सूबेदार एस एच जी डी सतीश चन्द्र (जेसी-724685पी), 01 जुलाई
2003

सूबेदार एस एच जी डी राम किशोर तिवारी (जेसी-724861एफ),
01 अगस्त 2003

सूबेदार एस एच जी डी राजेश्वर सिंह (जेसी-724901एक्स), 01 अगस्त
2003

सूबेदार एस एच जी डी विजेन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-724902ए),
01 सितम्बर 2003

सूबेदार एस एच जी डी महेन्द्र प्रसाद (जेसी-724962पी), 01 नवम्बर
2003

सूबेदार एस एच जी डी गोपाल (जेसी-724963एक्स), 01 नवम्बर
2003

सूबेदार एस एच जी डी मोहमद जाहांगीर (जेसी-724978ए), 01 फरवरी
2004

सूबेदार एस एच जी डी अजय कुमार मुखर्जी (जेसी-724977एक्स),
01 फरवरी 2004

सूबेदार एस एच जी डी नव किशोर हरि चंद (जेसी-725007एफ),
01 मार्च 2004

सूबेदार एस एच जी डी तरण तमांग (जेसी-725033एच), 01 अप्रैल
2004

सूबेदार एस एच जी डी महावीर सिंह (जेसी-725099वाई), 01 अप्रैल
2004

सूबेदार एस एच जी डी के योगिया (जेसी-725071वाई), 01 अप्रैल
2004

सूबेदार एस एच जी डी रमेश चन्द्र पाढ़ी (जेसी-725065एल),
01 अप्रैल 2004

सूबेदार एस एच जी डी कामेश्वर सिंह (जेसी-725115एल), 01 अप्रैल
2004

सूबेदार एस एच जी डी गोबिंद प्रसाद मिश्र (जेसी-725185के),
01 मई 2004

सूबेदार एस एच जी डी अमल कुमार मजुमदार (जेसी-725186एम),
01 मई 2004

सूबेदार एस एच जी डी विजय कुमार (जेसी-725195एन), 01 मई
2004

सूबेदार एस एच जी डी महावीर प्रसाद (जेसी-725226एन), 01 मई
2004

सूबेदार एस एच जी डी जगता नंद शर्मा (जेसी-725214एन), 01 मई
2004

सूबेदार एस एच जी डी गोकारन नाथ भारती (जेसी-725266के),
01 मई 2004

सूबेदार एस एच जी डी अश्वनी कुमार राय (जेसी-725267एम),
01 मई 2004

सूबेदार एस एच जी डी सैयद सिराजोल इस्लाम (जेसी-725251पी),
01 मई 2004

सूबेदार एस एच जी डी वानेश्वर विश्वास (जेसी-725252के), 01 मई
2004

सूबेदार एस एच जी डी भरत कुमार विश्वास (जेसी-725402पी),
01 मई 2004

सूबेदार एस एच जी डी परीक्षीत साहु (जेसी-725286एक्स), 01 मई 2004	सूबेदार एस एच जी डी सुरेश एम वी (जेसी-725516ए), 01 सितम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी चन्द्र मोहन सिंहा (जेसी-725287ए), 01 जून 2004	सूबेदार एस एच जी डी तारसेम मशीह (जेसी-725477एम), 01 सितम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी जी पचाप्पन (जेसी-725367एक्स), 01 जून 2004	सूबेदार एस एच जी डी ओंकार सिंह (जेसी-725517एच), 01 अक्टूबर 2004
सूबेदार एस एच जी डी राधा कृष्णन के (जेसी-725410एन), 01 जून 2004	सूबेदार एस एच जी डी श्री निवास शर्मा (जेसी-725478पी), 01 अक्टूबर 2004
सूबेदार एस एच जी डी शिवाजी सिद्धा हनुमने (जेसी-725411डब्ल्यू), 01 जून 2004	सूबेदार एस एच जी डी विष्णु दत्त (जेसी-725519एन), 01 अक्टूबर 2004
सूबेदार एस एच जी डी प्रदीप कुमार छेत्री (जेसी-725400के), 01 जून 2004	सूबेदार एस एच जी डी परसु राम पांडे (जेसी-725572वाई), 01 अक्टूबर 2004
सूबेदार एस एच जी डी लाला राम (जेसी-725412वाई), 01 जून 2004	सूबेदार एस एच जी डी सोहन लाल (जेसी-725486एन), 01 अक्टूबर 2004
सूबेदार एस एच जी डी प्रीतम सिंह (जेसी-725368ए), 01 जून 2004	सूबेदार एस एच जी डी सुखेन्द्र सिंह (जेसी-725520एच), 01 नवम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी वीर सिंह यादव (जेसी-725370एक्स), 01 जुलाई 2004	सूबेदार एस एच जी डी महीपत सिंह (जेसी-725579एच), 01 नवम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी प्यार चंद (जेसी-725371ए), 01 जुलाई 2004	सूबेदार एस एच जी डी ओम प्रकाश (जेसी-725521एल), 01 नवम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी सूरज भान (जेसी-725401एम), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी नागेन्द्र सिंह (जेसी-725482एक्स), 01 नवम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी ए बाला कृष्णन (जेसी-725372एच), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी प्रताप सिंह (जेसी-725668एफ), 01 नवम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी गणेश चन्द्र सरकार (जेसी-725413एफ), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी ओम प्रकाश (जेसी-725617एम), 01 नवम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी रमेश चंद (जेसी-725373एल), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी लुकमन अली (जेसी-725618डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी राम कृपाल तिवारी (जेसी-725514पी), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी राम देव कापर (जेसी-725625एम), 01 दिसम्बर 2004
सूबेदार एस एच जी डी प्रताप चंद्र जाना (जेसी-725475एफ), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी जगन नाथ सिंह (जेसी-725481पी), 01 जनवरी 2005
सूबेदार एस एच जी डी गंगा राम वर्मा (जेसी-725476के), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी सदा नंद साहु (जेसी-725573एफ), 01 फरवरी 2005
सूबेदार एस एच जी डी बिकाश मंडल (जेसी-725484एच), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी दीप चंद शर्मा (जेसी-725669के), 01 फरवरी 2005
सूबेदार एस एच जी डी अरुण कुमार साही (जेसी-725485एल), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी कृष्ण सिंह (जेसी-725574के), 01 फरवरी 2005
सूबेदार एस एच जी डी ओम प्रकाश मिश्र (जेसी-725515एक्स), 01 अगस्त 2004	सूबेदार एस एच जी डी कमलेश (जेसी-725619वाई), 01 फरवरी 2005
	सूबेदार एस एच जी डी राम किशन (जेसी-725693ए), 01 फरवरी 2005

सूबेदार एस एच जी डी रोशन लाल (जेसी-725620एन), 01 फरवरी 2005

सूबेदार एस एच जी डी सरदार सिंह (जेसी-725580एक्स), 01 फरवरी 2005

सूबेदार एस एच जी डी बलजीत सिंह (जेसी-725576पी), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस एच जी डी हर्ष सिंह (जेसी-725577एक्स), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस एच जी डी ललीत मोहन सिंह धामी (जेसी-725705के), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस एच जी डी नारायण सरूप (जेसी-725578ए), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस एच जी डी हीरा लाल पटेल (जेसी-725621डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

सूबेदार एस एच जी डी राम दास पांडे (जेसी-725671एफ), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस एच जी डी बादल बाला (जेसी-725612के), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस एच जी डी रविन्द्र नाथ राय (जेसी-725673एम), 01 अप्रैल 2005

सूबेदार एस एच जी डी रोहतास कुमार शर्मा (जेसी-725622वाई), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी हक्के मौल्ला (जेसी-725623एफ), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी सुभाष सिंह (जेसी-725694एच), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी निर्मल कुमार माझी (जेसी-725695वाई), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी सदानंद पाल (जेसी-725674पी), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी अजीत कुमार सिंह (जेसी-725624के), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी बाबू लाल तेली (जेसी-725675एक्स), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी नारायण चन्द्र मंडल (जेसी-725706एम), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी नसीम अहमद शाह (जेसी-725696एन), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी युसूफ आली (जेसी-725707पी), 01 मई 2005

सूबेदार एस एच जी डी जय राम बैद्य (जेसी-725737एम), 01 मई 2005

पक्के सूबेदार कारपेंटर (यूनिट) के रैंक में

सूबेदार कारपेंटर (यूनिट) होशियार सिंह (जेसी-724465एल), 01 जुलाई 2003

सूबेदार कारपेंटर (यूनिट) हर लाल सिंह (जेसी-724550एन), 01 सितम्बर 2003

सूबेदार कारपेंटर (यूनिट) वरे लाल सिंह (जेसी-724420एल), 01 दिसम्बर 2003

सूबेदार कारपेंटर (यूनिट) सत्यवीर सिंह (जेसी-724482एल), 04 अक्टूबर 2004

सूबेदार कारपेंटर (यूनिट) किशन चांद (जेसी-724225ए), 01 मार्च 2005

पक्के सूबेदार ई आर (यूनिट) के रैंक में

सूबेदार ई आर (यूनिट) कालीदीन (जेसी-725032ए), 01 जून 2004

पक्के सूबेदार पेंटर (यूनिट) के रैंक में

सूबेदार पेंटर (यूनिट) सुन्दर सिंह (जेसी-724840एल), 01 फरवरी 2004

सूबेदार पेंटर (यूनिट) जीले सिंह (जेसी-725414के), 01 मई 2005

पक्के सूबेदार ओ एल पी के रैंक में

सूबेदार ओ एल पी होशियार सिंह (जेसी-725667वाई), 01 नवम्बर 2003

पक्के सूबेदार मेटल स्मिथ के रैंक में

सूबेदार मेटल स्मिथ वासवन नायर ई पी (जेसी-725375डब्ल्यू), 01 जुलाई 2003

पक्के सूबेदार टैक्स रैप के रैंक में

सूबेदार टैक्स रैप अभीमन्यु वर्मा (जेसी-725196डब्ल्यू), 01 फरवरी 2003

सूबेदार टैक्स रैप सुरेन्द्र राम (जेसी-724788एन), 01 फरवरी 2004

एन के कश्मीरा
अवर सचिव

सं. 506, दिनांक 18 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी सं., नाम, आर्म, सब्सटैंटिव तिथि

आई सी-37636, वी जे सिंह इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2006

आई सी-37592, होबाम जी सिंह इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2006

आई सी-37590, वी के सिंह ए सी, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-34589, अनिल कुमार श्रेष्ठ इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-37374, सुखजीत सिंह इन्फैन्ट्री, 01 मई 2005
 आई सी-34667, आर के राय इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-37599, के एस शेकहोन ए ओ सी, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37547, डी के गुरुंग इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37626 एच डी मिश्रा आर्टी, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37635 उनी चंद्रा शेखर इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37621 एन एस खत्री इन्ट, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-35516, संजय किशोर मैक इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-36685, के के गुप्ता ए सी, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-30957, एस शुक्ला ए ई सी, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-31914, ए के दादवाल ए ए डी, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-34978, एस एस शिरोही ए एस सी, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-38644, आर के वासल इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
 आई सी-38648, लाल केशावन मैक इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
 आई सी-38734, एम एस सहरावत ए एस सी, 07 जून 2006
 आई सी-38769, कुलवन्त सिंह इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
 आई सी-38781, एच एल कालरा इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
 आई सी-38838, एस पी सिंह, आर्टी, 07 जून 2006
 आई सी-38863, एन के झा इन्ट, 07 जून 2006
 आई सी-38880, एम एस मारकाले ए सी, 07 जून 2006
 आई सी-38889, अक्षय टोंगरी इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
 आई सी-38921, ए इकामबरम ई एम ई, 07 जून 2006
 आई सी-38942, जे के थापयाल इन्फैन्ट्री, 07 जून 2006
 आई सी-38955, तेज आर रावत आर्टी, 07 जून 2006
 आई सी-38959, पी जार्ज आर्टी, 07 जून 2006
 आई सी-38962, अनूप के केहर ए सी, 07 जून 2006
 आई सी-38973, एस पी शर्मा आर्टी, 07 जून 2006
 आई सी-38779, जी सी सिंघा आर्टी, 07 जून 2006
 आई सी-38975, पी तिवारी आर्टी, 07 जून 2006
 आई सी-35463, जे एस भूलर सिग्नल्स, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-37558, सी बी लाल ए ओ सी, 30 अप्रैल 2006

आई सी-37563, बारटेक आर पी इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37583, जी बी थापयाल इन्फैन्ट्री, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37589, आशीष के दत्ता ए ए डी, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37602, विजय वासुदेव, आर्टी, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37642, पी सी थापयाल आर्टी, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-37651, वी वी शर्मा आर्टी, 30 अप्रैल 2006
 आई सी-38119, एम एस चादव आर्टी, 09 जून 2005
 आई सी-38186, एन के गुप्ता ई एम ई, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-38191, आर के शर्मा इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004
 आई सी-38222, आर के रस्तोगी ए ई सी, 09 जून 2005
 ले. कर्नल से कर्नल (चयन द्वारा) के मूल रैंक में
 वैयक्तिक सं., नाम, आर्म, मूल रैंक की तिथि
 आई सी-39076, प्रवीण दीक्षित ए सी, 01 फरवरी 2005

अजय गोयल
 उप निदेशक
 एम एस-8ए

 अपर महानिदेशालय प्रादेशिक सेना/प्रा. सेना-3
 प्रादेशिक सेना में नायब सूबेदार के पद पर पदोन्नति

सं. 507, दिनांक 18 सितम्बर 2006--

सं., वर्तमान टी.जे.सं., रैंक, नाम, यूनिट, कब से

10135085, टी.जे.-4697, हवलदार हरदर्शन, 105 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) राज रिफ, 01 अगस्त 2000

10361294, टी.जे.-4699, हवलदार/क्लर्क कमान सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) जैक रिफ, 29 दिसम्बर 2000

10404866, टी.जे.-4700, हवलदार वृजनंदन लाल, 114 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) जाट, 05 अगस्त 2000

10405065, टी.जे.-4701, हवलदार राजेश सिंह, 114 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) जाट, 05 अगस्त 2000

10212369, टी.जे.-4712, हवलदार सुरेश भारती, 113 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) राजपूत, 01 दिसम्बर 2000

10244592 टी. जे.-4713, हवलदार डब्ल्यू बीरेन सिंह, 119 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) असम, 01 नवम्बर 2000

10244746 टी. जे.-4714, हवलदार प्रमोद चन्द्र ब्रह्मा, 119 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) असम, 01 नवम्बर 2000

10245165 टी. जे.-4715, हवलदार एन नोर्टन सिंह, 119 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) असम, 01 नवम्बर 2000

10181662 टी. जे.-4717, हव/क्लर्क मानु प्रताप सिंह, 111 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) कुमाऊं, 06 अक्टूबर 2000

12308045 टी. जे.-4718, हवलदार एस. ए. वासन, 1032 रेलवे इंजी. रेजी. (प्रादे. सेना), 03 नवम्बर 2000

12263441 टी. जे.-4719, हवलदार एम जे. राव, 1032 रेलवे इंजी. रेजी. (प्रादे. सेना), 01 जनवरी 2001

10361587 टी. जे.-4720, हवलदार पुन्नु राम, 126 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) जैक रिफ, 01 मई 2000

10479430 टी. जे.-4721, हवलदार पवन कुमार, 103 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) सिख लाइट इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2000

10479535 टी. जे.-4722, हवलदार जगजीत सिंह, 103 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) सिख लाइट इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2000

12263536 टी. जे.-4723, हवलदार पी. सी. चक्रवर्ती, 1032 रेलवे इंजी. रेजी. (प्रादे. सेना), 30 जून 2000

10361762 टी. जे.-4724, हवलदार अशोक कुमार, 126 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) जैक राइफ, 01 मई 2000

10361615 टी. जे. 4725 हवलदार अंग्रेज सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) जैक राइफ, 01 मई 2000

10361731 टी. जे.-4726, हवलदार दर्शन सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) जैक राइफ, 01 मई 2000

10361764 टी. जे.-4727, हवलदार राम लाल, 126 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) जैक राइफ, 01 मई 2000

10302135 टी. जे.-4728, हवलदार सिमा राम, 123 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) ग्रेनेडियर्स, 01 नवम्बर 2000

10302382 टी. जे.-4729, हवलदार भगीरथ सिंह, 123 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) ग्रेनेडियर्स, 01 नवम्बर 2000

10479654 टी. जे.-4730, हवलदार मोहन सिंह, 103 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) सिख लाइट इन्फैन्ट्री, 01 अक्टूबर 2000

12254480 टी. जे.-4731, हवलदार आर. जे. लोबो, 1032 रेलवे इंजी. रेजी. (प्रादे. सेना), 01 अप्रैल 2001

12681538 टी. जे.-4733, हवलदार मातादीन, जी. एच. (प्रादे. सेना), रोहतक, 08 मई 2001

10358640 टी. जे.-4735, हवलदार डी. मणि, 106 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) पैरा, 01 नवम्बर 2000

10359398 टी. जे.-4736, हवलदार विनोद कुमार, 106 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) पैरा, 01 नवम्बर 2000

10359384 टी. जे.-4737, हवलदार फौरन सिंह, 106 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना) पैरा, 01 जनवरी 2001

10259616 टी. जे.-4738, हवलदार हरे कृष्णा संखुआ, 120 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), बिहार, 01 अक्टूबर 2000

10260031 टी. जे.-4739, हवलदार लक्ष्मण बेहेरा 120 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), बिहार, 01 अक्टूबर 2000

10260140 टी. जे.-4740, हवलदार सुशील कुमार सिंह, 120 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), बिहार, 01 अक्टूबर 2000

10259971 टी. जे.-4741, हवलदार हरीश चन्द्र प्रधान, 120 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), बिहार, 01 अक्टूबर 2000

10119286 टी. जे.-4742, हवलदार डांगे दयानदेव चंद्रभान, 101 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2000

10227477 टी. जे.-4743, हवलदार देवीदास कोठारे, 118 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), ग्रेनेडियर्स, 01 जनवरी 2001

10227464 टी. जे.-4744, हवलदार चंद्रशेखर, 118 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), ग्रेनेडियर्स, 01 जनवरी 2001

10436554 टी. जे.-4745, हवलदार नेमपाल सिंह, 116 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), पैरा, 08 अगस्त 2001

10436361 टी. जे.-4746, हवलदार कन्या राम, 116 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), पैरा, 08 अगस्त 2001

10212442 टी. जे.-4747, हवलदार चर्चिता डे, 113 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), राजपूत, 01 जून 2001

10146641 टी. जे.-4748, हवलदार देसाई अप्पासाहेब सांताराम, 109 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री, 01 जून 2001

10146736 टी. जे.-4749, हवलदार बंसोडे रावसाहेब महादेव, 109 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री, 01 जून 2001

10149795 टी. जे.-4750, हवलदार पाटिल रावसाहेब अप्पासाहेब, 109 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री, 01 जून 2001

10466346 टी. जे.-4751, हवलदार सुरिन्दर सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), पंजाब, 01 अप्रैल 2001

10466193 टी. जे.-4752, हवलदार राजबीर सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रादे. सेना), पंजाब, 12 अप्रैल 2001

10273908 टी. जे.-4753, हवलदार सुकुमार सरकार, 121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़वाल राईफल, 01 मार्च 2001

10273919 टी. जे.-4754, हवलदार जगदीश चंद्र पाण्डा, 121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़वाल राईफल, 01 मार्च 2001

10273940 टी. जे.-4755, हवलदार कलानाथ मिश्रा, 121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़वाल राईफल, 01 मार्च 2001

10134835 टी. जे.-4768, हवलदार अनंत राम शर्मा, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 09 दिसम्बर 2000

10134881 टी. जे.-4769, हवलदार बलवंत सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 09 दिसम्बर 2000

10361722 टी. जे.-4770, हवलदार परशोत्तम लाल, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 मई 2001

10290768 टी. जे.-4771, हवलदार सुधाकरण के. जी., 122 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास राईफल, 01 जून 2001

10290724 टी. जे.-4772, हवलदार पी.के. जयराजन, 122 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास राईफल, 01 जून 2001

10290685 टी. जे.-4773, हवलदार उदयलाल डी., 122 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास राईफल, 01 जून 2001

10290902 टी. जे.-4774, हवलदार राजन पी.वी., 122 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मद्रास राईफल, 01 जून 2001

10479615 टी. जे.-4775, हवलदार सेम राम, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाई, 05 दिसम्बर 2000

10479765 टी. जे.-4776, हवलदार देव सिंह, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाई, 05 दिसम्बर 2000

10373810 टी. जे.-4777, हवलदार किसनाथ राम, 107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 जी. आर., 01 जून 2001

10149807 टी. जे.-4778, हवलदार पाटिल पंडित बाबू, 109 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट इन्फैन्ट्री, 01 सितम्बर 2001

10149818 टी. जे.-4779, हवलदार भेसरे शिवाजी बाबूराम, 109 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट इन्फैन्ट्री, 01 सितम्बर 2001

10197704 टी. जे.-4780, हवलदार छोटू राम, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 01 जून 2001

10197619 टी. जे.-4781, हवलदार जोगिन्दर पाल, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 01 जून 2001

10197876 टी. जे.-4782, हवलदार बलवंत, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 01 जून 2001

10198064 टी. जे.-4783, हवलदार बलकार सिंह, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 01 जून 2001

10373904 टी. जे.-4784, हवलदार नर बहादुर राय, 107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 जी.आर., 01 जून 2001

10273947 टी. जे.-4785, हवलदार राम अवतार राय, 121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़वाल राईफल, 02 मई 2001

10420517 टी. जे.-4786, हवलदार एम. वी. बासवराजप्पा, 115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 मई 2001

10420488 टी. जे.-4787, हवलदार मंजुनाथ राजप्पा, 115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 मई 2001

* 10420706 टी. जे.-4788, हवलदार शिवानिगैया हीरेमठ, 115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 मई 2001

10361727 टी. जे.-4789, हवलदार सुरेन्द्र कुमार, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 अगस्त 2001

10361822 टी. जे.-4790, हवलदार सुदर्शन कुमार, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 सितम्बर 2001

12687637 टी. जे.-4793, हवलदार विजय शंकर शर्मा, जी. एच. (प्रा. सेना), जयपुर, 01 सितम्बर 2001

10452389 टी. जे.-4794, हवलदार/क्लर्क सर्वनन आर., 117 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), द. गार्ड्स, 27 जून 2001

10466139 टी. जे.-4795, हवलदार बच्चन सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब राईफल, 01 सितम्बर 2001

10466275 टी. जे.-4796, हवलदार सतीश कुमार, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब राईफल, 01 सितम्बर 2001

10466377 टी. जे.-4797, हवलदार बलवान सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब राईफल, 01 सितम्बर 2001

10466226 टी. जे.-4798, हवलदार रघबीर सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब राईफल, 06 सितम्बर 2001

10212425 टी. जे.-4799, हवलदार जगदीश यादव, 113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत, 01 जून 2002

10259582 टी. जे.-4800, हवलदार विष्णु चरण पात्रा, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 06 नवम्बर 2001

10259553 टी. जे.-4801, हवलदार मदन मोहन साहू, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 06 नवम्बर 2001

10134961 टी. जे.-4802, हवलदार हरकेश सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 20 जून 2001

10404864 टी. जे.-4803, हवलदार श्याम सिंह, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 01 जून 2001

10405015 टी. जे.-4804, हवलदार अवदेश कुमार, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 01 जुलाई 2001

10389721 टी. जे.-4805, हवलदार भूपेन्द्र प्रसाद, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 सितम्बर 2001

10389429 टी. जे.-4806, हवलदार महेश प्रसाद शुक्ला, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 सितम्बर 2001

10389444 टी. जे.-4807, हवलदार उपेश कुमार सोनी, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 सितम्बर 2001

10389955 टी. जे.-4808, हवलदार धर्मेन्द्र कुमार पटेल, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 सितम्बर 2001

10260164 टी. जे.-4809, हवलदार मगनी चरण खुन्टिया, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 01 दिसम्बर 2001

10260205 टी. जे.-4810, हवलदार अभय कुमार स्वैन, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 01 दिसम्बर 2001

10260147 टी. जे.-4811, हवलदार ऋषिकेश जना, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 01 दिसम्बर 2001

10436420 टी. जे.-4812, हवलदार/क्लर्क सुरेश चंद्र गुप्ता, 116 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा, 15 दिसम्बर 2001

10405007 टी. जे.-4813, हवलदार हमीर सिंह, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 06 नवम्बर 2001

10361515 टी. जे.-4814, हवलदार राजिन्दर सिंह चिब, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 दिसम्बर 2001

10420431 टी. जे.-4821, हवलदार लक्ष्मण पाटिल, 115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 16 अगस्त 2001

10389650 टी. जे.-4822, हवलदार आर. के. पटेल, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 अक्टूबर 2001

12867058 टी. जे.-4824, हवलदार/क्लर्क जी. शिवाली, 414 ए.एस. सी. बटालियन मार्केटिंग (प्रा. सेना), 04 फरवरी 2002

10135091 टी. जे.-4825, हवलदार मोहन सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 15 जनवरी 2002

102227530 टी. जे.-4826, हवलदार वामन विलीयम भूइक, 118 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स, 01 जनवरी 2002

10244700 टी. जे.-4827, हवलदार गनेन्द्र डेका, 119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), असम राईफल, 15 जनवरी 2002

10146654 टी. जे.-4828, हवलदार कांबले सतप्पा शामराव, 109 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट इन्फैंट्री, 01 मार्च 2002

10181758 टी. जे.-4829, हवलदार बुद्ध सेन प्रसाद पाण्डेय, 111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ, 01 मार्च 2002

10404948 टी. जे.-4832, हवलदार सतीश चंद, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 09 अक्टूबर 2002

10373917 टी. जे.-4833, हवलदार लकपा तमंग, 107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 22 गोरखा रैजिमेंट, 01 अप्रैल 2002

10260278 टी. जे.-4834, हवलदार प्रकाश चन्द्र पुरस्ती, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 12 मार्च 2002

10420522 टी. जे.-4835, हवलदार बी. आर. प्रकाश, 115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 दिसम्बर 2001

10420476 टी. जे.-4836, हवलदार दुण्डाप्पा बासप्पा नावी, 115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 12 दिसम्बर 2001

10181776 टी. जे.-4837, हवलदार/क्लर्क सुभाष चन्द, 111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ, 01 जून 2002

10314443 टी. जे.-4838, हवलदार अमानत अली, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 08 दिसम्बर 2001

10314539 टी. जे.-4839, हवलदार विनोद कुमार, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 08 दिसम्बर 2001

10314688 टी. जे.-4840, हवलदार जाबर सिंह, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 08 दिसम्बर 2001

10314735 टी. जे.-4841, हवलदार बिजेन्द्र, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 08 दिसम्बर 2001

10314551 टी. जे.-4842, हवलदार देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 08 दिसम्बर 2001

10314736 टी. जे.-4843, हवलदार नन्द लाल, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 08 दिसम्बर 2001

10314744 टी. जे.-4844, हवलदार मोहन चन्द्र, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 08 दिसम्बर 2001

10314795 टी. जे.-4845, हवलदार राम खेलावन, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 08 दिसम्बर 2001

104166349 टी. जे.-4846, हवलदार प्रकाश सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 27 फरवरी 2002

104166366 टी. जे.-4847, हवलदार संता सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 27 फरवरी 2002

104166434 टी. जे.-4848, हवलदार सूरज भान, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 27 फरवरी 2002

104166581 टी. जे.-4849, हवलदार सुरेश कुमार, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 27 फरवरी 2002

10361695 टी. जे.-4850, हवलदार अशोक कुमार, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361666 टी. जे.-4851, हवलदार मुन्शी राम, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361793 टी. जे.-4852, हवलदार बलवीर सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361811 टी. जे.-4853, हवलदार सुभाष चन्द्र, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361836 टी. जे.-4854, हवलदार गुरबचन दास, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361900 टी. जे.-4855, हवलदार रमेश कुमार, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361902 टी. जे.-4856, हवलदार परशोत्तम लाल, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जनवरी 2002

10302449 टी. जे.-4857, हवलदार मेवा राम, 123 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स, 01 जनवरी 2002

10302393 टी. जे.-4858, हवलदार राम लाल, 123 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स, 01 फरवरी 2002

10197367 टी. जे.-4859, हवलदार गुरदेव राज, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 26 मार्च 2002

10197536 टी. जे.-4860, हवलदार तीरथ राम, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 26 मार्च 2002

10197684 टी. जे.-4861, हवलदार मस्त राम, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 26 मार्च 2002

10197672 टी. जे.-4862, हवलदार अशोक कुमार, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 26 मार्च 2002

10197813 टी. जे.-4863, हवलदार जय भगवान, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 26 मार्च 2002

10405171 टी. जे.-4864, हवलदार राज सिंह, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 10 अप्रैल 2002

10405021 टी. जे.-4865, हवलदार रघबीर सिंह यादव, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 10 अप्रैल 2002

10405080 टी. जे.-4866, हवलदार करण सिंह, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 10 अप्रैल 2002

10405141 टी. जे.-4867, हवलदार अहलकार सिंह, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 10 अप्रैल 2002

10405184 टी. जे.-4868, हवलदार देवेन्द्र सिंह, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 10 अप्रैल 2002

10119310 टी. जे.-4869, हवलदार कुलकर्णी हरिदास श्रीधर, 101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2002

10119365 टी. जे.-4870, हवलदार राम दादाराव गिरम, 101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2002

10328706 टी. जे.-4871, हवलदार कृष्ण प्रधानो, 125 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), द. गार्ड्स, 01 मार्च 2002

10328711 टी. जे.-4872, हवलदार टी श्रीनिवासुलू, 125 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), द. गार्ड्स, 01 मार्च 2002

10328873 टी. जे.-4873, हवलदार कंचरला सुदर्शनम, 125 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), द. गार्ड्स, 01 मार्च 2002

10314746 टी. जे.-4874, हवलदार प्रेमपाल सिंह, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 10 फरवरी 2002

10389706 टी. जे.-4875, हवलदार श्री सुखराम, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 फरवरी 2002

10389716 टी. जे.-4876, हवलदार अहिवरन प्रसाद पटेल, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 फरवरी 2002

10273911 टी. जे.-4877, हवलदार कौस्तुभ कांति करण, 121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़वाल राईफल, 01 अप्रैल 2002

10244650 टी. जे.-4878, हवलदार विनोद बाबू सिन्हा, 119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), असम, 01 मई 2002

10119376 टी. जे.-4879, हवलदार राजगुरू बालू पुरषोत्तम, 101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री, 01 जून 2002

10119432 टी. जे.-4880, हवलदार घोरपड़े सुधाकर देवीदास, 101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाइट इन्फैन्ट्री, 01 जनवरी 2002

10361690 टी. जे.-4881, हवलदार कुलदीप सिंह, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 10 जनवरी 2002

10361825 टी. जे.-4882, हवलदार सरदारी लाल, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 10 जनवरी 2002

10361837 टी. जे.-4883, हवलदार मेजर सिंह बन्दराल, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 10 जनवरी 2002

10361554 टी. जे.-4884, हवलदार ओंकार सिंह, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361503 टी. जे.-4885, हवलदार दलबीर सिंह, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361578 टी. जे.-4886, हवलदार पूरन चन्द, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 10 जून 2002

10361452 टी. जे.-4887, हवलदार गजन लाल, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361707 टी. जे.-4888, हवलदार अशोक कुमार, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361678 टी. जे.-4889, हवलदार बचन सिंह, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361584 टी. जे.-4890, हवलदार मोहिन्द्र सिंह, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361674 टी. जे.-4891, हवलदार राज पॉल, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361826 टी. जे.-4892, हवलदार उदयवीर सिंह, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361843 टी. जे.-4893, हवलदार प्रमोद सिंह, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361849 टी. जे.-4894, हवलदार अजीत कुमार, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361869 टी. जे.-4895, हवलदार गुरबचन दास, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361859 टी. जे.-4896, हवलदार ओम प्रकाश, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10361906 टी. जे.-4897, हवलदार मांगू राम, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जून 2002

10197648 टी. जे.-4898, हवलदार सदा राम, 153 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 15 अगस्त 2002

10420669 टी. जे.-4899, हवलदार मोहम्मद रफीक पटेल, 115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 12 मई 2002

10260002 टी. जे.-4900, हवलदार मायाधर प्रधान, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 09 अप्रैल 2002

10259793 टी. जे.-4901, हवलदार लक्ष्मी साह, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 21 मई 2002

10260162 टी. जे.-4902, हवलदार संतोष कुमार दास, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 21 मई 2002

10259707 टी. जे.-4903, हवलदार कौशल कुमार, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), बिहार, 21 मई 2002

10479180 टी. जे.-4904, हवलदार विरघू नाथ, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाइट इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2001

10479394 टी. जे.-4905, हवलदार लक्ष्मण गिर, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाइट इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2001

10479308 टी. जे.-4906, हवलदार लखी राम, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाइट इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2001

10479508 टी. जे.-4907, हवलदार ईश्वर दास, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाइट इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2001

10134839 टी. जे.-4908, हवलदार धनपत सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10134879 टी. जे.-4909, हवलदार आजाद सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10135077 टी. जे.-4910, हवलदार हुकम सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10135106 टी. जे.-4911, हवलदार पृथ्वी सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10135117 टी. जे.-4912, हवलदार राम अवतार शर्मा, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10135120 टी. जे.-4913, हवलदार राजेन्द्र सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10135122 टी. जे.-4914, हवलदार कमलेन्द्र सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10135126 टी. जे.-4915, हवलदार नरेन्द्र कुमार, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10135128 टी. जे.-4916, हवलदार वेद प्रकाश, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 17 जून 2002

10135146 टी. जे.-4917, हवलदार पृथ्वी सिंह, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 01 अगस्त 2002

10244752 टी. जे.-4918, हवलदार सतुरथा पातर, 119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), असम, 01 अक्टूबर 2002

10244782 टी. जे.-4919, हवलदार गुनिन हजारिका, 119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), असम, 01 अक्टूबर 2002

10244856 टी. जे.-4920, हवलदार पी. जयन्त कुमार सिंह, 119 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), असम, 01 अक्टूबर 2002

10479313 टी. जे.-4921, हवलदार नरेन्द्र सिंह, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाईट इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2001

10479312 टी. जे.-4922, हवलदार शाम सिंह, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाईट इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2001

10477928 टी. जे.-4923, हवलदार सुरजीत सिंह, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाईट इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2001

10479822 टी. जे.-4924, हवलदार लाल चन्द, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाईट इन्फैन्ट्री, 22 दिसम्बर 2001

10479868 टी. जे.-4925, हवलदार जसपाल सिंह, 103 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख लाईट इन्फैन्ट्री, 18 मार्च 2002

10373732 टी. जे.-4926, हवलदार अच्युतम गुरूंग, 107 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 गढ़वाल राईफल, 05 सितम्बर 2002

10182092 टी. जे.-4927, हवलदार राम राज, 111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ, 01 जून 2002

10181905 टी. जे.-4928, हवलदार उग्र सेन पटेल, 111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ, 01 जून 2002

10212679 टी. जे.-4929, हवलदार अशिम कुमार पाल, 113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत, 01 दिसम्बर 2002

10181729 टी. जे.-4930, हवलदार राघवेंद्र कुमार पाण्डे, 117 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ, 27 सितम्बर 2002

10181888 टी. जे.-4931, हवलदार रामेश्वर प्रसाद सिंह, 117 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ, 27 सितम्बर 2002

10181838 टी. जे.-4932, हवलदार गोकुल सिंह, 117 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ, 27 सितम्बर 2002

10135153 टी. जे.-4933, हवलदार अख्तर खान, 105 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राज. राईफल, 01 अगस्त 2002

10389480 टी. जे.-4934, हवलदार गंगा राम, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 04 नवम्बर 2002

10361810 टी. जे.-4935, हवलदार कमल सिंह, 155 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 जुलाई 2002

10302251 टी. जे.-4936, हवलदार दशरथ सिंह, 123 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), ग्रेनेडियर्स, 01 नवम्बर 2002

10361642 टी. जे.-4937, हवलदार राम सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 नवम्बर 2002

10361765 टी. जे.-4938, हवलदार अशोक कुमार, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 नवम्बर 2002

10361829 टी. जे.-4939, हवलदार सोम राज, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 नवम्बर 2002

10361864 टी. जे.-4940, हवलदार रमेश कुमार, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 नवम्बर 2002

10361904 टी. जे.-4941, हवलदार राम सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 नवम्बर 2002

10361841 टी. जे.-4942, हवलदार सतेन्द्र सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 नवम्बर 2002

10361877 टी. जे.-4943, हवलदार किशन सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राईफल, 01 नवम्बर 2002

10119468 टी. जे.-4944, हवलदार भोसले शिवाजी सदाशिव, 101 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), मराठा लाईट इन्फैन्ट्री, 01 नवम्बर 2002

10466532 टी. जे.-4945, हवलदार सुरेश कुमार, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 27 फरवरी 2002

10466545 टी. जे.-4946, हवलदार तेजवीर, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 27 फरवरी 2002

10314604 टी. जे.-4947, हवलदार सुरेश कुमार, 124 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 01 फरवरी 2002

10466638 टी. जे.-4948, हवलदार ऋषी पाल, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 01 अक्टूबर 2002

10466644 टी. जे.-4949, हवलदार अश्वनी कुमार, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 01 अक्टूबर 2002

10466672 टी. जे.-4950, हवलदार दया सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 01 अक्टूबर 2002

10389566 टी. जे.-4951, हवलदार नंद लाल, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 जुलाई 2002

10389680 टी. जे.-4952, हवलदार राम स्वयंवरनाई, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 जुलाई 2002

10389690 टी. जे.-4953, हवलदार राम मूरत तिवारी, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 जुलाई 2002

10389711 टी. जे.-4954, हवलदार श्री प्रताप सिंह भादोरे, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 जुलाई 2002

10389763 टी. जे.-4955, हवलदार श्री दिनेश प्रसाद गर्ग, 108 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 जुलाई 2002

10302563 टी. जे.-4956, हवलदार राम पाल, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 22 अक्टूबर 2002

10465953 टी. जे.-4957, हवलदार करण देव सिंह, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 22 अक्टूबर 2002

10466167 टी. जे.-4958, हवलदार विजय कुमार, 102 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पंजाब, 22 अक्टूबर 2002

10274018 टी. जे.-4959, हवलदार विरेन्द्र शाह, 121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़वाल राइफ., 01 नवम्बर 2002

10274131 टी. जे.-4960, हवलदार इन्द्रासन पाण्डेय, 121 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गढ़वाल राइफ., 01 नवम्बर 2002

10373968 टी. जे.-4961, हवलदार अदिप राय, 167 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), 11 गढ़वाल राइफ., 04 दिसम्बर 2002

10260247 टी. जे.-4962, हवलदार सपिन्द्र राय, 120 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), विहार, 08 दिसम्बर 2002

10181974 टी. जे.-4963, हवलदार राज बहोर पटेल, 111 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), कुमाऊँ, 27 सितम्बर 2002

10479251 टी. जे.-4964, हवलदार जगदेव सिंह, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10314780 टी. जे.-4965, हवलदार लोचन सिंह, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10314805 टी. जे.-4966, हवलदार आत्मा राम सिंह, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10314834 टी. जे.-4967, हवलदार नीलेश कुमार त्रिपाठी, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10314857 टी. जे.-4968, हवलदार लेख राज, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10315090 टी. जे.-4969, हवलदार रमेश चन्द्र, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10314933 टी. जे.-4970, हवलदार राजेन्द्र कुमार, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10479831 टी. जे.-4971, हवलदार प्रेम सिंह, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

14960 टी. जे.-4972, हवलदार रूप सिंह, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10314946 टी. जे.-4973, हवलदार सतीश कुमार, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

10405234 टी. जे.-4974, हवलदार प्रेम कुमार, 114 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 13 दिसम्बर 2002

10182129 टी. जे.-4975, हवलदार जित नारायण तिवारी, 151 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 01 जनवरी 2003

10181760 टी. जे.-4976, हवलदार सुभाष, 151 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 01 जनवरी 2003

10405175 टी. जे.-4977, हवलदार गिरन्द सिंह, 151 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जाट, 01 जनवरी 2003

10420667 टी. जे.-4978, हवलदार सतपपा गाड्डी, 115 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), महार, 01 अक्टूबर 2002

10358635 टी. जे.-5004, हवलदार सुब्रमण्यम के., 106 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा, 08 दिसम्बर 2002

10359143 टी. जे.-5005, हवलदार चक्रवर्ती के. आर., 106 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा, 08 दिसम्बर 2002

10359103 टी. जे.-5006, हवलदार शशिधरण नायर टी.जी., 106 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), पैरा, 08 दिसम्बर 2002

10212443 टी. जे.-5007, हवलदार राज नारायण प्रसाद, 113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत, 01 दिसम्बर 2002

10212590 टी. जे.-5008, हवलदार रविन्द्र नाथ सिंह, 113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत, 01 फरवरी 2003

10212669 टी. जे.-5009, हवलदार आशीष पाल, 113 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), राजपूत, 01 मार्च 2003

10197739 टी. जे.-5010, हवलदार गुरचरण सिंह, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 01 जनवरी 2003

10197899 टी. जे.-5011, हवलदार जागो सिंह, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 01 जनवरी 2003

10197962 टी. जे.-5012, हवलदार प्रदीप कुमार, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 01 जनवरी 2003

10197974 टी. जे.-5013, हवलदार मोय्य सिंह, 112 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), डोगरा, 01 जनवरी 2003

10227519 टी. जे.-5014, हवलदार प्रभु सिंह, 118 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), गेनेडियर्स, 01 अप्रैल 2003

10361888 टी. जे.-5015, हवलदार रामेश्वर सिंह, 126 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), जैक राइफ., 01 अप्रैल 2003

10314967 टी. जे.-5016, हवलदार अशोक कुमार शर्मा, 152 पैदल वाहिनी (प्रा. सेना), सिख, 27 नवम्बर 2002

बी. के. मल्होत्रा
अवर सचिव

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 508, दिनांक 19 सितम्बर, 2006:--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
श्री/श्रीमती					
01.	डी के रवि	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
02.	ए सक्थीवेल	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
03.	अमिनी जोसेफ	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
04.	जी आर मुथूकृष्णन	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
05.	के रमानी	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
06.	आर पी सुन्दरम	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
07.	जी चेंगल वरयान	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
08.	के कृष्णमूर्ति	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
09.	पी पेरियाकरुप्पन	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
10.	सुरिन्दर कुमार	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
11.	डी आर करुणाकरन	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
12.	वी एम जयसेखरण	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
13.	एस स्टेनली	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
14.	पी परमान	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
15.	ए राजारथिनम	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
16.	एम जमाल मैदीन	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
17.	आई जोसेफ	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
18.	आर जनार्दन	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
19.	वी पी श्रीनिवासन	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
20.	ए केसव रामा राव	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
21.	बी विजयन	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
22.	सी कृष्णास्वामी	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
23.	ए मुथूमणी	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
24.	ए ए निर्मल राज	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
25.	ई पुणियाकोटि	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
26.	बी सुन्दरमूर्ति	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
27.	आर कन्नडसन	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
28.	एस के बाजपेयी	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200

1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
29.	जी के अग्रवाल	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
30.	वी के गुप्ता	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
31.	ए के श्रीवास्तव	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
32.	ए एन सिंह	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
33.	पी सी मिश्रा	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
34.	यू के बाजपेयी	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
35.	के एम चौधरी	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	--वही--
36.	ओम प्रकाश	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
37.	वी एस श्रीवास्तव	डी एम एस आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
38.	बी आर जाटव	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
39.	बी के जैन	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
40.	एस बी पाण्डे	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
41.	विष्णु प्रकाश	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
42.	वी के अरोड़ा	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
43.	आर के संतोषी	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
44.	पी डी भट्ट	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
45.	हुकम सिंह राणा	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
46.	आनंद सिंह	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
47.	ए के गुप्ता	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
48.	के के कैलासिया	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
49.	रघुबीर सिंह	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
50.	वाई सी सिदौला	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
51.	वाचस्पति	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
52.	बी एस अरोड़ा	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
53.	एस के घोषल	आई आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
54.	एस डी गजेन्द्र	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
55.	वी भास्कर बाबू	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
56.	एम जी यतिश	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
57.	ज्योति आर सिंह	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
58.	ए संथा नायक	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
59.	के वासुदेव	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
60.	के टी श्रीनिवासैया	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--

1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
61.	आर साई गीता गिरीधरण	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
62.	जरिरुनिससा	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
63.	एस आर महेन्द्र	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
64.	एस वेणुगोपाल	एल आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
65.	के डेनियल प्रसाद	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
66.	वी अंजनया मूर्ति	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
67.	के जी के मूर्ति	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
68.	ए वी हनुमंथा राव	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
69.	वी हनुमंथा राव	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
70.	एम वी नरसिंहा राव	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
71.	जी पापा राव	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
72.	के सेशागिरि राव	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
73.	के जाचारिया	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
74.	ए उषा रानी	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
75.	वी कन्याचारी	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
76.	बी वी एन मूर्ति	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
77.	पी श्रीनिवास राव	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
78.	टी वेंकट चारी	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
79.	सी एच श्रीनिवास	एन एस टी एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
80.	पी सी दीक्षित	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
81.	ए के शर्मा	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
82.	एस के शर्मा	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
83.	सुरेन्द्र कुमार	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
84.	पीताम्बर दत्त	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
85.	आर के शर्मा	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
86.	एस पी वर्मा	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
87.	जगदेव प्रसाद	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
88.	के डी शर्मा	डी ई ए एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	-वही--
89.	वी राजेन्द्रन	डी ई बी ई एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200
90.	सी श्रीनिवास चारुलु	एम टी आर डी सी	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
91.	एम नंजुदेसवर	डी ए आर ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--
92.	सी वी मधुरा	डी एफ आर एल	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	-वही--

1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
93.	एस पी थॉमस	डी ई बी ई एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	रु. 8,000-275-13,500
94.	आर सगायराज	डी ई बी ई एल	तकनीकी अधिकारी 'ए'	तकनीकी अधिकारी 'बी'	--वही--
95.	एन यदैया	आर सी एम ए	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200

राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाये गये वर्तमान ग्रेड से अगले ग्रेड पर दिनांक 02 नवम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
01.	ई आर शनमुगम	सी वी आर डी ई	तकनीकी अधिकारी 'बी'	तकनीकी अधिकारी 'सी'	रु. 10,000-325-15,200

2. निम्नलिखित व्यक्तियों को एस टी ए 'सी' से तकनीकी अधिकारी 'ए' के पद पर दिनांक 01 सितम्बर 2005 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	प्रयोगशाला/स्थापना	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नति	पदोन्नत ग्रेड का वेतनमान
1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
01.	ए श्रीराम नायक	डी एल आर एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
02.	ऋतु गोपाल	डी ई ए एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
03.	मनोज अथवाल	डी ई ए एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
04.	राजेन्द्र कुमार	डी ई ए एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
05.	गुलजारी लाल	आई आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
06.	वी के चौहान	आई आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
07.	विनोद कुमार	आई आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
08.	पी वी एन राजू	एन एस टी एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
09.	पी सत्यनारायणा	एन एस टी एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
10.	सी एच एस आर ए श्रीनिवास राव	एन एस टी एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
11.	के पद्मावती	एन एस टी एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
12.	के एल रेड्डी	डी एम एस आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
13.	कुलदीप सिंह सिया	डी एम एस आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
14.	पूनम अवस्थी	डी एम एस आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
15.	एस के शुक्ला	डी एम एस आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
16.	अब्दुल वाजिद खान	डी ई बी ई एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

1	2	3	4	5	6
	श्री/श्रीमती				
17.	वी के मोहन प्रकाश	डी ई बी ई एल	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	रु. 7,450-225-11,500
18.	देवराज	डी ए आर ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
19.	बी गीता	एम टी आर डी सी	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
20.	जी बालासुब्रमणियम	जी टी आर ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
21.	जी एम गणेशन	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
22.	पी पणीरसेल्वम	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
23.	पी भवानीशंकर	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
24.	एस मुरलीधरण	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
25.	टी एस सोमसुन्दरम	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
26.	वी दीकाप्पन	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
27.	ए चंद्रसेखर	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
28.	पी संथामूर्ति	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
29.	टी प्रकाश कुमार	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
30.	बी रमेश बाबु	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
31.	पी पलानिप्पन	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
32.	एम मुथूकृष्णन्	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
33.	एन संताराम	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
34.	पी के गुणासेकरण	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
35.	वी सेथुरामन	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
36.	आर रैघाराजू	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
37.	एस एस डोमिनिक	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
38.	एच सिवा कुमार	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
39.	बी सुगुमारण	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
40.	ए मुथू	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
41.	पी प्रभावति	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
42.	ए डी कन्नागी	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--
43.	एम ए विजयकुमार	सी वी आर डी ई	एस टी ए 'सी'	तकनीकी अधिकारी 'ए'	--वही--

बी. बी. शर्मा

उप निदेशक (कार्मिक-1)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन

सं. 509, दिनांक 19 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :

डील, देहरादून के श्री अशोक सेन, वैज्ञानिक 'जी' को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 से वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/- पर।

श्री जी एलानगोवन, वैज्ञानिक 'जी', निदेशक, ए. डी. ई., बंगलौर को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से उसी पद पर रु. 22,400-525-24,500/- के वेतनमान पर।

डी ई बी ई एल, बंगलौर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2006 से।

नाम	पदनाम	पदोन्नति	वेतनमान
श्री/श्रीमती			
अनुराधा रबी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,400
डा. के जीवारत्नम	--वही--	--वही--	--वही--
डा. जे एच जगन्नाथ	--वही--	--वही--	--वही--
एस जी गुरुप्रसाद	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
डा. एस ज्योत्सना	--वही--	--वही--	--वही--
पी एम सागर	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
डी सेल्वा कुमार	--वही--	--वही--	--वही--
डा. जी के कानन	--वही--	--वही--	--वही--

एम टी आर डी सी, बंगलौर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2006 से।

नाम	पदनाम	पदोन्नति	वेतनमान
श्री/श्रीमती			
एच एस सुधामनी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
मालारामा स्वामी	--वही--	--वही--	--वही--
संतोष कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
पी राजा रमन राव	--वही--	--वही--	--वही--

जी टी आर ई, बंगलौर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2006 से।

नाम	पदनाम	पदोन्नति	वेतनमान
1	2	3	4
श्री/श्रीमती			
आर लक्ष्मी नारायण	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
पी के कालिया	--वही--	--वही--	--वही--
के एस रामप्रसाद	--वही--	--वही--	--वही--

ए आर डी ई, पुणे के श्री सुरेन्द्र कुमार, वैज्ञानिक 'जी' को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 से वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/- पर।

श्री एस. वरदराजन, वैज्ञानिक 'जी', निदेशक, निदेशक, एल. आर. डी. ई. बंगलौर को वैज्ञानिक 'एच' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से उसी पद पर रु. 22,400-525-24,500/- के वेतनमान पर।

राष्ट्रपति श्री शरद कुमार, वैज्ञानिक 'एफ' की वैज्ञानिक 'जी' के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन में 14 अगस्त 2006 (पूर्वाह्न) से वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/- पर सहर्ष पदोन्नति करते हैं।

1	2	3	4
श्री/श्रीमती			
डा. आर आर. जटप्पा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
सी आर श्रीवत्सा	--वही--	--वही--	--वही--
ए वी बालासंकरन	--वही--	--वही--	--वही--
के वी रमेश	--वही--	--वही--	--वही--
जी एस सिवाप्रसादा राव	--वही--	--वही--	--वही--
एन प्रभाकरन	--वही--	--वही--	--वही--
शशिकान्त परीदा	--वही--	--वही--	--वही--
वी केशवन	--वही--	--वही--	--वही--
आर गनेश	--वही--	--वही--	--वही--
विमला नारायनन	--वही--	--वही--	--वही--
बी वी ए पटनायक	--वही--	--वही--	--वही--
एम टारसियस	--वही--	--वही--	--वही--
बी वी रबी दत्ता	--वही--	--वही--	--वही--
डी किशोर प्रसाद	--वही--	--वही--	--वही--
एस बी जोशी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
वी मुरलीधरन	--वही--	--वही--	--वही--
एस माधवन	--वही--	--वही--	--वही--
पी श्रीनिवासा राव	--वही--	--वही--	--वही--
डा. बी आर श्रीधर	--वही--	--वही--	--वही--
पी के राजीव	--वही--	--वही--	--वही--
ज्योति प्रकाश दास	--वही--	--वही--	--वही--
के वसन्ती	--वही--	--वही--	--वही--
वी आर गनेश्वर	--वही--	--वही--	--वही--
के आशीषदाम	--वही--	--वही--	--वही--
एस के सिंह	--वही--	--वही--	--वही--
बी एस बालाजी	--वही--	--वही--	--वही--
एस शंकर प्रसाद	--वही--	--वही--	--वही--
वी जी संजवाडमथ	--वही--	--वही--	--वही--
जी शिवारामाकृष्णा	--वही--	--वही--	--वही--
देवकान्त पहाड़िसिंह	--वही--	--वही--	--वही--
सुश्री सालविया दास	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
अमित शर्मा	--वही--	--वही--	--वही--
जी एम विनोद	--वही--	--वही--	--वही--
आर गिरधर	--वही--	--वही--	--वही--
बी जी नन्दगोपाल	--वही--	--वही--	--वही--

पी एक्स ई, बालासोर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
श्री/श्रीमती			
बी अंगुस्वामी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डा. ए के सन्निग्राही	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
ए बोस	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	---वही---
एस गंगोपाध्याय	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	---वही---

राष्ट्रपति एल.आर.डी.ई., बेंगलूर के निम्नलिखित वैज्ञानिकों का वर्तमान ग्रेड से अगले उच्च ग्रेड में उनके सामने दिखाये गये विवरण के अनुसार 01 जुलाई 2006 (पूर्वाह्न) से पदोन्नति करते हैं:--

नाम	वर्तमान ग्रेड	ग्रेड जिसमें पदोन्नति हुई है	वेतनमान
सर्वश्री			
एम रमनजनिथूलू	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक एफ	रु. 16,400-450-20,000
श्रीमती बीजी जयश्री	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक एफ	उपरोक्त
आनन्द डमबाल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक एफ	उपरोक्त
के सी राजसेकरन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक एफ	उपरोक्त
गम्पाला विसवाम	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक एफ	उपरोक्त
के श्रीनिवास	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
आर रामचन्द्रा रेड्डी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	उपरोक्त
श्रीमती डी मीना	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	उपरोक्त
श्रीमती बी संगमित्रा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	उपरोक्त
सेषागिरी डुब्बरी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	उपरोक्त
एस मनी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
टी धाया	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	उपरोक्त
बी श्रीकुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	उपरोक्त
राजेश यादव	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	उपरोक्त
एम राघवन	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	उपरोक्त
अर्पणा राठी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	उपरोक्त
परमानन्द जेना	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	उपरोक्त

एन एस टी एल, विशाखपटनम के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 03 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
सर्वश्री/श्रीमती			
डॉ. के. वेकडेश्वरा राव	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
सी पी रामनारायणन	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	---वही---
ए सुरेन्द्र राव	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
एम बी एस बी प्रसाद	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	---वही---

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
सर्वश्री/श्रीमती			
के के के सन्यासी राजू	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
ए. श्रीनिवास कुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एस राजा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
पी. त्रिमूर्तुलु	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
सी एच सूर्यनारायणा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
पी श्रीनिवास राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
बी बी रमणा राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
डॉ. ए वी एन रामलिङ्गेश्वरा राव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
एच एन दास	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
वाई आर राजेश्वरी देवी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
वी रामा मोहना राव	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
पी विजय ललिता	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--

बी आर डी ई, अहमदनगर के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
सर्वश्री			
आर. रविचन्द्रन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डी. पांडुरंगन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
के. एस. लक्ष्मणन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एन. करुण्य्या	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
आर. पी. वायकर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
सुप्रिया पाल	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
सी. मंजुनाथा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

डील, देहरादून के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से।

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
सर्वश्री			
के शिव कुमार	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
विरेन्द्र सिंह नेगी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
एस एस सन्तारा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
सर्वश्री			
हेमन्त कुमार गुप्ता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
टी के दासगुप्ता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
आर सी कर्गेती	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
आदित्य कुमार वर्मा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
वेद प्रकाश दत्ता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
ओम प्रकाश मनोचा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
कृष्ण लाल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
लाल चन्द मंगल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
ए के भगतजी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
ए के तिवारी	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
अतुल देव	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
जयपाल सिंह पाल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
देवेन्द्र सिंह नेगी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
भानु प्रताप सिंह	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
राज कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
दीपक अवस्थी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
सत्येन्द्र कुमार यादव	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--

इनमास, दिल्ली के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में उसी स्थापना में 03 जुलाई 2006 से :--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
डॉ. अनुपम मण्डल	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. अनिल कुमार मिश्रा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
डॉ. जी यू गुरुदत्ता	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
डॉ. मंजू बाला पोपली	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
डॉ. श्रीपती जी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

एस.एस.पी.एल, दिल्ली के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2006 से :--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
डॉ. यू सी राय	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
डॉ. एस के लोमेश	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	--वही--
डॉ. अशोक कुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. ए रवि	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
डॉ. ए के कपूर	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
श्रीमती सीमा विनायक	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
संजीव कुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डॉ. (श्रीमती) रेनु त्यागी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
अलोक जैन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एम एल मुधोलकर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
डॉ. जे के राधाकृष्णन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
देवेन्द्र वर्मा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
डॉ. जे पी बोरडलाई	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
श्रीमती टीवीएसएल सत्यावानी	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
एस के तोमर	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--

आई आर डी ई, देहरादून के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
सर्वश्री			
जी. के. शर्मा	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
बी. एस रावत	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
अव्वल सिंह	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
अवनीश कुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एस. के. सिंह	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
एम. के. पाण्डे	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
पी.के. शर्मा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
ए. के. पाण्डे	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
एम. एल. शर्मा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
अशोक कुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
सुधीर खरे	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
पुनीत वशिष्ठ	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
प्रदीप कुमार	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्रीमती लता मैनाली	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
संजय कुमार मिश्रा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
श्रीमती विमलेश सिंह	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--
एम. साई कृष्णा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--

सी वी आर डी ई, चेन्नई के वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले उच्च ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में 01 जुलाई 2006 पूर्वाह्न से :--

नाम	वर्तमान पदनाम	पदोन्नत पदनाम	पदोन्नत पदनाम का वेतनमान
1	2	3	4
सर्वश्री			
डी मुरली मोहन राव	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	रु. 18,400-500-22,400
आर पेरुमाल	वैज्ञानिक 'एफ'	वैज्ञानिक 'जी'	--वही--
के सी समन्ता	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
वी आर प्रेमकुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
जी एस सैमन सुन्दर राज	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
ए कुमारासामी	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एम खादर बाशा	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एस सुरेश	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एस शिवकुमार	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एस गणेशन	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
एम रामानाथन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
एम सम्पत्	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
एम सत्यनारायणा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
एस वीराशेखर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
श्रीमती सी शारदा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
टी सौन्दरापाण्डियन	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
जे राजेशकुमार	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
डा. ए वेलायुधम	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
पी षण्मुखम	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500
श्रीमती वी उमा	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	--वही--

सी एफ ई ई एस, दिल्ली के निम्नलिखित वैज्ञानिकों को दर्शाये गये अगले ग्रेड और वेतनमान के रूप में रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा में व उसी स्थापना में 01 जुलाई 2006 से :--

नाम	पदनाम	पदोन्नति	वेतनमान
1	2	3	4
सर्वश्री			
ए के चावला	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	रु. 16,400-450-20,000
डा. आर पी सिंह	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
श्रीमती अलका दीवान	वैज्ञानिक 'ई'	वैज्ञानिक 'एफ'	--वही--
विजेश अरोरा	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	रु. 14,300-400-18,300
आर के तनवर	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
डा. किरण पाल	वैज्ञानिक 'डी'	वैज्ञानिक 'ई'	--वही--
देवेन्द्र गिल	वैज्ञानिक 'सी'	वैज्ञानिक 'डी'	रु. 12,000-375-16,500

जे के खडवाल
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

वायु शाखा

सं. 510, दिनांक 18 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना
उड़ान शाखा

एयर वॉयस मार्शल के मूल रैंक में :--

डी सी कुमारिया (13366) उ. पा., 01 जून 2006

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में :--

एम पी मेहता (15496) वै. ई. (वै), 09 जून 2005

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन के के धिमान (15292) वै. ई. (वै) और आर कुमार (15631) वै. ई. (वै) के बीच में आयेगा)

एस के देशपांडे (16528) वै. ई. (वै) 01 सितम्बर 2005

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन जे के सिंह (16545) वै. ई. (यां) के नीचे आयेगा)

एस के अग्रवाल (16743) वै. ई. (यां) 04 अक्टूबर 2005

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन टी बी मैथ्यू (17111) वै. ई. (वै) के ऊपर आयेगा)

डी एन त्रिपाठी (15958) वै. ई. (वै) 01 जनवरी 2006

एम एफ खान (16154) वै. ई. (वै) 01 मार्च 2006

ए एन कुलकर्णी (16155) वै. ई. (वै) 01 मार्च 2006

डी सूद (16306) वै. ई. (वै) 01 मार्च 2006

जे जोसेफ (16704) वै. ई. (वै) 20 मार्च 2006

जे नन्दन (16318) वै. ई. (वै) 20 मार्च 2006

के पी गौड़ (16321) वै. ई. (वै) 20 मार्च 2006

आर पी सिन्हा (16312) वै. ई. (वै) 20 मार्च 2006

डी शर्मा (16542) वै. ई. (यां) 20 मार्च 2006

जे सी गोयल (16547) वै. ई. (यां) 20 मार्च 2006

एस के मित्तल (16546) वै. ई. (यां) 20 मार्च 2006

एम सी राय (16922) वै. ई. (वै) 20 मार्च 2006

एच सौरभ (16536) वै. ई. (यां) 20 मार्च 2006

एम एम डांग्रे (16750) वै. ई. (वै) 01 जून 2006

के वी शंकर
संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी)-2(बी)

(वायु शाखा)

सं. 511, दिनांक 19 सितम्बर 2006--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को उसके नाम के सामने दी गई तारीख से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उसकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ है। अफसर को वायुसेना सूची में स्क्वाड्रन लीडर एस भट्टाचार्य (24104) प्रशा. व स्क्वाड्रन लीडर जी पी श्रीवास्तव (24257) प्रशा. के मध्य रखा जाएगा। अफसर 28 मार्च 2006 से स्थायी निम्न चिकित्सा वर्ग में होने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा.से.मु. के पत्र संख्या वा.से.मु./21901/23979/पी ओ-3ई दिनांक 06 जुलाई 2006।

फ्लाइट लेफ्टिनेन्ट डी ठाकूर (23979) उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में दिनांक 28 मार्च 2006 से।

पलविंदर
(पी. सिंह)
विंग कमांडर
जे डी पी ओ-3ई

नियमित सेना
(अल्प सेवा आयोग)
लै. के पद पर

शुद्धि पत्र

सं. 512, दिनांक 18 सितम्बर 2006--दिनांक 16 जून 2001 को प्रकाशित भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 337 में नियमित सेना (अल्प सेवा आयोग) के शीर्षक के उपशीर्षक "लै. के पद पर" के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जाता है :--

के लिये--रितेश श्रीवास्तव (एस एस-38620ए) ई एम ई

पढ़ें-- ----रिक्त----

एस के शर्मा
लै. कर्नल
ए एम एस-8बी

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 14th October 2006

No. 498, dated 13th September 2006.—The President is pleased to appoint the following, Grade 'C' Stenographers borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretary on ad-hoc basis in this Division with effect from 29-08-2006 to 31-12-2006, or till regular officers become available or till further orders whichever is earlier:—

1. Smt. Sukhpal Walia
2. Shri S. C. Dhingra
3. Smt. Nirmal Anand
4. Smt. Janak Chopra
5. Smt. Vijay Narang
6. Shri R. K. Mehta
7. Shri Ashok Kumar

D K PANDEY
Dir (Fin./Estt)

(ARMY BRANCH)

No. 499, dated 18th September 2006.—The President is pleased to make the following appointment:—

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

The under-mentioned Gentleman Cadet (now officer) has been granted Short Service Commission in the rank of Lieutenant for a period of five years wef 02 Sep 2000. The entry of the officer has been corrected from SSC(NT)-70 to SSC (Tech)-13 Course on 20 Apr 2006 and he has also been granted two years ante-date seniority and financial effects as applicable to officers of SSC (Tech)-13 Course from 06 Sep 1998 but without any retrospective effect on pay and allowances and other consequential financial benefits:—

Ritesh Shrivastava (SS-38620A), EME with seniority next below to Lt. Vishal Singh Raghuvanshi (SS-38554H) Sigs whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 11 May 2002.

SK SHARMA
Lt Col
AMS 8B

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL
ENGINEERING

No. 500, dated 14th Sept 2006.—The President is pleased to appoint Shri Deepak Goel, as Assistant Executive Engineer

Group 'A' with effect from 08 May 2006 (Forenoon) in the Corps of EME, under Ministry of Defence.

He will remain on probation for a period of two years.

N K KASHMIRA
Under Secy.

No. 501, dated 18th Sept 2006.—The President is pleased to make the following appointments:—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

(To be Lts w.e.f. 08 Dec 2001)

Pankaj Kumar Mishra (IC-61434W) Sigs seniority next below Suhel Y Soudagar (IC-61433N) Mech whose name appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 26 Oct 2002.

CHANDER SHEIKHAR
Lt Col
AMS 8B

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT
ORGANISATION

No. 502, dated 19th Sept 2006.—The President is pleased to make the following appointment:—

Dr. R. P. Tripathi to be temporary Scientist 'G' on probation for one year in INMAS, Delhi with effect from 05 Aug 2005 in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400.

JK KHADWAL
Jt. Dir. (Pers)

No. 503, dated 14th Sept 2006.—Consequent on his premature repatriation, the services of Shri H. S. Bhatia, CPO, Ministry of Defence are placed at the disposal of the Ordnance Factory Board w.e.f. 30-8-2006 (FN).

V SARASWATHY
Dy. Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 504, dated 15th September 2006.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

ARMY EDUCATIONAL CORPS

To be Subedar

Nb Sub Chamra Minj (JC-802969N), 19 Oct 2005@

@(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Govind Singh Bhaisora (JC-803003A), 28 Nov 2005§

§(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Ved Parkash Babal (JC-803020A), 14 Jan 2006#

#(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Kuriakkose VM (JC-803021H), 01 Jan 2006

Nb Sub Panna Lal (JC-803022L), 01 Jan 2006

Nb Sub Kamal Nayan Rai (JC-803030K), 01 Jan 2006

Nb Sub Dharam Vir (JC-803031M), 01 Jan 2006

Nb Sub Din Dayal Niranjani (JC-803037N), 01 Jan 2006

Nb Sub Shiv Pal Singh (JC-803039Y), 01 Jan 2006

Nb Sub Ram Niwas (JC-803040N), 03 Feb 2006&

Nb Sub Rakesh Kumar Sharma (JC-803046P), 01 Feb 2006

Nb Sub Mukesh Kumar (JC-803049H), 28 Feb 2006&

Nb Sub Mahboob Khan (JC-803050X), 01 Feb 2006

Nb Sub Sanjai Kakran (JC-803051A), 01 Feb 2006

Nb Sub Chandra Bhan Upadhyay (JC-803053L), 01 Feb 2006

Nb Sub Krishna Kant Bhatt (JC-803054N), 01 Feb 2006

Nb Sub Virendra Kumar Dwivedi (JC-803055W), 01 Feb 2006

Nb Sub Subhash Chander (JC-803056Y), 01 Feb 2006

&(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hanuman Datt Mishra (JC-803058K), 01 Mar 2006

Nb Sub Bhuwan Chandra Mishra (JC-803059M), 01 Mar 2006

Nb Sub Madan Singh Rawat (JC-803060F), 01 Mar 2006

Nb Sub Harish Chand (JC-803063P), 01 Mar 2006

Nb Sub Janardhan Prasad (JC-803065A), 01 Mar 2006

Nb Sub Vireshwar Kumar Rathore (JC-803067L), 01 Mar 2006

Nb Sub Paramvir Singh (JC-803068N), 01 Mar 2006

Nb Sub Sanat Kumar (JC-803070L), 01 Mar 2006

Nb Sub Narendra Singh Bisht (JC-803071N), 03 Mar 2006*

*(Granted seniority in the rank of wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

VK KAPOOR
Under Secy.

CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

No. 505, dated 14th September 2006—The President is pleased to make the following appointment/Promotion:—

To be sub Maj Tech

Sub Dilip Kumar Singh (JC-748537H), 01 Aug 2005

Sub D P Roy (JC-748432Y), 01 Aug 2005

Sub Ramanand Verma (JC-748086N), 07 Jul 2005/01 Jun 2005*

Sub Jai Bansh Choubey (JC-747660P), 06 Aug 2005/01 May 2005*

Sub Sushil Kumar Sharma (JC-748144M), 23 Jul 2005/01 Jun 2005*

Sub V S Mathew (JC-748094M), 16 Aug 2005/01 Jul 2005*

To be Sub Maj Artzn (EC)

Sub Subhash Singh (JC-751199F), 21 Jul 2005/01 Jun 2005*

Sub Bopaiah KM (JC-751217Y), 15 Aug 2005/01 Jun 2005*

Sub Mahendera Singh Bisht (JC-751148N), 01 Aug 2005

Sub Randhir Singh Dhanker (JC-751153Y), 02 Aug 2005/01 Aug 2005*

To be Sub Maj Artzn (NE)

Sub Abhimanyu Maharana (JC-749265A), 02 Aug 2005/01 Jun 2005

Sub Mohan K (JC-750287L), 01 Sep 2005

To be Sub Maj Rec Mech

Sub Shivinder Singh (JC-748774M), 01 Aug 2005

To be Sub Maj DW

Sub Ashik Hussain (JC-829127M), 29 Jul 2005/01 Jul 2005

To be Sub Tech

Nb Sub KC Shukla (JC-755633A), 20 Jul 2005/01 May 2005*

Nb Sub GN Bhushana Rao (JC-754398A), 20 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Nandkishore Singh (JC-755344L), 13 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Pradhan Bopai (JC-755480F), 18 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub K Durai Swamy (JC-755481K), 25 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Bhadur Singh (JC-755504A), 16 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Mahesh Kumar Dixit (JC-755541N), 19 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Baldev Singh Dabas (JC-755641Y), 22 Jun 2005/01 May 2005*

Nb Sub Ashok Kumar Maji (JC-755644M), 19 Jul 2005/01 May 2005*

Nb Sub Radheshyam Chaubey (JC-755650A), 19 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Bhudev Prasad Sharma (JC-755659P), 19 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Md Mokhtar Alam (JC-755646X), 21 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub C Palani (JC-755711M), 22 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Ram Shyam Pal (JC-755858H), 26 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Narayan Singh (JC-755889H), 25 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Maya Ram (JC-755537L), 25 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Patana Vasudeva Reddy (JC-755888A), 01 Aug 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Anil Kumar (JC-755496M), 18 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Dhananjay Roy (JC-755478K), 08 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Arvindakshan C.T. (JC-755495K), 27 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Anuruddha Kumar (JC-755710K), 22 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub P. K. K. Bhailal Bhai (JC-755498Y), 22 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Alexandar T (JC-755502P), 01 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Kunwar Singh (JC-755548X), 13 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Surinder Singh Negi (JC-755647A), 16 Aug 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Shri Krishan (JC-755648H), 25 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Shiva Kumar Vishwakarama (JC-755703N), 18 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub S Lakshmanan (JC-755709P), 25 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Mahipal Singh (JC-756150P), 15 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Sukanta Hazara (JC-756365N), 16 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Ardi Prabhakar Rao (JC-755500K), 06 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Shiva Prasad Adhikary (JC-755482M), 12 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Ram Chander Lal (JC-755497P), 06 Aug 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Mahendra Kumar (JC-755658M), 01 Aug 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Mathi Azhagan (JC-755546M), 10 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub A Prabhakar Achari (JC-755507N), 15 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Ganesh Sharma (JC-755657K), 23 Aug 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Jabar Singh (JC-755806M), 25 Aug 2005/01 Aug 2005*

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Satish Chandra Rai (JC-757272L), 25 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Kasi Rajan VP (JC-757280K), 25 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Shiv Kant Jha (JC-757308Y), 05 Aug 2005/01 Jul 2004*

Nb Sub Gambhir Singh (JC-757277K), 20 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub P Samanta (JC-757247M), 30 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Vivala Pili Narayana (JC-757279P), 28 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Shiv Sharan Tiwari (JC-757335H), 05 Aug 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Narayan Ram (JC-757556P), 23 Jul 2005/01 Jul 2005*

To be Sub Artzn (NE)

Nb Sub Dwarika Nath Rai (JC-755151L), 26 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Chandraka Prasad (JC-756021P), 25 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Tara Chand (JC-755191M), 02 Jul 2005/01 May 2005*

Nb Sub Uma Shankar Pandey (JC-755194M), 30 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Samir Kumar Chattopadhyay (JC-754240X), 03 Aug 2005/01 Dec 2004*

Nb Sub Sukhadev Khidia (JC-755193X), 01 Aug 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Rajender Kumar (JC-755734N), 30 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Saudan Singh (JC-755300N), 25 Jul 2005/01 Jun 2005*

To be Sub Tech (AVN)

Nb Sub B Anjaneyulu (JC-756319Y), 17 Jun 2005/01 Mar 2005*

Nb Sub Prakash Chandra (JC-756510A), 27 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Gopala Krishna Kurup (JC-756583M), 28 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub K Sekar (JC-756498K), 28 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Narotan Mahapatra (JC-756502F), 22 Aug 2005/01 Aug 2005*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Harjinder Singh (JC-754000A), 27 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Virender Singh (JC-754001H), 26 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Shangara Singh (JC-753957A), 30 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub Bikram Singh (JC-753999Y), 30 Jul 2005/01 Jun 2005*

Nb Sub B Devi Das (JC-752777X), 12 Aug 2005/01 Jun 2005*

To be Sub SKT

Nb Sub Brijbasi Chauhan (JC-754215Y), 26 Jul 2005/01 Jun 2005*

To be Sub ARMN

Nb Sub Wedekar Jailal Dhondba (JC-755293H), 26 Jun 2005/01 Sep 2003*

Nb Sub Haridas Barman (JC-754707X), 27 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub G Alagar Samy (JC-755814L), 06 Aug 2005/01 Feb 2004*

Nb Sub Shinde Raghunath Sidran (JC-755816W), 03 Aug 2005/01 Feb 2004*

Nb Sub S Palani Chamy (JC-755295N), 05 Aug 2005/01 Dec 2003*

Nb Sub Radha Kant Prasad Singh (JC-754852P), 08 Aug 2005/01 Aug 2005*

To be Sub Rec Meeh

Nb Sub Hanamant Bandhiwaddar (JC-752612Y), 26 Jul 2005/01 Jul 2005*

Nb Sub Raja Ram (JC-752313A), 03 Aug 2005/01 Jun 2005*

To be Sub DW

Nb Sub Narmeshwar Talukdar (JC-757602Y), 01 Aug 2005

Nb Sub G Sashidharan Nair (JC-757306N), 01 Aug 2005

Nb Sub Muhabbat Singh (JC-757609K), 01 Aug 2005

Nb Sub Suresh K (JC-757460M), 01 Aug 2005

Nb Sub Tulsi Sah (JC-757465L), 01 Aug 2005

Nb Sub Dwarka Ram (JC-757382A), 01 Aug 2005

Nb Sub Ram Gopal (JC-757469F), 22 Aug 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Sat Pal (JC-757264W), 01 Aug 2005

Nb Sub Rajender Singh (JC-757565W), 01 Aug 2005

Nb Sub SL Pathania (JC-757354N), 01 Aug 2005

Nb Sub Nem Singh (JC-757383H), 01 Aug 2005

Nb Sub MS Rawat (JC-757386W), 01 Aug 2005

Nb Sub Sunder Singh (JC-757564N), 01 Aug 2005

Nb Sub Kamleshwar Mahto (JC-757470A), 18 Aug 2005/01 Aug 2005*

Nb Sub Vanna Singh Panwar (JC-757473K), 01 Aug 2005

Nb Sub Mahabir Singh (JC-757779M), 01 Aug 2005

To be Sub Religious Teacher

Nb Sub Arunesh Ram Tripathi (JC-750707A), 13 Apr 2005/18 Mar 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Inst

J N Patrow (No. 14610706W now JC-760615F), 01 Apr 2006

D K Pati (No. 14611318L now JC-760616K), 01 Apr 2006

D D Arjun (No. 14610348W now JC-760614Y), 01 Apr 2006

V S Yadav (No. 14607701M now JC-760613W), 01 Apr 2006

S P Singh (No. 14605428K now JC-760610H), 01 Mar 2006

Sukhdev Ghosh (No. 14605072F now JC-760608L), 01 Mar 2006

Rajendra Kumar Sahu (No. 14604254H now JC-760606A), 20 Mar 2006/01 Feb 2006*

Banarasi Dass (No. 14604880M now JC-760607H), 14 Mar 2006/01 Mar 2006*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

V Thennarasu (No. 14604397H now JC-760642L), 01 Apr 2006

Sachidanand Prasad (No. 14602068N now JC-760638H), 20 Mar 2006/01 Mar 2006*

Raju KA (No. 14604598H now JC-760643N), 01 Apr 2006

Russel Raj T (No. 14607746M now JC-760634M), 27 Mar 2006/01 Feb 2006*

Mithilesh Kumar Pandey (No. 14603037A now JC-760639L), 09 Mar 2006/01 Mar 2006*

S S Yadav (No. 14597258N now JC-760529W), 31 Jan 2006/01 Dec 2005*

Manoj Kumar Sarkar (No. 14609764N now JC-760636X), 14 Mar 2006/01 Feb 2006*

Maya Ram Pal (No. 14604335H now JC-760641H), 01 Mar 2006

Pariharuddhav Digambarrao (No. 14602030K now JC-760630W), 13 Mar 2006/01 Jan 2006*

Ashok Kumar Tiwari (No. 14605152Y now JC-760632F), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

HMT to be Nb Sub Tech Armr

S Alexander (No. 14608433A now JC-740624H), 01 Apr 2006

Aswani Kumar (No. 14611331P now JC-760627W), 01 Apr 2006

HMT to be Nb Sub Tech AVF (ELF)

Pramod Kumar Shishodia (No. 14575208H now JC-760644W), 03 Mar 2006/01 Mar 2006*

HMT to be Nb Sub Tech Radio

S Appanna Dora (No. 14606229H now JC-760619X), 13 Mar 2006/01 Feb 2006*

Haresh Chandra Sen (No. 14609309L now JC-760621P), 23 Mar 2006/01 Feb 2006*

Gawas Vijay Mahadev (No. 14604304H now JC-760618P), 16 Mar 2006/01 Feb 2006*

HMT to be Nb Sub Tech A Veh

Bigyan Mohanty (No. 14572600X now JC-760234A), 20 Oct 2005/01 Jun 2005*

HMT to be Nb Sub Tech B Veh

Kartar Singh (No. 14609853M now JC-760262M), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

P Purushotham R (No. 14608532H now JC-760249H), 24 Oct 2005/01 Sept 2005*

Basant Ballah Bhatt (No. 14608721M now JC-760255W), 22 Oct 2005/01 Sep 2005*

Dopana Damburu (No. 14607976A now JC-760248A), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Armr

Biswajit Biswas (No. 14611765P now JC-760287Y), 09 Oct 2005/01 Sep 2005*

Daya Ram Pai (No. 14612062A now JC-760289K), 22 Oct 2005/01 Sep 2005*

CN Chitti (No. 14573318Y now JC-760280P), 27 Oct 2005/01 Sep 2005*

KU Suriyan (No. 14610575W now JC-760286W), 24 Oct 2005/01 Sep 2005*

Navneetha Krishnan B (No. 14613375L now JC-760290Y), 24 Oct 2005/01 Sep 2005*

RP Saroj (No. 14608223A now JC-760283H), 24 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be NB Sub Tech RO

Ashok Kumar Tripathy (No. 14571228Y now JC-760271N), 24 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Inst

SN Jena (No. 14606853F now JC-760266H), 25 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech AVN

Rajbir (No. 14591156F now JC-760265A), 22 Oct 2005/01 Sep 2005*

Ram Sevak (No. 14565704W now JC-760269W), 22 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub VM(MV)

Suresh Kumar (No. 14540022A now JC-760171H), 13 Oct 2005/01 Sep 2005*

Arun Kumar Tripathy (No. 14539860H now JC-760169L),
10 Oct 2005/01 Sep 2005*

Ajandh Kumar TR (No. 14539625K now JC-760167A), 01
Nov 2005/01 Sep 2005*

Shivjee Ram (No. 14540426H now JC-760294P), 19 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Sudha Kant Jha (No. 14537786N now JC-760180K), 10 Oct
2005/01 Sep 2005*

Pratap Das (No. 14536962N now JC-760179P), 25 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub Armr

Mukeshwar Dayal (No. 14550160P now JC-760229P),
13 Oct 2005/01 Sep 2005*

Manhe Lal Lodhi (No. 14550474W now JC-760227K),
08 Oct 2005/01 Sep 2005*

BK Biswas (No. 14549018Y now JC-760207W), 17 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Sukhdev (No. 14546412Y now JC-760183X), 11 Oct 2005/01
Sep 2005*

TPL Prasad Rao (No. 14549239L now JC-760212F), 06 Oct
2005/01 Sep 2005*

Gujare HS (No. 14547067H now JC-760192Y), 08 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Surinder Singh (No. 14549389F now JC-760217A), 10 Oct
2005/01 Sep 2005*

Biswanath Oran (No. 14549541K now JC-760225Y), 10 Oct
2005/01 Sep 2005*

Yadav Sajjan Singh P Singh (No. 14548223N now JC-
760204H), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

Narendra Singh (No. 14543354P now JC-760157W), 16 Oct
2005/01 Sep 2005*

Mohan Singh (No. 14543056Y now JC-760156N), 17 Oct
2005/01 Sep 2005*

C Sekhar Prasad Singh (No. 14543362N now JC-760158Y),
01 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub Welder

Surya Bhan (No. 14547141L now JC-760163K), 06 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Krishna Dhan Singha (No. 14546874L now JC-760162F),
13 Oct 2005/01 Sep 2005*

B Mnuthyumjaya Reddy (No. 14546678L now JC-759489N),
01 Dec 2004/01 Oct 2004*

Hav to be Nb Sub M/Smith

Pitabas Maharana (No. 14551043W now JC-760159F),
10 Oct 2005/01 Sep 2005*

To be Sub Technical

Nb Sub S Radha Krishan (JC-755356A), 01 Apr 2005

Nb Sub B R P Chandrudu (JC-755555N), 01 Apr 2005

Nb Sub Jai Kanwar Singh (JC-755523L), 01 Apr 2005

Nb Sub Prajay Kumar Mahapatra (JC-755557Y), 01 Apr 2005

Nb Sub Shiv Lal Yadav (JC-755358L), 01 Apr 2005

Nb Sub KR Vithoba (JC-755578P), 01 Apr 2005

Nb Sub Ram Sagar Yadav (JC-755353M), 01 Apr 2005

Nb Sub Kusum Dutta (JC-755357H), 01 Apr 2005

Nb Sub Mohan Chandra (JC-755565X), 11 Apr 2005/01
Apr 2005*

Nb Sub Mahesh Chandra (JC-755566A), 01 Apr 2005

Nb Sub Laxman Singh (JC-755570H), 01 Apr 2005

Nb Sub K Ramakrishnadu (JC-755572N), 01 Apr 2005

Nb Sub RB Singh (JC-755584H), 01 Apr 2005

Nb Sub Shivnath (JC-755588Y), 01 Apr 2005

Nb Sub M Karunakaran (JC-755559K), 01 Apr 2005

Nb Sub Daya Shankar Prasad (JC-755595P), 01 May 2005

Nb Sub Tarik Kumar Biswas (JC-755532M), 01 May 2005

Nb Sub PG Raman (JC-755511W), 01 May 2005

Nb Sub Brij Vilash Mishra (JC-755528K), 01 May 2005

Nb Sub Abdul Kalam Ansari (JC-755574Y), 01 Apr 2005

Nb Sub Shyam Kumar (JC-755354P), 01 Apr 2005

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-755583A), 01 Apr 2005

Nb Sub Suresh Kumar (JC-755510N), 01 May 2005

Nb Sub Satyadev (JC-755800L), 01 May 2005

Nb Sub Debendranath Mohanthy (JC-755514K), 01 May
2005

Nb Sub Gurdev Singh (JC-755744K), 01 May 2005

Nb Sub Sitaram Singh (JC-755593K), 01 May 2005

Nb Sub Kulwant Singh (JC-755743H), 01 May 2005

Nb Sub Har Singh (JC-755515M), 01 May 2005

Nb Sub Bijender Singh (JC-755592N), 01 May 2005

Nb Sub Narendra Nath M (JC-755575F), 01 Apr 2005

Nb Sub Anand Pal Yadav (JC-756010H), 01 Apr 2005

Nb Sub Pradep Kumar Barik (JC-755596X), 01 May 2005

Nb Sub Harbir Singh (JC-755513F), 01 May 2005

Nb Sub G Boopalan (JC-755590N), 01 May 2005

Nb Sub Bimal Bhattacharya (JC-755594M), 01 May 2005

Nb Sub Ravindranadhan TM (JC-755591Y), 01 May 2005

Nb Sub Virendra Singh (JC-755531K), 01 May 2005

Nb Sub Azad Ahmed Ansari (JC-755674K), 02 May 2005/
01 May 2005*

Nb Sub Dinesh Kumar (JC-755468A), 09 May 2005/01 Feb
2005*

Nb Sub M Ravichandran (JC-755313L), 13 May 2005/01
Mar 2005*

Nb Sub Prasan Kumar Sahoo (JC-755516P), 01 May 2005

Nb Sub Basuddeb Sarkar (JC-755517X), 01 May 2005

Nb Sub Jitendra Singh (JC-755529M), 01 May 2005

To be Sub Artzn (EC)

Nb Sub Benu Singha (JC-757206H), 06 Apr 2005/01 Oct
2004*

Nb Sub Sudipta Kumar Roy (JC-758047H), 02 May 2005/01
Feb 2005*

Nb Sub Moti Ram Choyal (JC-757243W), 10 May 2005/01
Feb 2005*

To be Sub Artzen (NE)

Nb Sub Adal Singh (JC-754737P), 04 Apr 2005/01 Apr
2005*

Nb Sub GS Govinda (JC-754958F), 01 May 2005

Nb Sub Krishnanand (JC-754951X), 01 May 2005

Nb Sub Balbir Singh Sharma (JC-752206Y), 21 Mar 2005/08
Dec 2004*

Nb Sub Shyama Nanda (JC-755018H), 10 May 2005/01
May 2005*

To be Sub Clk (GD)

Nb Sub Ranjan Chandra Mandal (JC-753955F), 30 May
2005/01 May 2005*

To be Sub SK Tech

Nb Sub Sugar Pal Singh (JC-754212L), 01 May 2005

To be Sub DW

Nb Sub Rajendra Prasad Chouby (JC-757237H), 05 Apr
2005/01 Feb 2005*

Nb Sub Kishan Singh (JC-755117L), 08 Apr 2005/08 Dec
2004*

To be Sub Rec Mech

Nb Sub Kanakan K (JC-752311P), 25 Mar 2005/01 Feb 2005*

To be Sub Religious Teacher

Nb Sub Devkinandan Mishra (JC-750708H), 14 Apr 2005/
18 Mar 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

Kiran Singh (14610693K now JC-760333H), 12 Dec 2005/01
Oct 2005*

Gautam Kumar Manik (14600038X now JC-760317L),
17 Dec 2005/01 Sep 2005*

Sunil Kumar (14609682L now JC-760329A), 22 Dec 2005/01
Oct 2005*

Raj Narayan (14609318M now JC-760324F), 21 Dec 2005/01
Oct 2005*

Attar Singh (14610539L now JC-760332A), 17 Dec 2005/01
Oct 2005*

Jubu Jose (14613608F now JC-760339K), 19 Dec 2005/01
Dec 2005*

Paramjeet T rivedi (14611972F now JC-760337Y), 19 Dec
2005/01 Nov 2005*

Suresh Kumar (14610072L now JC-760326M), 19 Dec 2005/
01 Oct 2005*

Ramesh Kumar Jawla (14610145M now JC-760328X),
18 Dec 2005/01 Oct 2005*

Harendra Kumar (14609260A now JC-760261K), 01 Jan 2006/
01 Sep 2005*

P Panda (14609845N now JC-760457X), 04 Jan 2006/01 Oct
2005*

AK Sumantra (14609949P now JC-760315A), 26 Dec 2005/
01 Oct 2005*

Bhikari Charan Sahu (14609673K now JC-760454K), 07 Jan
2006/01 Oct 2005*

DR Murty (14612707X now JC-760465W), 09 Jan 2006/01
Nov 2005*

Jagannath Sahu (14609396K now JC-760452Y), 09 Jan 2006/
01 Oct 2005*

G Simhachalam (No. 14610987X now JC-760460X),
05 Jan 2006/01 Oct 2005*

Om Prakash Singh (No. 14610056N now JC-760453F),
07 Jan 2006/01 Oct 2005*

Kummari Bala Naganna (No. 14610635A now JC-760459H),
10 Jan 2006/01 Oct 2005*

Javed Ahmed (No. 14611556X now JC-760461A),
07 Jan 2006/01 Oct 2005*

Banambar Nayak (No. 14610491H now JC-760456P),
06 Jan 2006/01 Oct 2005*

N Prakalathan (No. 14610566P now JC-760458A),
13 Jan 2006/01 Oct 2005*

Suresh Chandra (No. 14611797X now JC-760336W), 05 Jan 2006/01 Oct 2005*

Ashok Maurya (No. 14610334W now JC-760331X), 30 Dec 2006/01 Oct 2005*

K Brahma (No. 14603567P now JC-760318N), 22 Dec 2005/01 Sep 2005*

Sayed Islam Alli (No. 14611357K now JC-760335N), 23 Dec 2005/01 Oct 2005*

BRS Kumar (No. 14610990X now JC-760334L), 27 Dec 2005/01 Oct 2005*

C Mari Muthu (No. 14610321Y now JC-760455M), 08 Jan 2006/01 Oct 2005*

Ram Phal (No. 14611891F now JC-760464N), 03 Jan 2006/01 Nov 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'A' Veh

Uday Prakash Kunwar (No. 14611042A now JC-760322W), 19 Dec 2005/01 Oct 2005*

Shamsher (No. 14572667W now JC-760316H), 19 Dec 2005/01 Jul 2005*

R Shridharan (No. 14610229A now JC-760321N), 02 Jan 2006/01 Oct 2005*

G Nangeshwar Dora (No. 14612550H now JC-760323Y), 15 Dec 2005/01 Oct 2005*

Arun Kumar (14608268A now JC-760251A), 07 Jan 2006/01 Sep 2005*

Sharwan Ram Jangir (14612355L now JC-760451W), 09 Jan 2006/01 Oct 2005*

KP Muthiah (14613714A now JC-760448W), 12 Jan 2006/01 Aug 2005*

Satvir Singh (14611207N now JC-760450N), 20 Jan 2006/01 Oct 2005*

Ram Kumar Rai (14611186N now JC-760519M), 30 Jan 2006/01 Oct 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

Aji Kumar K (14593343Y now JC-760350H), 19 Dec 2005/01 Oct 2005*

Saji ML (14600586P now JC-760356K), 01 Jan 2006

Avanindra Kumar (14599026N now JC-760353W), 16 Dec 2005/01 Nov 2005*

Badri Prasad Yadav (14602417M now JC-760357M), 01 Jan 2006

Lakhwinder Singh (14598319M now JC-760474X), 10 Jan 2006/01 Nov 2005*

Vijay Kumar Upadhyay (14596477H now JC-760352N), 20 Dec 2005/01 Nov 2005*

Surendra Singh (14595724M now JC-760528N), 28 Jan 2006/01 Oct 2005*

Mukut Bihari Upadhyay (14597084Y now JC-760351L), 16 Dec 2005/01 Oct 2005*

Balaganeshan K (14598700A now JC-760354Y), 24 Dec 2005/01 Dec 2005*

HMT to be Nb Sub Tech (RO)

Manoj Kumar Dubey (14571961K now JC-760343M), 17 Dec 2005/01 Dec 2004*

Patil Bhagwan Ganpati (14580102A now JC-760345X), 19 Dec 2005/01 Oct 2005*

Majamil Ali Barbluiya (14580406X now JC-760346A), 17 Dec 2005/01 Nov 2005*

Salgar Birmal Bhima (14604126L now JC-760468K), 07 Jan 2006/01 Jan 2006*

Satpute Diganbar Ashru (14602186F now JC-760466Y), 06 Jan 2006/01 Dec 2005*

Mohanan Pillai R (14595532F now JC-760347H), 16 Dec 2005/01 Nov 2005*

Subhashi Chand (14577940K now JC-760273Y), 26 Jan 2006/01 Sep 2005*

Chitray Vijay Kumar Ramling (14604122P now JC-760467F), 13 Jan 2006/01 Dec 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Armr

Narinder Pal (14613370M now JC-760342K), 21 Dec 2005/01 Oct 2005*

TP Singh (14613116H now JC-760341F), 17 Dec 2005/01 Oct 2005*

Babu Lal (14613710K now JC-760278X), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

Manoj Kumar (14613471A now JC-760469M), 02 Jan 2006/01 Oct 2005*

Vikram Jeet Sharma (14613598H now JC-760470F), 12 Jan 2006/01 Dec 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Inst

Laxmidhar Sahoo (14611316A now JC-760359X), 01 Jan 2006

Sukhdev Singh (14611459F now JC-760360M), 01 Jan 2006

Baijbasi Patel (14609734W now JC-760358P), 20 Dec 2005/01 Nov 2005*

Saiyanand Yadav (14610586H now JC-760472M), 07 Jan 2006/01 Dec 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Radar

KS Mankoti (14583086Y now JC-760349N), 16 Dec 2005/01 Oct 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Cmptr

SK Mondal (14606891X now JC-760348L), 23 Dec 2005/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub Rec Mech

Mahesh Prasad Singh (14553822X now JC-760409X), 13 Jan 2006/01 Oct 2005*

Ajay Kumar (14553852P now JC-760411P), 23 Jan 2006/01 Nov 2005*

Binod Kumar (14553836X now JC-760410M), 24 Dec 2005/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub Mech

Siddheshwar Kalita (14546324H now JC-760412X), 01 Jan 2006/01 Dec 2005*

Hav to be Nb Sub Metal Smith

Harpal Singh (14551424F now JC-760415L), 01 Jan 2006

Hav to be Nb Sub Vm (Afv)

Subodh Kumar Sharma (14538747F now JC-760394A), 24 Dec 2005/01 Oct 2005*

Sudarsan Prasad Saha (14537848H now JC-760392P), 27 Dec 2005/01 Oct 2005*

Purendra Kumar Saha (14539704Y now JC-760396L), 01 Jan 2006

Ram Chandra Yadav (14539465P now JC-760395H), 01 Jan 2006

Sachidanand Pandey (14539386A now JC-760475A), 09 Oct 2006/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub Vm (Mv)

Punjabi Jeet Singh K (14540573L now JC-760385Y), 24 Dec 2005/01 Oct 2005*

CK Roy (14540252N now JC-760387K), 23 Dec 2005/01 Oct 2005*

Shishupal Singh Jat (14540302N now JC-760388M), 26 Dec 2005/01 Dec 2005*

Rajendra Yadav (14540829H now JC-760389P), 21 Dec 2005/01 Dec 2005*

Bijay Bahadur Singh (14540940M now JC-760391M), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

Sudhir Tiwari (14540389A now JC-760384W), 02 Jan 2006/01 Oct 2005*

Anil Kumar Singh (14540598X now JC-760386F), 29 Dec 2005/01 Oct 2005*

Chandran Mooleri Poil (14540503M now JC-760390K), 12 Jan 2006/01 Dec 2005*

Bidya Nand Mishra (14540962L now JC-760476H), 14 Jan 2006/01 Jan 2005*

Hav to be Nb Sub Ftr (Fd)

Gulab Singh (14540800A now JC-760406K), 23 Dec 2005/06 Nov 2005*

Hav to be Nb Sub Elect (Mv)

Ravindra Kumar Singh Yadav (14676340K now JC-760397N), 21 Dec 2005/01 Nov 2005*

Dev Narayan (14540624N now JC-760399Y), 01 Dec 2005

Nand Kishore Trivedi (14540248L now JC-760477L), 05 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub Aviation

Budhi Dallabh (14553130H now JC-760481N), 12 Jan 2006/04 Dec 2005*

Dayanand (14536554H now JC-760408P), 22 Dec/09 Oct 2005*

Amarjeet Singh (14546603A now JC-760484F), 01 Jan 2006

Mahipal Singh (14556063N now JC-760482W), 19 Jan 2006/01 Jan 2006*

Mukesh Babu (14550099W now JC-760480L), 19 Jan 2006/04 Dec 2005*

SI Panchu (14536652H now JC-760483Y), 09 Jan 2006/01 Nov 2005*

Laxman Chauhan (14539376W now JC-760407M), 26 Dec 2005/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub Tcm (Gce)

Jasram Singh (14558363N now JC-760485K), 05 Jan 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub Tcm (Radar)

Ashwani Kumar Dwivedi (14543178H now JC-760404Y), 26 Dec 2005/01 Oct 2005*

AK Gautam (14676534M now JC-760402N), 22 Dec 2005/01 Aug 2005*

Chandran N (14676454P now JC-760401L), 23 Dec 2005/01 Aug 2005*

Bijendra Prasad (14676425A now JC-760400H), 24 Dec 2005/01 Aug 2005*

HMT to be Nb Sub Tech B Veh

Saroj Kumar Singh (No. 14607901H now JC-760240N), 01 Sep 2005

Sathees Kumar MP (No. 14608542M now JC-760250X), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

Ranjeet Singh (No. 14601421H now JC-760235H), 18 Oct 2005/01 Sep 2005*

Md Monirul Islam (No. 14607941K now JC-760243F), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

Aloke Kumar (No. 14608066Y now JC-760244K), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

Jaya Nath Prasad (No. 14611697M now JC-759960H), 16 Jun 2005/01 Jun 2005*

Joshi Krishna Savlaram (No. 14604503W now JC-760068X), 01 Sep 2005

CB Das (No. 14598781L now JC-760033F), 01 Sep 2005

Harish Chand (No. 14607144Y now JC-760081F), 01 Sep 2005

Balbir Singh (No. 14606244X now JC-760077Y), 01 Sep 2005

Durga Singh (No. 14602514K now JC-760061N), 01 Sep 2005

Nareesh Pal (No. 14607092N now JC-760079K), 01 Sep 2005

Kamraj TVP (No. 14599975A now JC-760032Y), 01 Sep 2005

Niranjan Jena (No. 14605542F now JC-760072A), 01 Sep 2005

Ramesh Chander (No. 14600936W now JC-760036P), 01 Sep 2005

Sunil Kumar Koul (No. 14605876W now JC-760073H), 01 Sep 2005

HMT to be Nb Sub Tech A Veh

Joginder Singh (No. 14579260H now JC-760012L), 01 Aug 2005/01 Jun 2005*

Subhash Chander (No. 14576477F now JC-760011H), 01 Aug 2005/01 Jun 2005*

HMT to be Nb Sub Tech (RO)

G Samarsan (No. 14578758W now JC-760274P), 01 Oct 2005/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech (Armr)

Arun Kumar (No. 14608878M now JC-760284L), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

Puspendra Kumar Pal (No. 14606023L now JC-760281X), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

Manoj Kumar (No. 14613193X now JC-760291F), 20 Oct 2005/01 Sep 2005*

Iqbal Singh (No. 14613237K now JC-760292K), 18 Oct 2005/01 Sep 2005*

Madan Prasad Singh (No. 14596521F now JC-760135X), 08 Aug 2005/01 Jul 2005*

HMT to be Nb Sub Tech (Elect)

Sanjay Upadhyay (No. 14608346M now JC-760044N), 01 Sep 2005

DC Pratap Kumar (No. 14611190L now JC-760047F), 01 Sep 2005

Paramesh Saha (No. 14612061X now JC-760082K), 01 Sep 2005

Subhash Singh (No. 14586240X now JC-760083M), 01 Sep 2005

HMT to be Nb Sub Tech (Gun)

Jagwinder Singh (No. 14610797L now JC-760127Y), 01 Aug 2005/12 Jun 2005*

HMT to be Nb Sub Tech (AVN)

Ajit Kumar Jha (No. 14570673L now JC-760270L), 21 Oct 2005/01 Sep 2005*

Geetha Krishanan Nair K (No. 14574203A now JC-759875A), 26 Aug 2005/01 Mar 2005*

Hav to be Nb Sub FTR (FD)

Dharma Nand (No. 14539950K now JC-760172L), 04 Oct 2005/01 Sep 2005*

Ram Singh (No. 14540463W now JC-760173N), 07 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Sajal Kumar Das (No. 14536401Y now JC-760177K), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

MK Pathak (No. 14536483M now JC-760178M), 11 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub Tcm (RO)

CS Pokhriyal (No. 14555073L now JC-760175Y), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

Buddopu Togaiah (No. 14557512K now JC-760176F), 14 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub VM (MV)

Basappa Kadashidda Navar (No. 14538095N now JC-760095F), 17 Aug 2005/01 Jun 2005*

Dinesh Prasad (No. 14540429W now JC-760170A), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

SP Mandal (No. 14539588F now JC-760166X), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

Ram Babu (No. 14539816Y now JC-760168H), 13 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub (Mach)

Mast Ram (No. 14546155N now JC-760160W), 11 Oct 2005/01 Sep 2005*

Naba Kumar Mandal (No. 14546204H now JC-760161Y), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub (Welder)

SK Singh (No. 14549054K now JC-760165P), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

Pawan Kumar Sharma (No. 14547954P now JC-760164M), 15 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub (ARMR)

Shiv Muni Ram (No. 14548123H now JC-760201P), 10 Oct 2005/01 Sep 2005*

Jogan Pathak (No. 14549893H now JC-760215P), 08 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Bahadur Chand (No. 14550265Y now JC-760230K), 14 Oct
2005/01 Sep 2005*

Gopal Singh (No. 14550453A now JC-760226F), 19 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Umesh Kumar Kakad (No. 14549282M now JC-760216X),
14 Oct 2005/01 Sep 2005*

Vithal Nikam (No. 14546109X now JC-760232P), 18 Oct 2005/
01 Sep 2005*

BL Bishnoi (No. 14547092F now JC-760193F), 08 Oct 2005/
01 Sep 2005*

David Sunder Raj M (No. 14547077M now JC-760189Y),
06 Oct 2005/01 Sep 2005*

Santanu Mandal (No. 14549021Y now JC-760208Y), 07 Oct
2005/01 Sep 2005*

Kaira Kudada (No. 14548486M now JC-760206N), 14 Oct
2005/01 Sep 2005*

SN Kumar (No. 14543340P now JC-760190N), 30 Sep 2005/
01 Sep 2005*

Ashok Ghorpade (No. 14546416P now JC-760185H), 18 Oct
2005/01 Sep 2005*

Jayarajan KN (No. 14549406W now JC-760221H), 10 Oct
2005/01 Sep 2005*

Ghanshyam (No. 14549017W now JC-760205L), 10 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nil Kanta Singha (No. 14550067N now JC-760231M),
08 Oct 2005/01 Sep 2005*

Ram Chandra Prajapati (No. 14549686P now JC-760228M),
06 Oct 2005/01 Sep 2005*

AC Dutta (No. 14548091L now JC-760298A),
10 Oct 2005/01 Sep 2005*

Kali Kumar Mandal (No. 14549099K now JC-760213K),
09 Oct 2005/01 Sep 2005*

Arjun Prasad (No. 14547880L now JC-760199H), 06 Oct 2005/
01 Sep 2005*

RN Saha (No. 14547704N now JC-760197X),
06 Oct 2005/01 Sep 2005*

PK Deb (No. 14547703L now JC-760196P), 10 Oct 2005/01
Sep 2005*

Udaya Bhan (No. 14549526P now JC-760223N), 10 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Raghupathi A (No. 14547175M now JC-760194K), 07 Oct
2005/01 Sep 2005*

BG Yashwant Rao (No. 14549359K now JC-760214M),
06 Oct 2005/01 Sep 2005*

Inderjit Singh (No. 14547467P now JC-760195M), 07 Oct
2005/01 Sep 2005*

BR Kheechar (No. 14550371X now JC-760220A), 07 Oct
2005/01 Sep 2005*

Ashok Kumar Singh (No. 14544733X now JC-760209F),
05 Oct 2005/01 Sep 2005*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Ram Pati Pandey (No. 14557620N now JC-760049M), 01 Sep
2005

Choudhury Behera (No. 14558043Y now JC-760149X),
01 Sep 2005

Niranjan Singh (No. 14558534P now JC-760182P), 06 Oct
2005/01 Sep 2005*

RV Kadadevaru (No. 14553321X now JC-760181H), 07 Oct
2005/29 May 2005*

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

PS Pradhan (No. 14542436 now JC-760152X), 11 Oct 2005/
01 Sep 2005*

Nemi Chand (No. 14542786X now JC-760153A), 08 Oct 2005/
01 Sep 2005*

SR Mishra (No. 14542894F now JC-760121X), 01 Aug 2005

Hanoman Singh (No. 14542904A now JC-760125N), 01 Aug
2005

To be Sub Tech

Nb Sub gopal Ram Kalirawna (JC-755904M), 29 Dec 2005/
01 Dec 2005*

Nb Sub Ram Bahadur Pal (JC-755957L), 14 Feb 2006/01 Jan
2006*

Nb Sub Ganesh Chandra Mahato (JC-756040A), 09 Mar
2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Mohammed Yasin (JC-756041H), 07 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Raghuraj Singh (JC-756042L), 09 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Jawahar Mal-Jat (JC-756044W), 03 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Sher Singh Bisht (JC-756045Y), 09 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Ghana Shyam Singh (JC-756046F), 07 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Nb Sub Rambir Sharma (JC-756051M), 08 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Pratheepan M (JC-756054A), 06 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Vachan Vir Singh (JC-756056L), 17 Mar 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Ramvir Mistry (JC-756157Y), 11 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Vidya Dhar (JC-756273F), 14 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Anil Kumar Singh (JC-756059Y), 14 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Shyamal Kumar Ray (JC-756299W), 14 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Sheesh Ram (JC-756163M), 17 Mar 2006/01 Feb 2006*

Nb Sub Omprakash (JC-756164P), 09 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Shri Krishna Roy (JC-756275M), 09 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Balwant Singh (JC-756149A), 09 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Himmat Singh Makwana (JC-756238Y), 09 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ramavatar Gurjar (JC-756166A), 08 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Surender Kumar (JC-756169N), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Vijay Kumar T (JC-756170H), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Amirthalingam A (JC-756377H), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Mohammad Sattar (JC-756621X), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Rajbir Singh (JC-756286Y), 12 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Gain Singh (JC-756300A), 08 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Golap ch bharali (JC-756144F), 18 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Karedla Prabhakara Rao (JC-756205N), 13 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Patil Mahadev Pandurang (JC-756309P), 26 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Prasanta Kumar Saha (JC-756310K), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub JS Mahurkar (JC-756289M), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Gyan Chandra prasad Gupta (JC-756239F), 22 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ramai Prasad (JC-756240W), 22 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Narender Pal Singh Soam (JC-756241Y), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Raghuveer Singh (JC-756394H), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sultan Singh (JC-756242F), 19 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Retumani Bora (JC-756301H), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Om Prakash Misra (JC-756248H), 16 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub P Jayavelu Reddy (JC-756321W), 13 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ashok Kumar Pramanick (JC-756473X), 13 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Kaushal Kishorh Saxena (JC-756371F), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ved prakash (JC-756436K), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ashok Kumar (JC-756376A), 14 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub MD Jaihr Hussain (JC-756630Y), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Jogeswar Pradhan (JC-756463N), 14 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ram Achaikar Shukla (JC-756620P), 13 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Gunturi Nageswara Rao (JC-756440M), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Kashi Nath Singh (JC-756441P), 14 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Gaje Singh (JC-756623H), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Rasananda behera (JC-756382N), 12 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Tribhuwan Singh (JC-756442X), 13 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Dayal Chand (JC-756443A), 14 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Braja Lal Saha (JC-756444H), 08 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Ram Kishor Singh (JC-756445L), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Sunil Kumar Singh (JC-756386K), 21 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Jaya Seelan (JC-756628F), 15 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Arun Chakraborty (JC-756631F), 17 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Balbir Singh (JC-756447W), 18 Apr 2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Bhunu Das Patra (JC-756370Y), 15 Apr 2006/
01 Mar 2006*

Nb Sub Bongarla Khageswara Rao (JC-756676F), 17 Apr
2006/01 Mar 2006*

Nb Sub Pitamber Singh (JC-756677K), 17 Apr 2006/01 Mar
2006*

Nb Sub Kishan Singh (JC-756147P), 09 Apr 2006/01 Mar
2006*

Nb Sub Harihar Gouda (JC-756058W), 04 Apr 2006/01 Feb
2006*

Nb Sub Bharat Prasad (JC-756141N), 12 Apr 2006/01 Mar
2006*

Hav to be Nb Sub Clik (GD)

Bijaya Kumar Pradhan (No. 14561913W now JC-760666P),
15 Apr 2006/01 Mar 2006*

NK Murthey (No. 14554831L now JC-760547Y), 10 Apr 2006/
01 Feb 2006*

Rajvir Singh (No. 14562615M now JC-760592L), 01 Apr 2006

Shiv Nath Thakur (No. 14561451P now JC-760544L), 18 Mar
2006/01 Feb 2006*

Kusum Pal Singh (No. 14561631X now JC-760586X),
18 Mar 2006/01 Mar 2006*

Subhash Chandra Jha (No. 14561950K now JC-760590A),
13 Mar 2006/01 Mar 2006*

Manjeet Singh Bajwa (No. 14562237Y now JC-760591H),
01 Apr 2006

Hav to be Nb Sub SKT

Harpal Singh Pundir (No. 14544047K now JC-760574H),
13 Mar 2006/01 Feb 2006*

Parmodh Kumar (No. 14543691K now JC-760654A), 29 Mar
2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub ARMN

Bhumanna Shriashyad (No. 14550649N now JC-760369F),
16 Dec 2005/01 Nov 2005*

Punnian Chutia (No. 14551699L now JC-760494L), 14 Feb
2006/01 Dec 2005*

Shivendera Pathak (No. 14551283N now JC-760578Y),
27 Mar 2006/01 Feb 2006*

Dhamande Gajanan Ramsa (No. 14551391X now JC-
760579F), 17 Mar 2006/01 Feb 2006*

Krishnan Murari (No. 14549273L now JC-760580W), 20 Mar
2006/01 Feb 2006*

WBR Nathuji (No. 14550338A now JC-760581Y), 13 Mar
2006/01 Feb 2006*

Prem Narayan Meena (No. 14550456N now JC-760584M),
14 Mar 2006/01 Mar 2006*

Awadesh Kumar Shukla (No. 14551637M now JC-760576N),
24 Mar 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub DVR (MT)

Ram Avtar (No. 14545548W now JC-760427A), 01 Jan 2006/
01 Dec 2005*

Ram Avtar (No. 14542116W now JC-760550Y), 07 Mar 2006/
01 Jan 2006*

Hara Prasad Biswas (No. 14545663W now JC-760553M),
29 Mar 2006/01 Jan 2006*

Nawal Singh (No. 14545097F now JC-760554P), 07 Mar 2006/
01 Jan 2006*

Jagdish Prasad (No. 14545851X now JC-760557H), 11 Mar
2006/01 Feb 2006*

Ghana KT Das (No. 14545104M now JC-760558L), 20 Mar
2006/01 Feb 2006*

Dhanpat Singh (No. 14545107A now JC-760559M), 10 Mar
2006/01 Feb 2006*

Ravindra Pratap Singh (No. 14545108H now JC-760560H),
24 Mar 2006/01 Feb 2006*

Brij Mohan (No. 14545938Y now JC-760562N), 21 Mar 2006/
01 Feb 2006*

Narendra Pratap (No. 14545947Y now JC-760564Y), 11 Mar
2006/01 Mar 2006*

Dashrath Ram (No. 14545969Y now JC-760567M), 01 Apr
2006

Indra Singh (No. 14545972Y now JC-760568P), 01 Apr 2006

Ravi Kant Srivastava (No. 14545627L now JC-760658W),
04 Apr 2006/05 Mar 2006*

Kamleshwar Thakur (No. 14545199X now JC-760570M),
01 Apr 2006

Sidhnath Giri (No. 14545196K now JC-760569X), 01 Apr
2006

Hav to be Nb Sub Metalsmith

Badri Prasad Yadav (No. 14551207F now JC-760602K),
18 Mar 2006/01 Nov 2005*

Hav to be Nb Sub Welder

Lakhpatri (No. 14581072A now JC-760672H), 06 Apr 2006/
05 Mar 2006*

Tapan Kumar Dey (No. 14549914M now JC-760669H),
06 Apr 2006/01 Dec 2005*

Budha Ram (No. 14550448F now JC-760671A), 07 Apr
2006/01 Mar 2006*

Shashi Kant Pandey (No. 14550482P now JC-760598M),
16 Mar 2006/01 Mar 2006*

Devendra Kumar Sharma (No. 14548893P now JC-760594W), 13 Mar 2006/01 Oct 2005*

Hav to be Nb Sub AF

Dhirendra Singh (No. 14558672W now JC-760647K), 28 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav to be Nb Sub Elect (MV)

Pramod Kumar (No. 14540544W now JC-760645Y), 24 Mar 2006/01 Jan 2006*

S N Prasad (No. 14541295P now JC-760646F), 01 Apr 2006

Hav to be Nb Sub Machinist

Vijay Thapa (No. 14548553M now JC-760673L), 06 Apr 2006/05 Feb 2006*

Hav to be Nb Sub VM(MV)

Nand Lal Tiwari (No. 14541011A now JC-760652P), 25 Mar 2006/01 Feb 2006*

Radhey Shyam Sharma (No. 14541036M now JC-760653X), 27 Mar 2006/01 Mar 2006*

Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Rajendra Ram (No. 14544932L now JC-760650K), 01 Apr 2006

Hav to be Nb Sub TCM (L)

Som Pal (No. 14676538H now JC-760649P), 30 Mar 2006/01 Jan 2006*

Hav to be Nb Sub Tech (SA)

Satyendra Naryan Jha (No. 14611977A now JC-760628Y), 01 Apr 2006

Kurma VV Nageswara Rao (No. 14608587M now JC-760623A), 10 Mar 2006/01 Feb 2006*

Braj Nandan Kumar (No. 14604987F now JC-760681K), 01 Apr 2006

Kailash Rout (No. 14611984W now JC-760684X), 08 Apr 2006/01 Apr 2006*

Hav to be Nb Sub Tech (RO)

Satish Kumar (No. 14613488N now JC-760683P), 04 Apr 2006/01 Mar 2006*

HMT to be Nb Sub Tech Elect

Jagmohan Singh (No. 14570544L now JC-760687L), 08 Apr 2006/01 Jan 2006*

Jagbir Singh (No. 14604630L now JC-760631Y), 23 Mar 2006/01 Feb 2006*

Hav to be Nb Sub Tech Inst

K V Srinivasa Rao (No. 14606603A now JC-760611L), 01 Apr 2006

Hav to be Nb Sub Tech B Veh

Manoranjana Prasad (No. 14610409H now JC-760679M), 08 Apr 2006/05 Mar 2006*

Anitya Konwar (No. 14606064P now JC-760075N), 12 Apr 2006/01 Sep 2005*

HMT to be Nb Sub Tech 'B' Veh

Devendra Kumar Singh (No. 14608239L now JC-759847N), 09 Apr 2005/01 Apr 2005*

Rajesh Kumar (No. 14609218F now JC-759849Y), 09 Apr 2005/01 Apr 2005*

Haridas Mandal (No. 14608624P now JC-759848W), 01 Apr 2005

Raj Kumar (No. 14595403F now JC-759841M), 09 Apr 2005/01 Apr 2005*

Sheike Dilip Narayan (No. 14613067L now JC-759836F), 04 Apr 2005/01 Apr 2005*

Mohanan PK (No. 14584677M now JC-759720L), 08 Feb 2005/01 Jan 2005*

Rakesh Kumar (No. 14610825M now JC-759727P), 01 Feb 2005

Chinnayappa S (No. 14611277M now JC-759729A), 01 Mar 2005

Umesh Narain Singh (No. 14612815F now JC-759833N), 11 Apr 2005/01 Apr 2005*

Shyam Singh (No. 14607354Y now JC-759543W), 29 Dec 2004/01 Oct 2004*

Durbadal Kanti Dey (No. 14611439M now JC-759732A), 01 Mar 2005

Ajab Singh Raghav (No. 14611559L now JC-759731X), 01 Mar 2005

Hari Kishan (No. 14613032P now JC-759837K), 15 Apr 2005/01 Apr 2005*

Sunil Kumar Shukla (No. 14610430L now JC-759718N), 01 Mar 2005/01 Jan 2005*

HMT to be Nb Sub Tech Radio

Sukumar (No. 14593989K now JC-759806K), 01 Apr 2005

Ramchandra Pichkiya (No. 14590826L now JC-759803W), 01 Apr 2005

P Marriappan (No. 14584266N now JC-759798W), 15 Mar 2005/01 Nov 2004*

Ashok Kumar (No. 14575545X now JC-759662M), 23 Apr 2005/17 Oct 2004*

Braj Kishore Singh (No. 14605620N now JC-759618H), 15 Mar 2005/14 Nov 2004*

V Mathu Kumar (No. 14605699F now JC-759817W), 15 Apr 2005/14 Nov 2004*

HMT to be Nb Sub Tech AVN

Gopal Mandal (No. 14579934P now JC-759799Y), 17 Mar 2005/01 Feb 2005*

Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Bijay Kumar Singh (No. 14556879X now JC-759765L), 06 Feb 2005/01 Feb 2005*

HAV to be Nb Sub DVR (MT)

Shri Krishan Pandey (No. 14542338L now JC-759771Y), 10 Mar 2005/01 Mar 2005*

Mahanand Lima (No. 14542238A now JC-759746A), 19 Mar 2005/01 Mar 2005*

A Ramesh (No. 14542276W now JC-759773K), 23 Mar 2005/01 Mar 2005*

Basist Tiwari (No. 14541277M now JC-759884F), 09 Apr 2005/03 Apr 2005*

KulBahShai (No. 14542181W now JC-759887P), 26 Apr 2005/03 Apr 2005*

Harish Pandey (No. 14539046X now JC-759735N), 04 Feb 2005/01 Jan 2005*

Chog Singh (No. 14540507K now JC-759572L), 09 Mar 2005/01 Dec 2004*

Jagat Singh (No. 14541932A now JC-759768Y), 09 Mar 2005/01 Jan 2005*

Kashmir Lal (No. 14542268X now JC-759772F), 09 Mar 2005/01 Mar 2005*

Hanumappan B (No. 14542287H now JC-759774M), 12 Mar 2005/01 Mar 2005*

*Gtd ante date seniority

Army Ordnance Corps

To be Substantive Subedar Major: AMN Tech

Sub Major AMN Tech Unnikrishnan PT (JC-221715N), 01 Jan 2004

Sub Major AMN Tech Bablu Chakraborty (JC-223952W), 01 Jan 2004

Sub Major AMN Tech Shurbir Singh Aswal (JC-223939M), 01 Jan 2004

Sub Major AMN Tech Narender Kumar (JC-722679H), 01 Feb 2004

Sub Major AMN Tech Mohan Murari Sharma (JC-722519H), 01 June 2005

Sub Major AMN Tech Jagdish Chandar Khajuria (JC-722712P), 01 July 2005

Sub Major AMN Tech Mohanan K (JC-722768F), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar Major: Clk Aoc

Sub Major Clk S Cont Pitamber Singh Shakya (JC-722134L), 01 Aug 2003

Sub Major Clk S Cont Gagan Singh (JC-722245H), 01 Sep 2003

Sub Major Clk GD Radhey Shyam Upadhyay (JC-722203W), 01 Sep 2003

Sub Major Clk GD Sucha Ram (JC-722204Y), 01 Oct 2003

Sub Major Clk S Cont Mast Ram (JC-722253F), 01 Dec 2003

Sub Major Clk S Cont Ajit Prasad Singh (JC-722261A), 01 Dec 2003

Sub Major Clk S Cont Sant Lal (JC-722328N), 01 Feb 2004

Sub Major Clk GD Prem Prakash Sahu (JC-722164H), 01 Feb 2004

Sub Major Clk S Cont Bhabani Pada Chakroborti (JC-722327L), 01 Apr 2004

Sub Major Clk S Cont Mallikarjuno Patnaik (JC-722329W), 01 May 2004

Sub Major Clk S Prov Kapil Chandra Karfa (JC-722369X), 01 May 2004

Sub Major Clk S Cont Janardhanan Nair (JC-722407H), 01 May 2004

Sub Major Clk S Prov Girish Chandra (JC-722563M), 01 June 2004

Sub Major Clk S Cont Lal Singh (JC-722475W), 01 June 2004

Sub Major Clk S Cont Mohan Dasan M (JC-722416K), 01 June 2004

Sub Major Clk S Cont Rajender Singh (JC-722477F), 01 June 2004

Sub Major Clk S Cont Madhusudan Singh (JC-722420M), 01 June 2004

Sub Major Clk GD Ashok Kumar Bandyopadhyay (JC-722545K), 01 June 2004

Sub Major Clk GD Randhir Singh (JC-722481K), 01 July 2004

Sub Major Clk S Cont Kishori Lal Agrawal (JC-722631P), 01 Aug 2004

Sub Major Clk S Cont Hoshiar Singh Nijarania (JC-722657K), 01 Sep 2004

Sub Major Clk S Prov VN Gopi (JC-722671W),
01 Sep 2004

Sub Major Clk S Cont Krit Singh (JC-722678A),
16 Sep 2004

Sub Major Clk S Cont Birendra Singh Rajwar (JC-722736F),
01 Oct 2004

Sub Major Clk GD Mathew MM (JC-722688K),
01 Oct 2004

Sub Major Clk S Cont Ramesh Kumar Singh (JC-722763H),
01 Oct 2004

Sub Major Clk S Cont Jayaraman VN (JC-722747L),
01 Nov 2004

Sub Major Clk S Cont Mobinudeen T (JC-722693P),
01 Dec 2004

Sub Major Clk S Cont Siya Ram Singh (JC-722372X),
01 Feb 2005

Sub Major Clk GD Bhuri Singh Chauhan (JC-722709P),
01 Feb 2005

Sub Major Clk GD Hari Prasad (JC-722729H), 01 Feb 2005

Sub Major Clk S Cont Devi Singh (JC-722779N),
01 Mar 2005

Sub Major Clk S Cont Subedar Ram Yadav (JC-722690F),
01 Mar 2005

Sub Major Clk GD Rama Chandran Nair R (JC-722778L),
01 Apr 2005

Sub Major Clk S Cont Surender Singh Rawat (JC-722791P),
01 June 2005

Sub Major Clk S Cont G Pursuthaman (JC-722842X),
01 June 2005

Sub Major Clk S Cont Patil Uttam rao Babu Rao
(JC-722830H), 01 June 2005

Sub Major Clk S Cont Lal Chand (JC-722930N),
01 June 2005

Sub Major Clk S Cont Babuji G (JC-722943L),
01 July 2005

Sub Major Clk S Cont Shridhar Dehury (JC-722894M),
01 Aug 2005

Sub Major Clk S Cont Ummed Singh Miral (JC-722025L),
01 Aug 2005

Sub Major Clk S Cont Bhola Yadav (JC-722990H),
01 Aug 2005

To be Substantive Subedar Major: Skt

Sub Major Skt MT Prakash Chand (JC-722537L),
01 Aug 2003

Sub Major Skt MT Jai Prakash Lamba (JC-722553H),
01 Sep 2003

Sub Major Skt MT Ram Kumar (JC-722595P),
01 Sep 2003

Sub Major Skt MT Ashok Kumar Singh (JC-722596X),
01 Sep 2003

Sub Major Skt MT Hare Krishna Bhowal (JC-722612K),
01 Oct 2003

Sub Major Skt MT Sagar Chand Patial (JC-722654W),
01 Oct 2003

Sub Major Skt GS & C Hari Bahadur Ghale (JC-722676P),
01 Nov 2003

Sub Major Skt MT Phencho Wangdi Dupka (JC-722737F),
01 Nov 2003

Sub Major Skt GS & C Indra Singh Shekhawat (JC-
722648H), 01 Nov 2003

Sub Major Skt AMN Mahabir Singh Atri (JC-722685W),
01 Dec 2003

Sub Major Skt MT Subash Chand Jasrotia (JC-722758X),
01 Dec 2003

Sub Major Skt MT Nrusinha Nand Pathak (JC-722780H),
01 Feb 2004

Sub Major Skt MT Raj Narain Dubey (JC-722784N),
01 Feb 2004

Sub Major Skt MT Ram Charan (JC-722112M),
01 Feb 2004

Sub Major Skt AMN Prem Kumar (JC-722101A),
01 Mar 2004

Sub Major Skt WEP Santokh Singh (JC-722103L),
01 Mar 2004

Sub Major Skt GS & C George Kutty KP (JC-722452P),
01 Apr 2004

Sub Major Skt MT Prakash Chandra Samanta Ray (JC-
722682N), 01 Apr 2004

Sub Major Skt MT Vinod Chathoth (JC-722761M),
01 Apr 2004

Sub Major Skt GS & C Gopal Singh Rathore (JC-722650A),
01 Apr 2004

Sub Major Skt Sig Hans Raj Prasad (JC-722652L),
01 May 2004

Sub Major Skt Wep Vasanthan V (JC-722744X),
01 Jun 2004

Sub Major Skt Wep Rajender Singh Kaushik (JC-722800L),
01 Jun 2004

Sub Major Skt Sig Satyavir Singh Nagania (JC-722814L),
01 Jun 2004

Sub Major Skt Wep Swaran Singh Jamwal (JC-722802W),
01 Aug 2004

Sub Major Skt Sig Prakash Chand (JC-722815N),
01 Sep 2004

Sub Major Skt MT Jogendra Kumar Pradhan (JC-722816W), 01 Oct 2004

Sub Major Skt MT MD Qazed Hossain (JC-722897F),
01 Nov 2004

Sub Major Skt MT Mahavir Singh Dhankar (JC-722847W),
01 Nov 2004

Sub Major Skt Sig Abhey Singh Yadav (JC-722886P),
01 Nov 2004

Sub Major Skt Wep Moti Lal (JC-722913N), 01 Dec 2004

Sub Major Skt MT Manjit Singh (JC-722852F),
01 Dec 2004

Sub Major Skt MT Ramanand Sharma (JC-722887X),
01 Dec 2004

Sub Major Skt Wep Muraleedharan Nair C (JC-722876L),
01 Jan 2005

Sub Major Skt Wep Kikar Singh (JC-722861H),
01 Feb 2005

Sub Major Skt MT Daya Shankar Singh (JC-722801N),
01 Apr 2005

Sub Major Skt MT Akshyabher Nath Tiwari (JC-722951K),
01 Apr 2005

Sub Major Skt MT E Vijaya Kumar (JC-723058W),
01 Apr 2005

Sub Major Skt MT Dhane Badan Rao Maruti (JC-722934K), 01 May 2005

Sub Major Skt Sig Tulsi Ram (JC-723072H), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedar Major : Drivers

Sub Major Driver MT GH Qadir Khan (JC-722823M),
01 July 2003

Sub Major Driver Spl Rajendra Kumar (JC-722557Y), 01
Apr 2004

Sub Major Driver MT Satendra Kumar Sharma (JC-722918M), 01 Aug 2004

Sub Major Driver MT Neel Kumar (JC-724216M), 01 Mar
2005

Sub Major Driver MT Kuldeep Singh Negi (JC-724239N),
01 May 2005

To be Substantive Subedar Major : SH Tech

Sub Major SH Tech Swapan Kumar Dey (JC-723446N),
01 Nov 2004

To be Substantive Subedar Major : SH GD

Sub Major SH GD Rohitasva (JC-722917K), 01 Sep 2003

Sub Major SH GD Mutyala Venkata Rao (JC-722937X),
01 Nov 2003

Sub Major SH GD Data Ram (JC-722307X), 01 Jan 2004

Sub Major SH GD Ram Mani Chaturvedi (JC-722559K),
01 Apr 2004

Sub Major SH GD Ashok Babu Jadhav (JC-722560Y),
01 Apr 2004

Sub Major SH GD Krishan Kumar (JC-722603H),
01 May 2004

Sub Major SH GD Susanta Ghosh (JC-722966L),
01 May 2004

Sub Major SH GD Shashi Mohan Jha (JC-723266L),
01 Sep 2004

Sub Major SH GDRC Thakur (JC-723267N), 01 Sep 2004

Sub Major SH GD Ram Das Singh (JC-723268W),
01 Oct 2004

Sub Major SH GD Nadim Palli Appala Raju
(JC-724241L), 01 Mar 2005

Sub Major SH GD Satbir Singh (JC-723752H),
01 Apr 2005

To be Substantive Subedar Major: Carp (Unit)/Ptr (Unit)

Sub Major Carp (Unit) Damodar Swain (JC-722495K),
01 Sep 2003

Sub Major Carp & Jnr Jagbir (JC-724242H), 01 Mar 2005

Sub Major Ptr (Unit) Kuldip Singh (JC-724263K),
01 May 2005

To be Substantive Subedar Major : Tex Rep

Sub Major Tex Rep Jai Prakash Sharma (JC-724073X),
01 Feb 2004

To be Substantive Subedars: Amn Tech

Subedar Amn Tech Man Mohan Singh (JC-724128W),
01 July 2003

Subedar Amn Tech Joginder Singh (JC-724077N),
01 July 2003

Subedar Amn Tech Om Prakash (JC-724129Y), 01 July
2003

Subedar Amn Tech Raj Kumar (JC-724078W), 01 Sep 2003

Subedar Amn Tech Ashok Mukhopadhyay (JC-724074A),
01 Oct 2003

Subedar Amn Tech Satgur Singh (JC-724075H), 01 Oct 2003

Subedar Amn Tech Akshay Kumar Das (JC-724130N), 01 Oct 2003

Subedar Amn Tech Raj Kapoor (JC-724162W), 01 Nov 2003

Subedar Amn Tech Virendra Singh (JC-724135M), 01 Dec 2003

Subedar Amn Tech Dharam Pal (JC-724132Y), 01 Jan 2004

Subedar Amn Tech Sat Naryana (JC-724131W), 01 Jan 2004

Subedar Amn Tech Gopal Singh Khayalia (JC-724133F), 01 Feb 2004

Subedar Amn Tech Radha Krishnan P (JC-724106X), 01 Mar 2004

Subedar Amn Tech Narayanan C (JC-724134K), 01 Apr 2004

Subedar Amn Tech Shiv Shankar Prasad (JC-724076L), 01 Apr 2004

Subedar Amn Tech Utpala Aditya Jana (JC-724136P), 01 May 2004

Subedar Amn Tech Patil Punam Chand Yadav (JC-724137X), 01 May 2004

Subedar Amn Tech Manjit Singh (JC-724222A), 01 June 2004

Subedar Amn Tech Kamruddin (JC-723993H), 01 Aug 2004

Subedar Amn Tech Rama Kant Verma (JC-724275Y), 01 Sep 2004

Subedar Amn Tech Amar Singh (JC-724163Y), 01 Oct 2004

Subedar Amn Tech Suvash Kumar Singh (JC-724224L), 01 Nov 2004

Subedar Amn Tech Mahabir Singh Sisodia (JC-724164F), 01 Nov 2004

Subedar Amn Tech B Rahunanand Sharina (JC-724165K), 01 Dec 2004

Subedar Amn Tech Tejvir Singh (JC-724166M), 01 Jan 2005

Subedar Amn Tech Rabinder Prasad Singh (JC-724225H), 01 Jan 2005

Subedar Amn Tech Mahamulkar RM (JC-724167P), 01 Feb 2005

Subedar Amn Tech Purushothaman CK (JC-724223H), 01 Mar 2005

Subedar Amn Tech Suresh Singh (JC-724289Y), 01 Mar 2005

Subedar Amn Tech Nirakar Sethy (JC-724290N), 01 June 2005

Subedar Amn Tech Sunil Kumar Das (JC-724276F), 01 July 2005

Subedar Amn Tech Sasidharan Nair V (JC-724291W), 01 July 2005

Subedar Amn Tech Ardhi Maheswar Rao (JC-724355W), 01 July 2005

Subedar Amn Tech Baiju A (JC-724398L), 01 Aug 2005

To be Substantive Subedars: Ck AOC

Subedar Ck S Cont MD Mustaque Ahmed (JC-724107A), 23 June 2002

Subedar Ck S Cont Rama Murthy Bagadi (JC-723709F), 01 July 2003

Subedar Ck S Cont Mahabir Prasad Verma (JC-724601W), 01 July 2003

Subedar Ck S Prov Suresh Chandar Sharma (JC-724561A), 01 July 2003

Subedar Ck GD Kshudi Ram Jana (JC-724502N), 01 July 2003

Subedar Ck GD Ananda Kaman (JC-724504Y), 01 July 2003

Subedar Ck GD Moniruddin Sheikh (JC-724506K), 01 July 2003

Subedar Ck GD Tapas Ghosh (JC-724507M), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Jog Raj Singh (JC-724556P), 01 Aug 2003

Subedar Ck S Cont Raj Pal (JC-724540K), 01 Aug 2003

Subedar Ck S Cont Janardhan Madiwal (JC-724602Y), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Ram Pal Yadav (JC-724541M), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Diwakar Prasad Dhjahi (JC-724554K), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Ram Singh Negi (JC-724485Y), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Raj Rup Singh (JC-724489P), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Arun Kumar Dubey (JC-724486F), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Ghan Shyam Singh (JC-724487K), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Ram Narayan (JC-724577L), 01 Aug 2003

Subedar Ck GD Nanda Ballabh (JC-724533N), 01 Aug 2003

Subedar Clk GD Tej Pal Singh Chauhan (JC-724510M), 01 Sep 2003

Subedar Clk S Cont Rajendran Pillai PA (JC-724603F), 01 Sep 2003

Subedar Clk S Cont Janardhan Dass (JC-724581N), 01 Sep 2003

Subedar Clk GD Ashok Kumar (JC-724544A), 01 Sep 2003

Subedar Clk GD MD Alam Ansari (JC-724582W), 01 Sep 2003

Subedar Clk GD Suresh Kumar (JC-724488M), 01 Sep 2003

Subedar Clk S Cont Ram Pal Singh (JC-724558A), 01 Sep 2003

Subedar Clk S Prov Mangtu Ram (JC-724559H), 01 Sep 2003

Subedar Clk S Prov Chhatrala Prabhu Das (JC-724604K), 01 Sep 2003

Subedar Clk GD Jagir Singh Jamodia (JC-724562H), 01 Sep 2003

Subedar Clk GD Virendra Kumar Dixit (JC-724605M), 01 Sep 2003

Subedar Clk GD Vidya Pati Chaubey (JC-724583Y), 01 Sep 2003

Subedar Clk GD Chand Singh (JC-724326F), 01 Oct 2003

Subedar Clk GD TV Ashok Kumar (JC-724584F), 01 Oct 2003

Subedar Clk S Prov Subhash Chandra Saharam (JC-724580L), 01 Oct 2003

Subedar Clk S Prov Ravinder Singh Mohila (JC-724585K), 01 Oct 2003

Subedar Clk S Prov Verma Ramesh Kumar Gandalal (JC-724652K), 01 Oct 2003

Subedar Clk S Cont Suresh Prakash (JC-724563L), 01 Oct 2003

Subedar Clk GD Danial MJ (JC-724542P), 01 Oct 2003

Subedar Clk S Cont Shrawan Singh Rathore (JC-724651P), 01 Oct 2003

Subedar Clk GD Gurnam Singh (JC-724587P), 01 Oct 2003

Subedar Clk GD Yehram Reddy Lakshna Reddy (JC-724557X), 01 Nov 2003

Subedar Clk S Prov Raj Kumar Singh (JC-724565W), 01 Nov 2003

Subedar Clk S Prov Punjab Singh (JC-724588X), 01 Nov 2003

Subedar Clk S Cont Mohinder Pal (JC-724590P), 01 Nov 2003

Subedar Clk S Cont Bishamber Singh (JC-724566Y), 01 Nov 2003

Subedar Clk GD Madan Lal (JC-724606P), 01 Nov 2003

Subedar Clk GD Shyam Lal Yadav (JC-724579W), 01 Nov 2003

Subedar Clk S Cont Rash Pal Singh (JC-724567F), 01 Nov 2003

Subedar Clk S Cont Prem Singh Rawat (JC-724591X), 01 Dec 2003

Subedar Clk S Prov Pushpender Singh (JC-724607X), 01 Dec 2003

Subedar Clk GD Gurbachan Singh (JC-724543X), 01 Dec 2003

Subedar Clk S Cont Shri Ram (JC-724592A), 01 Dec 2003

Sub Clk S Prov Sudhir Kumar Singh (JC-724568K), 01 Dec 2003

Sub Clk S Cont Rameshwar (JC-724569M), 01 Dec 2003

Sub Clk GD Ram Bachan (JC-724589F), 01 Dec 2003

Sub Clk S Cont Thangaraju V (JC-724669X), 01 Dec 2003

Sub Clk S Cont Ashok Kumar Tiwari (JC-724656A), 01 Dec 2003

Sub Clk GD Krishna Lal Gagayam (JC-724670M), 01 Dec 2003

Sub Clk GD Sudhakar Lal (JC-724657H), 01 Dec 2003

Sub Clk GD Palti Sahu (JC-724671P), 01 Dec 2003

Sub Clk S Cont Uma Shankar Sharma (JC-724722X), 01 Dec 2003

Sub Clk GD Parshotam Chand (JC-724672X), 01 Dec 2003

Sub Clk S Prov Sahab Singh Verma (JC-724658L), 01 Dec 2003

Sub Clk GD Nitya Nand Sharma (JC-724674H), 01 Dec 2003

Sub Clk GD John Paul F (JC-724613L), 01 Jan 2004

Sub Clk S Prov Moti Ram (JC-724689F), 01 Jan 2004

Sub Clk S Prov K C Behera (JC-724704P), 01 Jan 2004

Sub Clk GD Naresh Kumar (JC-724660H), 01 Jan 2004

Sub Clk GD Rakesh Singh (JC-724653M), 01 Jan 2004

Sub Clk S Prov Surendra Nath Yadav (JC-724687A), 01 Jan 2004

Sub Clk S Prov Ganesh Prasad Yadava (JC-724673A),
01 Jan 2004

Sub Clk GD Trilok Singh (JC-724608A), 01 Feb 2004

Sub Clk S Cont Deep Raj Bhan (JC-724659N), 01 Feb 2004

Sub Clk GD Sheshadeva Mishra (JC-724716K), 01 Feb
2004

Sub Clk GD Amarnathan (JC-726610K), 01 Feb 2004

Sub Clk GD Ram Bilas Yadav (JC-724723A), 01 Feb 2004

Sub Clk GD Krishna Chand Swansi (JC-724611A), 01 Feb
2004

Sub Clk GD Kishor Kumar Singh Chauhan (JC-724846M),
01 Feb 2004

Sub Clk GD Nagpurkar Sunil Ramchandra Rao (JC-
724770X), 01 Feb 2004

Sub Clk GD Diwakar Kumar Raikawar (JC-724740A),
01 Feb 2004

Sub Clk S Prov Bijai Narain (JC-724741H), 01 Mar 2004

Sub Clk GD Gilbert L (JC-724732F), 01 Mar 2004

Sub Clk S Prov Birendra Prasad Bhatt (JC-724731Y),
01 Mar 2004

Sub Clk GD Nelaturi Rayappa (JC-724769H), 01 Mar 2004

Sub Clk S Cont Jagmal Singh (JC-724742L), 01 Mar 2004

Sub Clk S Cont Satrugan Mishra (JC-724743N), 01 Mar
2004

Sub Clk S Cont Sumer Singh (JC-724775W), 01 Mar 2004

Sub Clk S Cont SK Asgar Ali (JC-725547A), 01 Mar 2004

Sub Clk S Prov Raj Kishre Tiwari (JC-724797P), 01 Apr
2004

Sub Clk S Prov Suresh Chandra (JC-724750K), 01 Apr
2004

Sub Clk S Prov Ram Swaroop Mishra (JC-724981A),
01 Apr 2004

Sub Clk S Prov Tara Chand (JC-724798X), 01 Apr 2004

Sub Clk GD Rajinder Kumar (JC-724777F), 01 Apr 2004

Sub Clk GD Navin Chandra Sharma (JC-724778K), 01 May
2004

Sub Clk S Cont Kashmir Singh (JC-724779M), 01 May
2004

Sub Clk S Cont Ram Kishore Verma (JC-724800K), 01 May
2004

Sub Clk S Cont Sunder Lal (JC-724812Y), 01 May 2004

Sub Clk S Cont Tek Chandra Sharma (JC-724813F), 01 May
2004

Sub Clk GD Anup Kumar (JC-724848Y), 01 May 2004

Sub Clk GD Ram Bahadur (JC-724904L), 01 May 2004

Sub Clk S Prov Mukutmani Roy (JC-724883A), 01 May
2004

Sub Clk GD Raveendra Devalapur (JC-724814X), 01 May
2004

Sub Clk GD S Sahaya Joseph (JC-724087X), 01 Jun 2004

Sub Clk S Cont Chuni Lal (JC-724849A), 01 Jun 2004

Sub Clk GD Devendiran G (JC-724815M), 01 Jun 2004

Sub Clk S Cont Joginder Singh Yadav (JC-724867H),
01 Jun 2004

Sub Clk S Cont Balwant singh (JC-724817X), 01 Jun 2004

Sub Clk GD Vaman Maraga Nache (JC-724816P), 01 Jun
2004

Sub Clk S Cont Sant Ram Joon (JC-724868L), 01 Jun 2004

Sub Clk S Cont Jagdish Mudgal (JC-724869N), 01 Jun 2004

Sub Clk GD Balaji Singh (JC-724870H), 01 Jun 2004

Sub Clk S Prov Hari Shankar Singh (JC-724871L), 01 Jun
2004

Sub Clk GD C Rajendran (JC-724882X), 01 Jun 2004

Sub Clk S Cont Sune Lal Sharma (JC-724505F), 01 Jul 2004

Sub Clk S Cont BB Jeraji Balevia (JC-724578M), 01 Jul
2004

Sub Clk S Cont Sachida Nand Singh (JC-724847P), 01 Jul
2004

Sub Clk S Cont Hari Om (JC-724881P), 01 Jul 2004

Sub Clk S Cont Janardhan Bharati (JC-724872H), 01 Jul
2004

Sub Clk S Cont Gurmeet Singh (JC-724851X), 01 Jul 2004

Sub Clk GD Bira Kishor Dash (JC-724966L), 01 Jul 2004

Sub Clk GD Namdev Jivappa More (JC-724949L), 01 Jul
2004

Sub Clk GD Hare Ram Singh (JC-724950A), 01 Jul 2004

Sub Clk S Cont Hari Har Prasad Singh (JC-724884H), 01 Jul
2004

Sub Clk S Prov Radha Krishnan CV (JC-724885L), 01 Jul
2004

Sub Clk S Cont Srinibas Mohapatra (JC-724914P), 01 Jul
2004

Sub Clk S Cont AN Pattanayak (JC-724886N), 01 Jul 2004

Sub Clk S Cont Bishnu Mohan Panda (JC-724905N), 01 Jul 2004

Sub Clk S Cont Pramod Kumar Dash (JC-724906W), 01 Aug 2004

Sub Clk S Cont Pratap Kumar Sahoo (JC-724888Y), 01 Aug 2004

Sub Clk S Prov Dinakaran L (JC-724907Y), 01 Aug 2004

Sub Clk S Cont Ravaji Bhawe (JC-724915X), 01 Aug 2004

Sub Clk S Prov Laxmi Kant Shukla (JC-724916A), 01 Aug 2004

Sub Clk S Cont Nageshwar Prasad Shukla (JC-724917H), 01 Aug 2004

Sub Clk S Prov Satyabir Singh (JC-724951H), 01 Sep 2004

Sub Clk S Cont Jag Mohan Singh Yadav (JC-724918L), 01 Sep 2004

Sub Clk S Cont Mahipal Singh (JC-724908F), 01 Sep 2004

Sub Clk S Prov Abhay Singhi (JC-724919N), 01 Sep 2004

Sub Clk S Cont Rojjan Lal Pal (JC-724920H), 01 Sep 2004

Sub Clk S Prov Golam Ayub (JC-724934H), 01 Sep 2004

Sub Clk S Prov Janardhan Prasad (JC-724921L), 01 Sep 2004

Sub Clk S Cont Harnam Singh Yadav (JC-724922N), 01 Sep 2004

Sub Clk S Prov Jai Bahadur Singh (JC-724923W), 01 Sep 2004

Sub Clk S Prov Patil Maruti Govind (JC-724936N), 01 Sep 2004

Sub Clk S Prov Badal Kundu (JC-724938Y), 01 Sep 2004

Sub Clk S GD Ranbir Singh Rana (JC-724924Y), 01 Sep 2004

Sub Clk S Cont Om Prakash Yadav (JC-724925F), 01 Oct 2004

Sub Clk GD Karan Singh (JC-724926K), 01 Oct 2004

Sub Clk S Prov Bansj Ram (JC-724939F), 01 Oct 2004

Sub Clk S Prov Subir Kumar Biswas (JC-724940W), 01 Oct 2004

Sub Clk S Prov Surat Singh Jaglan (JC-724952L), 01 Oct 2004

Sub Clk S Prov Ashok Kumar Bawali (JC-724953N), 01 Oct 2004

Sub Clk GD Manphadi Vadagiri Reddy (JC-724955Y), 01 Oct 2004

Sub Clk S Prov Dharendra Kumar Panda (JC-724967N), 01 Oct 2004

Sub Clk S Cont Shri Bhagwan Ram (JC-724968W), 01 Oct 2004

Sub Clk S Prov Provash Biswas (JC-724957K), 01 Oct 2004

Sub Clk GD Mansoor Ahmed Khan (JC-725008K), 01 Oct 2004

Sub Clk S Prov Nand Lal Yadav (JC-725017L), 01 Oct 2004

Sub Clk S Prov Ajit Kumar Mazumdar (JC-725010F), 01 Oct 2004

Sub Clk S Cont Amirchand Pathania (JC-725018N), 01 Nov 2004

Sub Clk S Cont Balbir Chand (JC-725019W), 01 Nov 2004

Sub Clk S Cont Bisweswar Mondal (JC-724982H), 01 Nov 2004

Sub Clk S Prov Biren Ch Bara (JC-725038F), 01 Nov 2004

Sub Clk GD Rishikesh Tripathi (JC-724983L), 01 Nov 2004

Sub Clk GD Prakash Chand (JC-725009M), 01 Nov 2004

Sub Clk S Prov Rajesh Kumar (JC-725020L), 01 Nov 2004

Sub Clk S Cont Rajeswar Singh (JC-725011K), 01 Nov 2004

Sub Clk S Cont Ankush Patil (JC-725012M), 01 Nov 2004

Sub Clk S Cont Himal Chand (JC-725021N), 01 Dec 2004

Sub Clk S Cont Hirendra Kumar Dubey (JC-725022W), 01 Dec 2004

Sub Clk GD R Selva Raj (JC-725075P), 01 Dec 2004

Sub Clk S Cont G Rajan (JC-725023Y), 01 Dec 2004

Sub Clk S Cont Sivaruthru R (JC-725039K), 01 Dec 2004

Sub Clk GD Bhopal Singh (JC-724969Y), 01 Dec 2004

Sub Clk GD Upendra Kumar (JC-725136F), 01 Dec 2004

Sub Clk GD Ahmad Ali Khan (JC-724986Y), 01 Dec 2004

Sub Clk GD Bekambara Raju (JC-725047H), 01 Dec 2004

Sub Clk GD Ram Singh Bhandari (JC-724987F), 01 Dec 2004

Sub Clk S Prov Yudhbir Singh Raghawa (JC-724755H), 01 Jan 2005

Sub Clk S Prov Prabhakaran Pillai K (JC-724935L), 01 Jan 2005

Sub Clk S Cont Ganesh Kumar (JC-724984N), 01 Jan 2005

Sub Clk GD Basava Raju JB (JC-725024F), 01 Jan 2005

Sub Clk GD Shankar GN (JC-724988K), 01 Jan 2005

Sub Clk GD Om Prakash (JC-725076X), 01 Jan 2005

Sub Clk GD Bhim Shankar Sharma (JC-724998N), 01 Jan 2005

Sub Clk GD Devender Kumar (JC-724989M), 01 Jan 2005
 Sub Clk GD Ashok Kumar Kaul (JC-724990F), 01 Jan 2005
 Sub Clk GD Rajinder Kumar (JC-725014X), 01 Jan 2005
 Sub Clk GD Jasvir Singh (JC-725015A), 01 Jan 2005
 Sub Clk GD Gokula Valsan V (JC-725016H), 01 Jan 2005
 Sub Clk GD Nanu K (JC-724991K), 01 Feb 2005
 Sub Clk GD Haridasan KP (JC-724999W), 01 Feb 2005
 Sub Clk GD Jacob ME (JC-725000X), 01 Feb 2005
 Sub Clk GD Gurdial Singh (JC-725026N), 01 Feb 2005
 Sub Clk GD Harish Chandra Mishra (JC-725001N), 01 Feb 2005
 Sub Clk GD Surender Singh (JC-725002H), 01 Feb 2005
 Sub Clk GD Daya Krishan (JC-725027P), 01 Feb 2005
 Sub Clk GD R Rajendiran (JC-725066N), 01 Mar 2005
 Sub Clk GD S Jothu (JC-725041F), 01 Mar 2005
 Sub Clk GD Gopal Chandra Sarkar (JC-725042K), 01 Mar 2005
 Sub Clk GD Bhagirath Thakur (JC-725043M), 01 Mar 2005
 Sub Clk GD Behary Lal Koul (JC-725044), 01 Mar 2005
 Sub Clk GD Madan Mohan (JC-725045X), 01 Mar 2005
 Sub Clk GD Sanapala Anand Rao (JC-725077A), 01 Mar 2005
 Sub Clk GD Lal Babu Prasad Gupta (JC-725078H), 01 Mar 2005
 Sub Clk GD Shiv Om Nagachya (JC-725079L), 01 Apr 2005
 Sub Clk GD Ashok Kumar (JC-725121Y), 01 Apr 2005
 Sub Clk GD Chandra Kant (JC-725080A), 01 Apr 2005
 Sub Clk GD Bipin Kumar (JC-725081H), 01 Apr 2005
 Sub Clk S Cont Surendra Prasad Sahu (JC-725082L), 01 May 2005
 Sub Clk S Cont Babulal Ray (JC-725103W), 01 May 2005
 To be Substantive Subedars : SKT
 Sub SKT MT Satya Pal Singh (JC-723792K), 01 Jul 2003
 Sub SKT GS & C Narka Puram Peeraiah (JC-723614F), 01 Jul 2003
 Sub SKT MTK Prakash (JC-723648P), 01 Aug 2003
 Sub SKT (SKT Sig) Bhaskar Pradhan (JC-723943X), 01 Aug 2003
 Sub SKT MT Ashok Kumar Gupta (JC-723734A), 01 Aug 2003
 Sub SKT MT Ajay Shankar Pathak (JC-723821N), 01 Sep 2003

Sub SKT MT Dhandu Singh Verma (JC-723877A), 01 Sep 2003
 Sub SKT MT Jai Prakash Pandey (JC-724040A), 01 Sep 2003
 Sub SKT Sig Hemant Kumar Joshi (JC-724348A), 01 Sep 2003
 Sub SKT Sig Sanjiv Kumar Das (JC-724233M), 01 Sep 2003
 Sub SKT MT Babu Nandan Ram (JC-724257W), 01 Sep 2003
 Sub SKT MT Prasants Kumar Mondal (JC-724250M), 01 Sep 2003
 Sub SKT MT Fate Bahadur Singh (JC-724283X), 01 Oct 2003
 Sub SKT Sig Ravi Bahadur (JC-725285P), 01 Oct 2003
 Sub SKT Amn Digamber Singh (JC-724336L), 01 Oct 2003
 Sub SKT GS & C Shyam Bihari Sharma (JC-724382Y), 01 Oct 2003
 Sub SKT MT P Sampathu (JC-724337N), 01 Oct 2003
 Sub SKT Amn Shiv Kant (JC-724338W), 01 Oct 2003
 Sub SKT Amn Satyanarayan (JC-724311Y), 01 Oct 2003
 Sub SKT GS & C Karam Singh (JC-724313K), 01 Nov 2003
 Sub SKT Amn Chakradhar (JC-724339Y), 01 Nov 2003
 Sub SKT MT Ashok Kumar (JC-724314M), 01 Nov 2003
 Sub SKT MT Suresh Kumar (JC-724388F), 01 Nov 2003
 Sub SKT MT Janardhan Singh Yadav (JC-724365A), 01 Nov 2003
 Sub SKT MT Parshotam Lal (JC-724315P), 01 Nov 2003
 Sub SKT MT Swapna Nandi (JC-724351A), 01 Nov 2003
 Sub SKT MT Bhaktavarsalan KK (JC-724316X), 01 Nov 2003
 Sub SKT GS & C Jagminder Singh (JC-724317A), 01 Nov 2003
 Sub SKT GS & C Subash Chand (JC-724318H), 01 Dec 2003
 Sub SKT Sig Surender Prasad (JC-724340K), 01 Dec 2003
 Sub SKT MT Surjit Singh (JC-724352H), 01 Dec 2003
 Sub SKT MT KS Chauhan (JC-724353L), 01 Dec 2003
 Sub SKT Amn R Krishna Sainy (JC-724407), 01 Dec 2003
 Sub SKT WEP Ram Lal (JC-724512X), 01 Dec 2003
 Sub SKT MT Subash Chandra Sharma (JC-724515L), 01 Dec 2003

Sub SKT MT SD Jalaluddin Ahmed (JC-724516N), 01 Dec 2003

Sub SKT GS & C Mahender Singh Thakur (JC-724389K), 01 Dec 2003

Sub SKT Engr Khageswar Das (JC-723945H), 01 Jan 2004

Sub SKT MT Subh Ram (JC-724041P), 01 Jan 2004

Sub SKT Sig Ramayan Prasad Verma (JC-724390Y), 01 Jan 2004

Sub SKT GS & C Karan Singh (JC-724447H), 01 Jan 2004

Sub SKT GS & C Ishwar Singh (JC-724373Y), 01 Jan 2004

Sub SKT MT KR Madhusudhan (JC-724409M), 01 Feb 2004

Sub SKT Sig Jai Shi Kuthyal (JC-724408K), 01 Feb 2004

Sub SKT GS & C Suhredesan Nallarichall (JC-724374F), 01 Feb 2004

Sub SKT Sig Kuldip Singh (JC-724476X), 01 Feb 2004

Sub SKT Sig Millan Kumar Basu (JC-724306A), 01 Feb 2004

Sub SKT MT Chan Ram Bhumbla (JC-724448L), 01 Feb 2004

Sub SKT Amn Laxman Hulkund (JC-724457L), 01 Feb 2004

Sub SKT Amn Rajesh Kumar Yadav (JC-724449N), 01 Feb 2004

Sub SKT Sig Ram Avtar (JC-724427P), 01 Feb 2004

Sub SKT GS & C Narender Kumar Yadav (JC-724416H), 01 Feb 2004

Sub SKT MT Dina Nath (JC-724413P), 01 Feb 2004

Sub SKT MT Hemanta Kumar Sahoo (JC-724451L), 01 Feb 2004

Sub SKT Amn S Laxmi Narayana (JC-724415A), 01 Feb 2004

Sub SKT Engr Champa Lal (JC-724450H), 01 Feb 2004

Sub SKT GS & C Prem Chand Tiwari (JC-724477A), 01 Mar 2004

Sub SKT Wep Prafulla CH Chetia (JC-724517W), 01 Mar 2004

Sub SKT MT Ajay Kumar Roi (JC-724478H), 01 Mar 2004

Sub SKT GS & C Dhananjay Mahto (JC-724452W), 01 Mar 2004

Sub SKT Amn Ram Chandra Gupta (JC-724453W), 01 Mar 2004

Sub SKT Sig Radhey Shyam Sharma (JC-724454Y), 01 Mar 2004

Sub SKT Sig Vishnu Patil (JC-724518Y), 01 Mar 2004

Sub SKT Sig Radha Krishnan N (JC-724428X), 01 Mar 2004

Sub SKT Sig James Kutty Xavier (JC-724519F), 01 Mar 2004

Sub SKT Amn Ram Singh (JC-724479L), 01 Mar 2004

Sub SKT Amn Gajendra Singh (JC-724455F), 01 Mar 2004

Sub SKT Amn Jai Prakash Singh Tabotia (JC-724456K), 01 Apr 2004

Sub SKT Amn Ramesh Prasad (JC-724457M), 01 Apr 2004

Sub SKT Amn Jintendra Singh (JC-724520W), 01 Apr 2004

Sub SKT Wep PK Panda (JC-724511P), 01 Apr 2004

Sub SKT Amn Gilish Chandra Sharma (JC-724514H), 01 Apr 2004

Sub SKT Sig Sukhdev Singh (JC-724700Y), 01 Apr 2004

Sub SKT MT Kamla Kant Tripathi (JC-724535Y), 01 May 2004

Sub SKT Amn Nahar Singh (JC-724593H), 01 May 2004

Sub SKT Amn Pushkar Singh (JC-724536F), 01 May 2004

Sub SKT Amn Durga Prasad (JC-724546L), 01 May 2004

Sub SKT MT Shyokaram Singh (JC-724521Y), 01 May 2004

Sub SKT MT Balbir Singh (JC-724522F), 01 May 2004

Sub SKT Amn Baldev Singh (JC-723798L), 01 June 2004

Sub SKT MT Puran Singh Chauhan (JC-724523K), 01 June 2004

Sub SKT MT Gokul Chand (JC-724537K), 01 June 2004

Sub SKT Dinesh Singh (JC-724538M), 01 June 2004

Sub SKT MT Kailash Nath Singh (JC-724818A), 01 June 2004

Sub SKT MT Dev Raj (JC-724616Y), 01 June 2004

Sub SKT MT Jai Singh Chouhan (JC-724571K), 01 June 2004

Sub SKT MT John Jacob (JC-724617F), 01 June 2004

Sub SKT MT Thomas Varughese (JC-724618K), 01 June 2004

Sub SKT MT Maha Singh (JC-724547N), 01 June 2004

Sub SKT MT Jagjit Singh (JC-723929L), 01 July 2004

Sub SKT MT Malkiat Singh (JC-724010P), 01 July 2004

Sub SKT Sig Dharam Pal Bhanwar (JC-724122P), 01 July 2004

- Sub SKT Amn Avtar Singh (JC-724619M), 01 July 2004
- Sub SKT GS & C Sita Ram chauhan (JC-724620F), 01 July 2004
- Sub SKT GS & C Sada Siba Sarangi (JC-724570F), 01 Aug 2004
- Sub SKT GS & C Bhellow Ram Buro (JC-725219L), 01 Aug 2004
- Sub SKT GS & C Joytish Chandra Barman (JC-724662N), 01 Aug 2004
- Sub SKT GS & C Jayanti Prasad (JC-724621K), 01 Aug 2004
- Sub SKT Amn Suraj Bhan Singh (JC-724628N), 01 Aug 2004
- Sub SKT GS & CKN Veetil (JC-724622M), 01 Aug 2004
- Sub SKT Amn Sunirmal Basu (JC-724623P), 01 Aug 2004
- Sub SKT GS & C Jadhav Ramchandra Davanu (JC-724624X), 01 Aug 2004
- Sub SKT GS & C Lal Singh Chahar (JC-724625A), 01 Sep 2004
- Sub SKT GS & C Santosh Kumar Pandey (JC-724626H), 01 Sep 2004
- Sub SKT Amn Ranjeet Singh (JC-724822H), 01 Sep 2004
- Sub SKT Udhabananda Pal (JC-724678Y), 01 Sep 2004
- Sub SKT Amn Syed Gulam Sarwar (JC-724747K), 01 Sep 2004
- Sub SKT MT Surendra Kishore (JC-724615W), 01 Sep 2004
- Sub SKT Sig Dhana Sekara (JC-724691H), 01 Sep 2004
- Sub SKT Amn Devesh Chandra (JC-724780F), 01 Sep 2004
- Sub SKT Amn Bijoy Kumar Mahapatra (JC-724663W), 01 Oct 2004
- Sub SKT Amn Jang Bahadur (JC-724664Y), 01 Oct 2004
- Sub SKT Amn Shiv Balak Ram Verma (JC-724630L), 01 Oct 2004
- Sub SKT Amn Prem Ballabh (JC-724631N), 01 Oct 2004
- Sub SKT Amn Thagen Baglary (JC-724632W), 01 Oct 2004
- Sub SKT GS & C RKS Yadav (JC-724633Y), 01 Nov 2004
- Sub SKT GS & C Rakesh Kumar (JC-724654P), 01 Nov 2004
- Sub SKT GS & C Patil Shahaji Bhanu Das (JC-724634P), 01 Nov 2004
- Sub SKT GS & C Ramesh Kumar (JC-724636M), 01 Nov 2004
- Sub SKT GS & C Ajith Kumar R (JC-724637P), 01 Nov 2004
- Sub SKT GS & C Harpal Singh (JC-724638X), 01 Nov 2004
- Sub SKT GS & C Gopi A (JC-724639A), 01 Nov 2004
- Sub SKT MT Shesh Nath Pandey (JC-724824F), 01 Dec 2004
- Sub SKT GS & C Jagram Singh (JC-724693N), 01 Dec 2004
- Sub SKT GS & C Hoshiar Singh Jat (JC-724640P), 01 Dec 2004
- Sub SKT GS & C Satyavir Singh (JC-724641X), 01 Dec 2004
- Sub SKT GS & C Kakade Dipak Keshav (JC-724642A), 01 Dec 2004
- Sub SKT GS & C Shati Charan Yadav (JC-724643H), 01 Dec 2004
- Sub SKT MT Karamjit Singh (JC-724644L), 01 Dec 2004
- Sub SKT MT Shiv Nath Singh (JC-724725L), 01 Dec 2004
- Sub SKT GS & C Pramod Kumar (JC-724705X), 01 Dec 2004
- Sub SKT GS & C Digvijay Pal (JC-724706A), 01 Dec 2004
- Sub SKT MT Surender Singh Chauhan (JC-723911P), 01 Jan 2005
- Sub SKT Sig W Nildhon Singha (JC-724094N), 01 Jan 2005
- Sub SKT MT Suresh Babu S (JC-724534W), 01 Feb 2005
- Sub SKT MT Ramawatar Sharma (JC-724679F), 01 Feb 2005
- Sub SKT MT Yaseen Khan (JC-724707H), 01 Feb 2005
- Sub SKT MT Gurnam Singh (JC-724708L), 01 Feb 2005
- Sub SKT MT Laxmi Narayan Sharma (JC-724727W), 01 Feb 2005
- Sub SKT MT Rajendra Prasad (JC-724782M), 01 Mar 2005
- Sub SKT MT Rameshwar Dayal Shakya (JC-724680W), 01 Mar 2005
- Sub SKT MT Tej Bahadur Rana (JC-724719X), 01 Mar 2005
- Sub SKT MT Rama Shankar Ram (JC-724701F), 01 Mar 2005
- Sub SKT MT Jagbir Sharma (JC-724681Y), 01 Mar 2005
- Sub SKT MT Pratap Singh (JC-724682F), 01 Apr 2005
- Sub SKT MT Dash Rath Singh (JC-724702K), 01 Apr 2005
- Sub SKT MT Vijaya Kumar Ratna (JC-724683K), 01 Apr 2005

Sub SKT MT Kanti Lal Das (JC-724690A), 01 Apr 2005
 Sub SKT GS & C Raghu Raj Singh (JC-724783P), 01 Apr 2005
 Sub SKT GS & C Bhagirath Ram (JC-724699P), 01 Apr 2005
 Sub SKT GS & C Benzigar J (JC-724676N), 01 Apr 2005
 Sub SKT GS & C Laxhmi Chand (JC-724692L), 01 Apr 2005
 Sub SKT GS & C A Chandra Sekharan (JC-724717M), 01 Apr 2005
 Sub SKT GS & C Ram Niwas (JC-724720M), 01 May 2005
 Sub SKT GS & C Chain Singh (JC-724694W), 01 May 2005
 Sub SKT Wep Ravindra Nath Jha (JC-724724H), 01 May 2005
 Sub SKT GS & C Kali Shankar (JC-724698M), 01 May 2005
 Sub SKT MT Raghubir Singh (JC-724745Y), 01 May 2005
 Sub SKT GS & C Jagdish (JC-724746F), 01 May 2005

To be Substantive Subedar: Driver

Sub Dvr MT Abdul Rasheed Ahmed (JC-724655X), 01 July 2003
 Sub Dvr MT Satnam Singh Ramdhava (JC-724961M), 01 Oct 2003
 Sub Dvr Spl NP Visanthan (JC-724856W), 01 Oct 2003
 Sub Dvr Spl Subhash Chandra (JC-724879X), 01 Jan 2004
 Sub Dvr Spl Subb Narayan Prasad (JC-724947A), 01 Jan 2004
 Sub Dvr Spl Bakshwar Singh (JC-724933A), 01 Apr 2004
 Sub Dvr Spl Siya Ram Singh (JC-724975M), 01 May 2004
 Sub Dvr Spl Ramesh Chandra (JC-725006Y), 01 May 2004
 Sub Dvr MT Balbir Singh (JC-725062X), 01 May 2004
 Sub Omhe Ravindra Nath Pandey (JC-725101L), 01 May 2004
 Sub Dvr Spl Govinda Chandra Sarangi (JC-725180L), 01 May 2004
 Sub Dvr MT Chhote Lal Sharma (JC-725151X), 01 May 2004
 Sub Dvr Spl Guljari Lal (JC-725215), 01 May 2004
 Sub Dvr MT Kiran Kumar Mall (JC-725223P), 01 May 2004
 Sub Dvr Spl Shiv Narayan (JC-725264Y), 01 May 2004
 Sub Dvr MT Bharat Bhusan (JC-725359Y), 01 June 2004

Sub Dvr MT Banke Tiwari (JC-725469N), 30 June 2004
 Sub Dvr Spl Rajendra Prasad Singh (JC-725470H), 01 Aug 2004
 Sub Dvr MT Ramji Choobey (JC-725471L), 01 Aug 2004
 Sub Dvr MT Nripendra Chandra Nath (JC-725665N), 01 Aug 2004
 Sub Dvr MT Om Pal Singh (JC-725691P), 01 Aug 2004
 Sub Dvr MT Inder Pal Singh (JC-725692X), 01 Sep 2004
 Sub Dvr MT Peri Cherla Seetha Ram Raju (JC-725730H), 01 Sep 2004
 Sub Dvr Spl Amar Nath Rai (JC-725731L), 01 Sep 2004
 Sub Dvr Spl Niteshwar Pasad Rai (JC-725732N), 01 Oct 2004
 Sub Dvr Spl Bhawar Lal (JC-725759L), 01 Dec 2004
 Sub Dvr MT Prem Nath Singh (JC-725733W), 01 Jan 2005
 Sub Dvr Spl Singh Indra Singh (JC-725760A), 01 Feb 2005
 Sub Dvr MT Brinda Lal Singh (JC-723735F), 01 Feb 2005
 Sub Dvr MT D Subramaniyam (JC-725761H), 01 Mar 2005
 Sub Dvr MT Rajinder Kumar Shukla (JC-725762L), 01 Mar 2005
 Sub Dvr MT Shyam Narvan Ram (JC-725776L), 01 Mar 2005
 Sub Dvr Spl Sankar Sarkar (JC-725877Y), 01 Mar 2005
 Sub Dvr Spl Chandra Sekhar Prasad (JC-725966X), 01 Mar 2005
 Sub Dvr MT Pradip Saikia (JC-725969L), 01 May 2005
 Sub Dvr MT Jaspal Singh Rana (JC-725970A), 01 May 2005
 Sub Dvr Omhe/Spl Bharat Lal Sharma (JC-725971H), 01 May 2005

To be Substantive Subedar: SH Tech

Sub SH Tech Mohan Singh (JC-725360H), 01 July 2003
 Sub SH Tech Ranbir Singh (JC-725398K), 01 Aug 2003
 Sub SH Tech Bharat Singh (JC-725366P), 01 Nov 2003
 Sub SH Tech Ramesh Kumar (JC-725361W), 01 Dec 2003
 Sub SH Tech Tapas Kumar Biswas (JC-725363F), 01 May 2004
 Sub SH Tech Satish Kumar (JC-725364K), 01 May 2004

Sub SH Tech Sher Singh (JC-725365M), 01 May 2004
 Sub SH Tech Devarajan VV (JC-725399A), 01 May 2004
 Sub SH Tech Uday Mondal (JC-725570N), 01 May 2004
 Sub SH Tech Har Sahat Singh (JC-725472N), 01 May 2004
 Sub SH Tech Revvi Ananda rao (JC-725571W),
 01 June 2004
 Sub SH Tech Harish Chandra Singh (JC-725473W),
 01 June 2004
 Sub SH Tech Maha Singh (JC-725512K), 01 July 2004
 Sub SH Tech Ramakwal Mishra (JC-725513M),
 01 Aug 2004
 Sub SH Tech Raj Bahadur (JC-725474Y), 01 Sep 2004
 Sub SH Tech Ram Asrai (JC-725697W), 01 Sep 2004
 Sub SH Tech Rang Rao Janu Patil (JC-725663H), 01 Sep
 2004
 Sub SH Tech Bijay Kumar Mishra (JC-725664L), 01 Nov
 2004
 Sub SH Tech Narayan Chandra Biswas (JC-725698Y),
 01 Nov 2004
 Sub SH Tech Arun Kumar Pandey (JC-725736K), 01 Nov
 2004
 Sub SH Tech Sudhakar Nair (JC-725804M), 01 Nov 2004
 Sub SH Tech Shiv Narayan (JC-725935X), 01 Nov 2004
 Sub SH Tech Shyamal Chandra Sarkar (JC-725905A),
 01 Dec 2004
 Sub SH Tech Ratna Kanta Hazarika (JC-725026Y), 01 Feb
 2004

To be Substantive Subedar : SHGD

Sub SGHD Satish Chand (JC-724685P), 01 Jul 2003
 Sub SGHD Ram Kishore Tiwari (JC-724861F), 01 Aug
 2003
 Sub SGHD Rajeshwar Singh (JC-724901X), 01 Aug 2003
 Sub SGHD Bijendra Prasad Singh (JC-724902A), 01 Sept
 2003
 Sub SGHD Mahendra Prasad (JC-724962P), 01 Nov 2003
 Sub SGHD Gopal (JC-724963X), 01 Nov 2003
 Sub SGHD Mohd Jahangir (JC-724978A), 01 Feb 2004
 Sub SGHD Ajoy Kumar Mukherjee (JC-724977X), 01 Feb
 2004
 Sub SGHD Naba Kishore Haru Chandan (JC-725007F),
 01 Mar 2004
 Sub SGHD Saran Tamang (JC-725033H), 01 Apr 2004

Sub SGHD Mahabir Singh (JC-725099Y), 01 Apr 2004
 Sub SGHD K Yegaiah (JC-725071Y), 01 Apr 2004
 Sub SGHD Ramesh Chandra Padhy (JC-725065L), 01 Apr
 2004
 Sub SGHD Kameshwar Singh (JC-725115L), 01 Apr 2004
 Sub SGHD Govind Prasad Mishra (JC-725185K), 01 May
 2004
 Sub SGHD Amod Kumar Mazumdar (JC-725186K),
 01 May 2004
 Sub SGHD Vijay Kumar (JC-725195N), 01 May 2004
 Sub SGHD Mahabir Prasad (JC-725226N), 01 May 2004
 Sub SGHD Jagta Nand Sharma (JC-725214N), 01 May
 2004
 Sub SGHD Gokaran Nath Bharti (JC-725266K), 01 May
 2004
 Sub SGHD Ashwani Kumar Rai (JC-725267M), 01 May
 2004
 Sub SGHD Syed Sirajul Islam (JC-725251P), 01 May 2004
 Sub SGHD Banyeswar Biswas (JC-725252K), 01 May 2004
 Sub SGHD Bharat Kumar Biswas (JC-725402P), 01 May
 2004
 Sub SGHD Parikshita Sahoo (JC-725206X), 01 May 2004
 Sub SGHD Chandra Mohan Singha (JC-725287A), 01 Jun
 2004
 Sub SGHD G Pachappan (JC-725367X), 01 Jun 2004
 Sub SGHD Radha Krishnan K (JC-725410N), 01 Jun 2004
 Sub SGHD Sluvaji Sidha Hummune (JC-725411W), 01 Jun
 2004
 Sub SGHD Pradip Kumar Chettri (JC-725400K), 01 Jun
 2004
 Sub SGHD Lala Ram (JC-725412Y), 01 Jun 2004
 Sub SGHD Pritam Singh (JC-725368A), 01 Jun 2004
 Sub SGHD Bir Singh Yadav (JC-725370X), 01 Jul 2004
 Sub SGHD Piar Chand (JC-725371A), 01 Jul 2004
 Sub SGHD Suraj Bhan (JC-725401M), 01 Aug 2004
 Sub SGHD A Bala Krishnan (JC-725372H), 01 Aug 2004
 Sub SGHD Ganesh Chandra Sarkar (JC-725413F), 01 Aug
 2004
 Sub SGHD Ramesh Chand (JC-725373L), 01 Aug 2004
 Sub SGHD Ram Kripal Tiwari (JC-725514P), 01 Aug 2004
 Sub SGHD Pratap Chandra Jana (JC-725475F), 01 Aug
 2004

Sub SGHD Ganga Ram Verma (JC-725476K), 01 Aug 2004
 Sub SGHD Bikash Mondal (JC-725484H), 01 Aug 2004
 Sub SGHD Arun Kumar Sahi (JC-725485L), 01 Aug 2004
 Sub SGHD Om Prakash Mishra (JC-725515X), 01 Aug 2004
 Sub SGHD Sureshan MV (JC-725516A), 01 Sep 2004
 Sub SGHD Tarsem Masih (JC-725477M), 01 Sep 2004
 Sub SGHD Onkar Singh (JC-725517H), 01 Oct 2004
 Sub SGHD Shri Niwas Sharma (JC-725478P), 01 Oct 2004
 Sub SGHD Vishnu Datt (JC-725519N), 01 Oct 2004
 Sub SGHD Parsu Ram Pandey (JC-725572Y), 01 Oct 2004
 Sub SGHD Sohan Lal (JC-725486N), 01 Oct 2004
 Sub SGHD Sukhendra Singh (JC-725520H), 01 Nov 2004
 Sub SGHD Mahipat Singh (JC-725579H), 01 Nov 2004
 Sub SGHD Om Prakash (JC-725521L), 01 Nov 2004
 Sub SGHD Nagendra Singh (JC-725482X), 01 Nov 2004
 Sub SGHD Pratap Singh (JC-725668F), 01 Nov 2004
 Sub SGHD Om Prakash (JC-725617M), 01 Nov 2004
 Sub SGHD Lukman Ali (JC-725618W), 01 Dec 2004
 Sub SGHD Ram Deo Kaper (JC-725625M), 01 Dec 2004
 Sub SGHD Jagan Nath Singh (JC-725481P), 01 Jan 2005
 Sub SGHD Sada Nanda Sahu (JC-725573F), 01 Feb 2005
 Sub SGHD Deep Chand Sharma (JC-725669K), 01 Feb 2005
 Sub SGHD Krishn Singh (JC-725574L), 01 Feb 2005
 Sub SGHD Kamlesh (JC-725619Y), 01 Feb 2005
 Sub SGHD Ram Kishan (JC-725693A), 01 Feb 2005
 Sub SGHD Roshan Lal (JC-725620N), 01 Feb 2005
 Sub SGHD Sardar Singh (JC-725580X), 01 Feb 2005
 Sub SGHD Baljit Singh (JC-725576P), 01 Mar 2005
 Sub SGHD Harsh Singh (JC-725577X), 01 Mar 2005
 Sub SGHD Lalit Mohan Singh Dhami (JC-725705K), 01 Mar 2005
 Sub SGHD Narayan Swroop (JC-725578A), 01 Mar 2005
 Sub SGHD Hira Lal Patel (JC-725621W), 01 Mar 2005
 Sub SGHD Ram Dass Pandey (JC-725671F), 01 Apr 2005

Sub SGHD Badal Bala (JC-725672K), 01 Apr 2005
 Sub SGHD Ravinder Nath Rai (JC-725673M), 01 Apr 2005
 Sub SGHD Rohtash Kumar Sharma (JC-725622Y), 01 May 2005
 Sub SGHD Hakee Mulla (JC-725623F), 01 May 2005
 Sub SGHD Subash Singh (JC-725694H), 01 May 2005
 Sub SGHD Nirmal Kumar Majee (JC-725695Y), 01 May 2005
 Sub SGHD Sadanand Paul (JC-725674P), 01 May 2005
 Sub SGHD Ajit Kumar Singh (JC-725624K), 01 May 2005
 Sub SGHD Babu Lal Teli (JC-725675X), 01 May 2005
 Sub SGHD Narayan Chandra Mandal (JC-725706M), 01 May 2005
 Sub SGHD Nashim Ahmed Shah (JC-725696N), 01 May 2005
 Sub SGHD Eshup Ali (JC-725707P), 01 May 2005
 Sub SGHD Jai Ram Baitha (JC-725737M), 01 May 2005
 To be Substantive Subedar Carp (Unit)
 Sub Carp (Unit) Hoshiar Singh (JC-724465L), 01 July 2003
 Sub Carp (Unit) Har Lal Singh (JC-724550N), 01 Sept 2003
 Sub Carp (Unit) Bare Lal Singh (JC-724420L), 01 Dec 2003
 Sub Carp (Unit) Satvir Singh (JC-724482L), 01 Oct 2004
 Sub Carp (Unit) Kishan Chand (JC-725225A), 01 Mar 2005

To be Substantive Subedar ER (Unit)

Sub ER (Unit) Kali Din (JC-725032A), 01 July 2004

To be Substantive Subedar PTR (Unit)

Sub PTR (Unit) Sunder Singh (JC-724840L), 01 Feb 2004

Sub PTR (Unit) Zile Singh (JC-725414K), 01 May 2005

To be Substantive Subedar OLP

Sub OLP Hoshiar Singh (JC-725667Y), 01 Nov 2003

To be Substantive Subedar M/Smith

Sub M/Smith Vasavan Nair EP (JC-725375W), 01 July 2003

To be Substantive Subedar TEX REP

Sub TEX REP Abhmanya Verma (JC-725196W), 01 Feb 2003

Sub TEX REP Surendra Ram (JC-724788N), 01 Feb 2004

N. K. KASHMIRA
 Under Secy.

No. 506, dated 18th Sept 2006.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

(IC-37636Y) Lt Col BJ Singh, Inf, 30 Apr 2006
 (IC-37592M) Lt Col Haobam Gojendro Singh, Inf, 30 Apr 2006
 (IC-37590F) Lt Col VK Singh, AC, 30 Apr 2006
 (IC-34589F) Lt Col Anil Kumar Shrestha, Inf, 16 Dec 2004
 (IC-37374N) Lt Col Sukhjot Singh, Inf, 01 May 2005
 (IC-34667N) Lt Col RK Rai, Engrs, 16 Dec 2004
 (IC-37599W) Lt Col KS Sekhon, AOC, 30 Apr 2006
 (IC-37547A) Lt Col DK Gurung, Inf, 30 Apr 2006
 (IC-37626P) Lt Col HD Mishra, Arty, 30 Apr 2006
 (IC-37635W) Lt Col Unni Chandra Shekhar, Inf, 30 Apr 2006
 (IC-37621W) Lt Col NS Khatri, Int, 30 Apr 2006
 (IC-35516F) Lt Col Sanjay Kishore, Mech Inf, 16 Dec 2004
 (IC-36685P) Lt Col KK Gupta, AC, 16 Dec 2004
 (IC-30957N) Lt Col S Shukla, AEC, 16 Dec 2004
 (IC-31914L) Lt Col AK Dhadwal, AAD, 16 Dec 2004
 (IC-34978F) Lt Col SS Sirohi, ASC, 16 Dec 2004
 (IC-38644K) Lt Col RK Vasal, Inf, 07 Jun 2006
 (IC-38648A) Lt Col Lal Kesavan, Mech Inf, 07 Jun 2006
 (IC-38734L) Lt Col MS Sehrawat, ASC, 07 Jun 2006
 (IC-38769F) Lt Col Kulwaran Singh, Inf, 07 Jun 2006
 (IC-38781H) Lt Col HL Kalra, Inf, 07 Jun 2006
 (IC-38838M) Lt Col SP Singh, Arty, 07 Jun 2006
 (IC-38863L) Lt Col NK Jha, Int, 07 Jun 2006
 (IC-38880L) Lt Col MS Markale, AC, 07 Jun 2006
 (IC-38889A) Lt Col Akshay Tangri, Inf, 07 Jun 2006
 (IC-38921K) Lt Col A Ekambaram, EME, 07 Jun 2006
 (IC-38942A) Lt Col JK Thapliyal, Inf, 07 Jun 2006
 (IC-38955X) Lt Col Tej R Rawat, Arty, 07 Jun 2006
 (IC-38959N) Lt Col P George, Arty, 07 Jun 2006

(IC-38962N) Lt Col Anoop K Khare, AC, 07 Jun 2006
 (IC-38973A) Lt Col SP Sharma, Arty, 07 Jun 2006
 (IC-38779L) Lt Col GC Singha, Arty, 07 Jun 2006
 (IC-38975L) Lt Col P Tiwari, Arty, 07 Jun 2006
 (IC-35463N) Lt Col JS Bhullar, Signals, 16 Dec 2004
 (IC-37558M) Lt Col CB Lal, AOC, 30 Apr 2006
 (IC-37563X) Lt Col Bartake RP, Inf, 30 Apr 2006
 (IC-37583L) Lt Col GB Thapliyal, Inf, 30 Apr 2006
 (IC-37589M) Lt Col Ashish K Dutta, AAD, 30 Apr 2006
 (IC-37602J) Lt Col Vijay Vasudev, Arty, 30 Apr 2006
 (IC-37642M) Lt Col PC Thapliyal, Arty, 30 Apr 2006
 (IC-37651N) Lt Col BB Sharma, Arty, 30 Apr 2006
 (IC-38119N) Lt Col MS Yadav, Arty, 09 Jun 2005
 (IC-38186Y) Lt Col NK Gupta, EME, 16 Dec 2004
 (IC-38191K) Lt Col RK Sharma, Engrs, 16 Dec 2004
 (IC-38222Y) Lt Col RK Rastogi, AEC, 09 Jun 2005

Lt Col to be Substantive Col (By Selection)

Pers No, Name, Arm and Subs Date

(IC-39076) Praveen Dixit, AC, 01 Feb 2005

AJAY GOEL
 Dy Director
 MS-8A

GS BRANCH

No. 507, dated 18 September 2006.—The President is pleased to make the following Appointment/Promotion (whichever is applicable)

To be Nb Sub

Army No., No TJ No., Rank, Name, Unit and wef

10135085, TJ-4697 Hav Hardarshan, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 01 Aug 2000

10361294, TJ-4699 Hav/Cik Kaman Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 29 Dec 2000

10404866, TJ-4700 Hav Brij Nandan Lal, 114 Inf Bn (TA) Jat, 05 Aug 2000

10405065, TJ-4701 Hav Rajesh Singh, 114 Inf Bn (TA) Jat, 01 Aug 2000

10212369, TJ-4712 Hav Suresh Bharati, 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Dec 2000

10244592, TJ-4713 Hav W Biren Singh, 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Nov 2000

10244746, TJ-4714 Hav Promode Chandra Brahma, 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Nov 2000

10245165, TJ-4715 Hav N Norton Singh, 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Nov 2000

10181662, TJ-4717 Hav/Clk Bhanu Pratap Singh, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 06 Oct 2000

12308045, TJ-4718 Hav SA Wason, 1032 Rly Engr Regt (TA), 03 Nov 2000

12263441, TJ-4719 Hav MJ Rao, 1032 Rly Engr Regt (TA), 01 Jan 2001

10361587, TJ-4720 Hav Punnu Ram, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 May 2000

10479430, TJ-4721 Hav Pawan Kumar, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 01 Oct 2000

10479535, TJ-4722 Hav Jagjit Singh, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 01 Oct 2000

12263536, TJ-4723 Hav/Tfc Op PC Chakrabarty, 1032 Rly Engr Regt (TA), 30 Jun 2000

10361762, TJ-4724 Hav Ashok Kumar, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 May 2000

10361615, TJ-4725 Hav Angrez Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 May 2000

10361731, TJ-4726 Hav Darshan Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 May 2000

10361764, TJ-4727 Hav Ram Lal, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 May 2000

10302135, TJ-4728 Hav Sima Ram, 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Nov 2000

10302382, TJ-4729 Hav Bhagirath Singh, 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Nov 2001

10479654, TJ-4730 Hav Mohan Singh, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 01 Oct 2000

12254480, TJ-4731 Hav/Tfc Op RJ Lobo, 1032 Rly Engr Regt (TA), 01 Apr 2001

12681538, TJ-4733 Hav/NA Mata Deen, GH (TA) Rohtak, 08 May 2001

10358640, TJ-4735 Hav D Mani, 106 Inf Bn (TA) Para, 01 Nov 2000

10359398, TJ-4736 Hav Vinod Kumar, 106 Inf Bn (TA) Para, 01 Nov 2000

10359384, TJ-4737 Hav Fauran Singh, 106 Inf Bn (TA) Para, 01 Jan 2001

10259616, TJ-4738 Hav Hare Krushna Sankhua, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Oct 2000

10260031, TJ-4739 Hav Laxman Behera, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Oct 2000

10260140, TJ-4740 Hav Sushil Kumar Singh, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Oct 2000

10259971, TJ-4741 Hav Haris Chandra Pradhan, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Oct 2000

10119286, TJ-4742 Hav Dhange Dnyandeo Chandrabhan, 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jan 2000

10227477, TJ-4743 Hav Devidas Kothare, 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Jan 2001

10227464, TJ-4744 Hav Chandrashekhar, 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Jan 2001

10436554, TJ-4745 Hav Namepal Singh, 116 Inf Bn (TA) Para, 08 Aug 2001

10436361, TJ-4746 Hav Kannayaram, 116 Inf Bn (TA) Para, 08 Aug 2001

10212442, TJ-4747 Hav Charchita De, 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Jul 2001

10146641, TJ-4748 Hav Desai Appasaheb Santaram, 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jun 2001

10146736, TJ-4749 Hav Bansode Ravsaheb Mahadeo, 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jun 2001

10149795, TJ-4750 Hav Patil Raosaheb Appasaheb, 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jun 2001

10466346, TJ-4751 Hav Surinder Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Apr 2001

10466193, TJ-4752 Hav Rajbir Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 12 Apr 2001

10273908, TJ-4753 Hav Sukumar Sarkar, 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 01 Mar 2001

10273919, TJ-4754 Hav Jagadish Chandra Panda, 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 01 Mar 2001

10273940, TJ-4755 Hav Kala Nath Mishra, 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 01 Mar 2001

10134855, TJ-4768 Hav Anant Ram Sharma, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 09 Dec 2000

10134881, TJ-4769 Hav Balwant Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 01 Feb 2001

10361722, TJ-4770 Hav Parshotam Lal, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 May 2001

- 10290768, TJ-4771 Hav Sudhakaran KG, 122 Inf Bn (TA) Madras, 01 Jun 2001
- 10290724, TJ-4772 Hav PK Jayarajan, 122 Inf Bn (TA) Madras, 01 Jun 2001
- 10290685, TJ-4773 Hav Udayalal D, 122 Inf Bn (TA) Madras, 01 Jun 2001
- 10290902, TJ-4774 Hav Rajan PV, 122 Inf Bn (TA) Madras, 01 Jun 2001
- 10479615, TJ-4775 Hav Same Ram, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 05 Dec 2000
- 10479765, TJ-4776 Hav Dev Singh, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 05 Dec 2000
- 10373810, TJ-4777 Hav Kishnath Ram, 107 Inf Bn (TA) II GR, 01 Jun 2001
- 10149807, TJ-4778 Hav Patil Pandit Babu, 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Sep 2001
- 10149818, TJ-4779 Hav Yesare Shivaji Baburao, 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Sep 2001
- 10197704, TJ-4780 Hav Chottu Ram, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Jul 2001
- 10197619, TJ-4781 Hav Joginder Pal, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Jul 2001
- 10197876, TJ-4782 Hav Balwant Singh, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Jul 2001
- 10198064, TJ-4783 Hav Balkar Singh, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Jul 2001
- 10373904, TJ-4784 Hav Nar Bahadur Rai, 107 Inf Bn (TA) II GR, 01 Jul 2001
- 10273947, TJ-4785 Hav Ram Awatar Rai, 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 02 May 2001
- 10420517, TJ-4786 Hav MV Basavarajappa, 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 May 2001
- 10420488, TJ-4787 Hav Manjunath Naik, 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 May 2001
- 10420706, TJ-4788 Hav Shivaningayya Hiremath, 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 May 2001
- 10361727, TJ-4789 Hav Surinder Kumar, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Aug 2001
- 10361822, TJ-4790 Hav Sudershan Kumar, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Sep 2001
- 12687637, TJ-4793 Hav Vijay Sankar Sharma, GH (TA) Jaipur, 01 Sep 2001
- 10452389, TJ-4794 Hav/Clk Sarvanan R, 117 Inf Bn (TA) The Guards, 27 Jul 2001
- 10466139, TJ-4795 Hav Bachan Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Sep 2001
- 10466275, TJ-4796 Hav Satish Kumar, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Sep 2001
- 10466377, TJ-4797 Hav Balwan Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Sep 2001
- 10466226, TJ-4798 Hav Raghbir Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 06 Sep 2001
- 10212425, TJ-4799 Hav Jagdish Yadav, 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Jan 2002
- 10259582, TJ-4800 Hav Bishnu Charan Patra, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 06 Nov 2001
- 10259553, TJ-4801 Hav Madan Mohan Sahoo, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 06 Nov 2001
- 10134961, TJ-4802 Hav Harkeksh Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 20 Jun 2001
- 10404864, TJ-4803 Hav Shyam Singh, 114 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jun 2001
- 10405015, TJ-4804 Hav Avdesh Kumar, 114 Inf Bn (TA) Jat, 21 Jul 2001
- 10389721, TJ-4805 Hav Bhupendra Prasad, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Sep 2001
- 10389429, TJ-4806 Hav Mahesh Prasad Shukla, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Sep 2001
- 10389444, TJ-4807 Hav Umesh Kumar Soni, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Sep 2001
- 10389955, TJ-4808 Hav Sri Dharmendra Kumar Patel, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Sep 2001
- 10260164, TJ-4809 Hav Maguni Charan Khuntia, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2001
- 10260205, TJ-4810 Hav Abhaya Kumar Swain, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2001
- 10260147, TJ-4811 Hav Hrusikesh Jena, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 01 Dec 2001
- 10436420, TJ-4812 Hav/Clk Suresh Chandra Gupta, 116 Inf Bn (TA) Para, 15 Dec 2001
- 10405007, TJ-4813 Hav/Clk Hamir Singh, 114 Inf Bn (TA) Jat, 06 Nov 2001
- 10361515, TJ-4814 Hav/Clk Rajinder Singh Club, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Dec 2001
- 10420431, TJ-4821 Hav Laxman Patil, 115 Inf Bn (TA) Mahar, 16 Aug 2001
- 10389650, TJ-4822 Hav Rajendra Kumar Patel, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Oct 2001

12867058, TJ-4824 Hav/Clk G Shivaji, 414 ASC Bn Mktg (TA), 04 Feb 2002

10135091, TJ-4825 Hav Mohan Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 15 Jan 2002

10227530, TJ-4826 Hav Waman Bijirao Uike, 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Jan 2002

10244700, TJ-4827 Hav Gunendra Deka, 119 Inf Bn (TA) Assam, 15 Jan 2002

10146654, TJ-4828 Hav Kamble Satappa Shamrao, 109 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Mar 2002

10181758, TJ-4829 Hav Budh Sen Prasad Pandey, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 01 Mar 2002

10404948, TJ-4832 Hav Satish Chand, 114 Inf Bn (TA) Jat, 09 Oct 2001

10373917, TJ-4833 Hav Lakpa Tamang, 107 Inf Bn (TA) II GR, 01 Apr 2002

10260278, TJ-4834 Hav Prakash Chandra Prusty, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 12 Mar 2002

10420522, TJ-4835 Hav BR Prakash, 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Dec 2001

10420476, TJ-4836 Hav Dundappa Basappa Navi, 115 Inf Bn (TA) Mahar, 12 Dec 2001

10181776, TJ-4837 Hav/Clk Subhash Chand, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 01 Jun 2002

10314443, TJ-4838 Hav Amanat Ali, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 08 Dec 2001

10314539, TJ-4839 Hav Vinod Kumar, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 08 Dec 2001

10314688, TJ-4840 Hav Jabar Singh, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 08 Dec 2001

10314735, TJ-4841 Hav Bijender, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 08 Dec 2001

10314551, TJ-4842 Hav Devendra Kumar Pandey, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 08 Dec 2001

1034736, TJ-4843 Hav Nand Lal, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 08 Dec 2001

10314744, TJ-4844 Hav Mohan Chandra, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 08 Dec 2001

10314795, TJ-4845 Hav Ram Khelawan, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 08 Jan 2002

10466349, TJ-4846 Hav Prakash Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 27 Feb 2002

10466366, TJ-4847 Hav Santa Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 27 Feb 2002

10466434, TJ-4848 Hav Suraj Bhan, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 27 Feb 2002

10466581, TJ-4849 Hav Suresh Kumar, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 27 Feb 2002

10361695, TJ-4850 Hav Ashok Kumar, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2002

10361666, TJ-4851 Hav Munshi Ram, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2002

10361793, TJ-4852 Hav Balvir Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2002

10361811, TJ-4853 Hav Subash Chander, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2002

10361836, TJ-4854 Hav Gurbachan Dass, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2002

10361900, TJ-4855 Hav Ramesh Kumar, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2002

10361902, TJ-4856 Hav Parshotam Lal, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jan 2002

10302449, TJ-4857 Hav Mewa Ram, 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 11 Jan 2002

10302393, TJ-4858 Hav Ram Lal, 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Feb 2002

10197367, TJ-4859 Hav Gurdev Raj, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Mar 2002

10197536, TJ-4860 Hav Tirath Ram, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Mar 2002

10197684, TJ-4861 Hav Mast Ram, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Mar 2002

10197672, TJ-4862 Hav Ashok Kumar, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Mar 2002

10197813, TJ-4863 Hav Jai Bhagwan, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 26 Mar 2002

10405171, TJ-4864 Hav Raj Singh, 114 Inf Bn (TA) Jat, 10 Apr 2002

10405021, TJ-4865 Hav Raghubir Singh Yadav, 114 Inf Bn (TA) Jat, 10 Apr 2002

10405080, TJ-4866 Hav Karan Singh, 114 Inf Bn (TA) Jat, 10 Apr 2002

10405141, TJ-4867 Hav Ahalkar Singh, 114 Inf Bn (TA) Jat, 10 Apr 2002

10405184, TJ-4868 Hav Devendra Singh, 114 Inf Bn (TA) Jat, 10 Apr 2002

10119310, TJ-4869 Hav Kulkarni Haridas Shridhar, 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jan 2002

10119365, TJ-4870 Hav Ram Dadarao Giram, 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jan 2002

10328706, TJ-4871 Hav Krishna Pradhano, 125 Inf Bn (TA) The Guards, 01 Mar 2002

10328711, TJ-4872 Hav T Srinivasulu, 125 Inf Bn (TA) The Guards, 01 Mar 2002

10328873, TJ-4873 Hav Kancharla Sudharsanam, 125 Inf Bn (TA) The Guards, 01 Mar 2002

10314746, TJ-4874 Hav Prempal Singh, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 10 Feb 2002

10389706, TJ-4875 Hav Sri Sukhram, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Feb 2002

10389716, TJ-4875 Hav Sri Aliwaran Prasad Patel, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Feb 2002

10273911, TJ-4877 Hav Kaustubha Kanti Karan, 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 01 Apr 2002

10244650, TJ-4878 Hav Binode Babu Singh, 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 May 2002

10119376, TJ-4879 Hav Rajguru Balu Purshottam, 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jul 2002

10119432, TJ-4880 Hav Ghorpade Sudhakar Devidas, 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Jul 2002

10361690, TJ-4881 Hav Kuldip Singh, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 10 Jan 2002

10361825, TJ-4882 Hav Sardari Lal, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 10 Jan 2002

10361837, TJ-4883 Hav Major Singh Bhanderral, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 10 Jan 2002

10361554, TJ-4884 Hav Onkar Singh, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 10 Jul 2002

10361503, TJ-4885 Hav Dalbir Singh, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361578, TJ-4886 Hav Puran Chand, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361452, TJ-4887 Hav Gajan Lal, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361707, TJ-4888 Hav Ashok Kumar, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361678, TJ-4889 Hav Bachan Lal, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361584, TJ-4890 Hav Mohinder Singh, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361674, TJ-4891 Hav Raj Paul, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361826, TJ-4892 Hav Udhayvir Singh, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361843, TJ-4893 Hav Parmodh Singh, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361849, TJ-4894 Hav Ajit Kumar, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361869, TJ-4895 Hav Gurbachan Dass, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361959, TJ-4896 Hav Om Parkash, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10361906, TJ-4897 Hav Mangu Ram, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10197648, TJ-4898 Hav Sada Ram, 153 Inf Bn (TA) Dogra, 15 Aug 2002

10420669, TJ-4899 Hav Mohammad Rafiq Patel, 115 Inf Bn (TA) Mahar, 12 May 2002

10260002, TJ-4900 Hav Mayadhar Pradhan, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 09 Apr 2002

10259793, TJ-4901 Hav Laxmi Sah, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 21 May 2002

10260162, TJ-4902 Hav Santosh Kumar Das, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 21 May 2002

10259707, TJ-4903 Hav Kaoshal Kumar, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 21 May 2002

10479180, TJ-4904 Hav Birghu Nath, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Dec 2001

10479394, TJ-4905 Hav Lachhman Gir, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Dec 2001

10479308, TJ-4906 Hav Lakhi Ram, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Dec 2001

10479508, TJ-4907 Hav Ishwar Dass, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Dec 2001

10134839, TJ-4908 Hav Dhanpat Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10134879, TJ-4909 Hav Azad Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10135077, TJ-4910 Hav Hukam Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10135106, TJ-4911 Hav Pritlvi Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10135117, TJ-4912 Hav Ram Awatar Sharma, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10135120, TJ-4913 Hav Rajender Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10135122, TJ-4914 Hav Kamendera Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10135126, TJ-4915 Hav Narender Kumar, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10135128, TJ-4916 Hav Ved Prakash, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 17 Jul 2002

10135146, TJ-4917 Hav Prathvi Singh, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 01 Aug 2002

10244752, TJ-4918 Hav Saturtha Patar, 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Oct 2002

10244782, TJ-4919 Hav Gunin Hazarika, 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Oct 2002

10244856, TJ-4920 Hav P Jayanta Kumar Singh, 119 Inf Bn (TA) Assam, 01 Oct 2002

10479313, TJ-4921 Hav Narinder Singh, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Dec 2001

10479312, TJ-4922 Hav Sham Singh, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Dec 2001

10477928, TJ-4923 Hav Surjit Singh, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Dec 2001

10479822, TJ-4924 Hav Lal Chand, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 22 Dec 2001

10479868, TJ-4925 Hav Jaspal Singh, 103 Inf Bn (TA) Sikh LI, 18 Mar 2002

10373732, TJ-4926 Hav Achutan Gurung, 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 05 Sep 2002

10182092, TJ-4927 Hav Ram Raj, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 01 Jun 2002

10181905, TJ-4928 Hav Ugra Sen Patel, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 01 Jun 2002

10212679, TJ-4929 Hav Ashim Kumar Paul, 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Dec 2002

10181729, TJ-4930 Hav Raghvendra Kumar Pandey, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 27 Sep 2002

10181888, TJ-4931 Hav Rameshwar Prasad Singh, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 27 Sep 2002

10181838, TJ-4932 Hav Gokul Singh, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 27 Sep 2002

10135153, TJ-4933 Hav Akhtar Khan, 105 Inf Bn (TA) Raj Rif, 01 Aug 2002

10389480, TJ-4934 Hav Ganga Ram, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 04 Nov 2002

10361810, TJ-4935 Hav Kamal Singh, 155 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Jul 2002

10302251, TJ-4936 Hav Dashrath Singh, 123 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Nov 2002

10361642, TJ-4937 Hav Ram Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Nov 2002

10361765, TJ-4938 Hav Ashok Kumar, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Nov 2002

10361829, TJ-4939 Hav Som Raj, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Nov 2002

10361864, TJ-4990 Hav Ramesh Kumar, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Nov 2002

10361904, TJ-4941 Hav Ram Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Nov 2002

10361841, TJ-4942 Hav Satinder Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Nov 2002

10361877, TJ-4943 Hav Kishan Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Nov 2002

10119468, TJ-4944 Hav Bhosale Shivaji Sadasiv, 101 Inf Bn (TA) Maratha LI, 01 Nov 2002

10466532, TJ-4945 Hav Suresh Kumar, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 27 Feb 2002

10466545, TJ-4946 Hav Tejvir, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 27 Feb 2002

10314604, TJ-4947 Hav Suresh Kumar, 124 Inf Bn (TA) Sikh, 01 Jun 2002

10466638, TJ-4948 Hav Rishi Pal, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Oct 2002

10466644, TJ-4949 Hav Ashwani Kumar, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Oct 2002

10466672, TJ-4950 Hav Daya Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 01 Oct 2002

10389566, TJ-4951 Hav Nand Lal, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2002

10389680, TJ-4952 Hav Ram Swayamwar Nai, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2002

10389690, TJ-4953 Hav Sri Rammura Tiwari, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2002

10389711, TJ-4954 Hav Sri Pratap Singh Bhadhoray, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2002

10389763, TJ-4955 Hav Sri Dinesh Prasad Garg, 108 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Jul 2002

10302563, TJ-4956 Hav Ram Phal, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 22 Oct 2002

10465953, TJ-4957 Hav Karandev Singh, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 22 Oct 2002

10466167, TJ-4958 Hav Vijay Kumar, 102 Inf Bn (TA) Punjab, 22 Oct 2002

10274018, TJ-4959 Hav Birendra Shah, 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 01 Nov 2002

10274131, TJ-4960 Hav Indrasan Pandey, 121 Inf Bn (TA) Garh Rif, 01 Nov 2002

10373968, TJ-4961 Hav Adip Rai, 107 Inf Bn (TA) 11 GR, 04 Dec 2002

10260247, TJ-4962 Hav Sapindra Rai, 120 Inf Bn (TA) Bihar, 08 Dec 2002

10181974, TJ-4963 Hav Raj Bahor Patel, 111 Inf Bn (TA) Kumaon, 27 Sep 2002

10479251, TJ-4964 Hav Jagdev Singh, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10314780, TJ-4965 Hav Lochan Singh, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10314805, TJ-4966 Hav Atma Ram Singh, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10314834, TJ-4967 Hav Nilesh Kumar Tripathi, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10314857, TJ-4968 Hav Lekh Raj, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10315090, TJ-4969 Hav Ramash Chander, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10314933, TJ-4970 Hav Rajendra Kumar, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10479831, TJ-4971 Hav Prem Singh, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10314960, TJ-4972 Hav Roop Singh, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10314946, TJ-4973 Hav Satish Kumar, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

10405234, TJ-4974 Hav Prem Kumar, 114 Inf Bn (TA) Jat, 13 Dec 2002

10182129, TJ-4975 Hav Jit Narayan Tiwari, 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jan 2003

10181760, TJ-4976 Hav Subhash, 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jan 2003

10405175, TJ-4977 Hav Girand Singh, 151 Inf Bn (TA) Jat, 01 Jan 2003

10420667, TJ-4978 Hav Satappa Gardi, 115 Inf Bn (TA) Mahar, 01 Oct 2002

10358635, TJ-5004 Hav Subramaniam K, 106 Inf Bn (TA) Para, 08 Dec 2002

10359143, TJ-5005 Hav Chkkravathi KR, 106 Inf Bn (TA) Para, 08 Dec 2002

10359103, TJ-5006 Hav Sasidharan Nair TG, 106 Inf Bn (TA) Para, 08 Dec 2002

10212443, TJ-5007 Hav Raj Narayan Prasad, 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Dec 2002

10212590, TJ-5008 Hav Ravindra Nath Singh, 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Feb 2003

10212669, TJ-5009 Hav Ashish Paul, 113 Inf Bn (TA) Rajput, 01 Mar 2003

10197739, TJ-5010 Hav Gurcharan Singh, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Jan 2003

10197899, TJ-5011 Hav Jago Singh, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Jan 2003

10197962, TJ-5012 Hav Pradeep Kumar, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Jan 2003

10197974, TJ-5013 Hav Mota Singh, 112 Inf Bn (TA) Dogra, 01 Jan 2003

10227519, TJ-5014 Hav Prabhu Singh, 118 Inf Bn (TA) Grenadiers, 01 Apr 2003

10361888, TJ-5015 Hav Rameshwar Singh, 126 Inf Bn (TA) Jak Rif, 01 Apr 2003

10314967, TJ-5016 Hav Ashok Kumar Sharma, 152 Inf Bn (TA) Sikh, 27 Nov 2002

BK MALHOTRA
Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 508, dated 19th September 2006—The President is pleased to promote the following officers from their existing grade to the next grade w.e.f. 01 Sep 2005 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4	5	6
(S/Shri/Smt.)					
01.	DK Ravi	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
02.	A Sakthivel	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
03.	Ammuni Joseph	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
04.	GR Muthukrishnan	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
05.	K Ramani	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
06.	RP Sundaram	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
07.	G Chengal Varayan	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
08.	K Krishnamurthy	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
09.	P Periakaruppan	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
10.	Surinder Kumar	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
11.	DR Karunakaran	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
12.	VM Jayasekaran	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
13.	S Stanely	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
14.	P Paraman	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
15.	A Rajarathinam	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
16.	M Jamal Maideen	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
17.	I Joseph	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
18.	R Janardhanan	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
19.	VP Srinivasan	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
20.	A Kesava Rama Rao	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
21.	B Vijayan	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
22.	C Krishnaswamy	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
23.	A Muthumani	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
24.	AA Nirmal Raj	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
25.	E Punniakoti	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
26.	B Sundaramurthy	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
27.	R Kannadasan	CVRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
28.	SK Bajpai	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
29.	GK Aggarwal	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
30.	VK Gupta	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
31.	AK Srivastava	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
32.	AN-Singh	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-

1	2	3	4	5	6
	(S/Shri/Smt.)				
33.	PC Mishra	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
34.	UK Bajpai	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
35.	KM Chaudhary	DMSRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
36.	Om Prakash	DMSRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
37.	VS Srivastva	DMSRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
38.	BR Jatav	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
39.	BK Jain	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
40.	SB Pandey	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
41.	Vishnu Prakash	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
42.	VK Arora	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
43.	RK Santoshi	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
44.	PD Bhatt	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
45.	Hukum Singh Rana	IRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
46.	Anand Singh	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
47.	AK Gupta	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
48.	KK Kailasia	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
49.	Raghubir Singh	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
50.	YC Sidula	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
51.	Vachaspati	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
52.	BS Arora	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
53.	SK Ghoshal	IRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
54.	SD Gajendra	LRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
55.	V Bhaskar Babu	LRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
56.	MG Yatish	LRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
57.	Jyothy R Singh	LRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
58.	A Shantha Nayak	LRDE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
59.	K Vasudev	LRDE	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
60.	KT Srinivasaiah	LRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
61.	R Sai Geetha Giridharan	LRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
62.	Zaheerunnissa	LRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
63.	SR Mahendra	LRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
64.	S Venugopal	LRDE	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
65.	K Daniel Prasad	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
66.	V Anjaneya Murthy	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
67.	KGK Murthy	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
68.	AV Hanumantha Rao	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
69.	V Hanumantha Rao	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-

1	2	3	4	5	6
	(S/Shri/Smt.)				
70.	MV Narsimha Rao	NSTL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
71.	G Papa Rao	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
72.	K Seshagiri Rao	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
73.	K Zacharias	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
74.	A Usha Rani	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
75.	V Kannayyachari	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
76.	BVN Murthy	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
77.	P Srinivasa Rao	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
78.	T Venkata Chari	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
79.	CH Srinivas	NSTL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
80.	PC Dixit	DEAL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
81.	AK Sharma	DEAL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
82.	SK Sharma	DEAL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
83.	Surendra Kumar	DEAL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
84.	Pitamber Dutt	DEAL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
85.	RK Sharma	DEAL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
86.	SP Verma	DEAL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
87.	Jagdev Prasad	DEAL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
88.	KD Sharma	DEAL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
89.	V Rajendran	DEBEL	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-
90.	C Srinivasa Charyulu	MTRDC	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
91.	M Nanjundeswar	DARE	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
92.	CV Madhura	DFRL	TO 'B'	TO 'C'	-Do-
93.	SP Thomas	DEBEL	TO 'A'	TO 'B'	Rs. 8,000-275-13,500/-
94.	R Sagayaraj	DEBEL	TO 'A'	TO 'B'	-Do-
95.	N Yadaiah	RCMA	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-

The President is pleased to promote the following officer from their existing grade to the next grade w.e.f. 02 Nov 2005(F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
01.	Shri ER Shanmugam	CVRDE	TO 'B'	TO 'C'	Rs. 10,000-325-15,200/-

2. The undermentioned individuals are promoted from STA 'C' to TO 'A' w.e.f. 01 Sep 2005 (F/N) :—

Sl. No.	Name	Lab/Estt	Existing Grade	Promoted to	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4	5	6
	(S/Shri/Smt.)				
01.	A Sreeram Nayak	DLRL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
02.	Ritu Gopal	DEAL	STA 'C'	TO 'A'	-Do-

1	2	3	4	5	6
	(S/Shri/Smt.)				
03.	Manoj Athwal	DEAL	STA 'C'	TO 'A'	Rs. 7,450-225-11,500/-
04.	Rajendar Kumar	DEAL	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
05.	Gulzari Lal	IRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
06.	VK Chauhan	IRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
07.	Vinod Kumar	IRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
08.	PVN Raju	NSTL	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
09.	P Satyanarayana	NSTL	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
10.	Ch. SRA Srinivasa Rao	NSTL	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
11.	K Padmavaty	NSTL	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
12.	KL Reddy	DMSRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
13.	Kuldeep Singh Siya	DMSRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
14.	Poonam Awasthi	DMSRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
15.	SK Shukla	DMSRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
16.	Abdul Wajid Khan	DEBEL	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
17.	VK Mohan Prakash	DEBEL	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
18.	Devaraja	DARE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
19.	B Geetha	MTRDC	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
20.	G Balasubramaniam	GIRE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
21.	GM Ganesan	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
22.	P Paneerselvam	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
23.	P Bhavanisankar	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
24.	S Muralidharan	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
25.	T S Somasundaram	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
26.	V Deekkappan	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
27.	A Chandrasekar	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
28.	P Santhamoorthy	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
29.	T Prakas Kumar	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
30.	B Ramesh Babu	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
31.	P Palaniappan	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
32.	M Muthukrishnan	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
33.	N Santharam	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
34.	PK Gunasekaran	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
35.	V Sethuraman	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
36.	R Rengharaju	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
37.	SM Dominic	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
38.	H Siva Kumar	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
39.	B Sugumaran	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
40.	A Muthu	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
41.	P Prabhavathi	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
42.	AD Kannagi	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-
43.	MA Vijayakumar	CVRDE	STA 'C'	TO 'A'	-Do-

BB SHARMA
Dy. Director (Pers-I)

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

No. 509, dated 19.9.2006. The President is pleased to make the following promotions:—

Shri Asok Sen, Scientist 'G', DEAL, Dehradun to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in the Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2006 in the Pay Scale of Rs. 22,400-525-24,500.

Shri G Elangovan, Scientist 'G', Director, ADE, Bangalore to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2006 (F/N) in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500 in the same appointment.

Shri Surendra Kumar, Scientist 'G', ARDE, Pune to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in the Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2006 in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500.

Shri S Varadarajan, Scientist 'G', Director, LRDE, Bangalore to be Scientist 'H' (Outstanding Scientist) in Defence Research & Development Service with effect from 01 July 2006 (F/N) in the pay scale of Rs. 22,400-525-24,500 in the same appointment.

The President is pleased to promote Shri Sharad Kumar, Scientist 'F' to the next higher grade of Scientist 'G' in the O/o CCR&D (ACE&NS) DRDO HQ with effect from 14 Aug 2006 (F/N) in the pay scale of Rs. 18,400-500-22,400.

The President is pleased to promote the following Scientists of DEBEL, Bangalore from their existing grade to the next grade w.e.f. from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4
Smt. Anuradha Ravi	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Dr. K Jeevaratnam	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Dr. JH Jagannath	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri SG Guruprasad	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Dr. (Ms) S Jyotsna Shantaram	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri PM Sagar	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Shri D Selva Kumar	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
Dr. GK Kannan	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-

The President is pleased to promote the following Scientists of MTRDC, Bangalore from their existing grade to the next grade w.e.f. from 1.7.2006 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4
Ms HS Sudhamani	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Ms Malaramaswamy	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri Santosh Kumar	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Shri P Raja Ramana Rao	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-

The President is pleased to promote the following Scientists of GTRE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 1 July 2006 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4
Shri R-Lakshmi Narayana	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
Shri PK Kalia	Sc 'F'	Sc 'G'	-do-
Shri KS Ramprasad	Sc 'F'	Sc 'G'	-do-
Dr. RR Jettappa	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Shri CR Srivatsa	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
1	2	3	4
Shri AV Balasankaran	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Shri KV Ramesh	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri GS Sivaprasada Rao	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri N Prabhakaran	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri Sasikanta Parida	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri V Kesavan	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri R Ganesh	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Ms Vimala Narayanan	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri BVA Patnaik	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri BV Ravi Dutta	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri M Tarcus	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri D Kishore Prasad	Sc 'E'	Sc 'F'	-do-
Shri SV Joshi	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Shri V Muralidharan	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri S Madhavan	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri P Srinivasa Rao	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Dr. BR Sridhar	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri PK Rajeev	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri Jyothi Prakash Das	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Smt K Vasanthi	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri VR Gnaneshwar	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri K Ashirvadam	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri SK Singh	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri BS Balaji	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri S Shankar Prasad	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri VG Sanjawadmath	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri G Sivaramakrishna	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri Devakanta Pahadsingh	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Ms. Sylvia Dass	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
Shri Amit Sharma	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
Shri GM Vinod	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
Shri R Giridhar	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-
Shri BG Nandagopal	Sc 'C'	Sc 'D'	-do-

The President is pleased to promote the following Scientists of PXE, Balasore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01.07.2006 (F/N) as mentioned against each:—

Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of Promoted Grade
Shri V Anguswamy	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
Dr. AK Sannigrahi	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
Shri A Bose	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-
Shri S Gangopadhyay	Sc 'D'	Sc 'E'	-do-

The President is pleased to promote the following Scientists of LRDE, Bangalore from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 July 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
01.	Shri M Ramanjaneyulu	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
02.	Smt. VG Jaishree	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
03.	Shri Anand Dambal	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
04.	Shri KC Rajasekaran	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
05.	Shri Gampala Viswam	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
06.	Shri K Sreenivas	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
07.	Shri R Ramachandra Reddy	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
08.	Smt. D Mecna	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
09.	Smt. V Sangamitra	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
10.	Shri Seshagiri Duvvuri	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
11.	Shri S Mani	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
12.	Shri T Dhaya	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
13.	Shri B Sreekumar	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
14.	Shri Rajesh Yadav	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
15.	Shri M Raghavan	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
16.	Ms. Aparna Rathi	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
17.	Shri Paramananda Jena	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-

The President is pleased to promote the following Scientists of NSTL, Visakhapatnam from their existing grade to the next higher grade with effect from 03 July 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
1	2	3	4	5
01.	Dr. K. Venkateswara Rao	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
02.	Shri CP Ramanarayanan	Sc 'F'	Sc 'G'	-Do-
03.	Shri A Surendra Rao	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
04.	Shri M B S V Prasad	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
05.	Shri K K K Sanyasi Raju	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-

1	2	3	4	5
06.	Shri A. Srinivas Kumar	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
07.	Shri S. Raja	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
08.	Shri P. Trinurthulu	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
09.	Shri CH Suryanarayana	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
10.	Shri P Srinivasa Rao	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
11.	Shri V V Ramana Rao	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
12.	Dr. AVN Ramalingeswara Rao	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
13.	Shri HN Das	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
14.	Smt. YR Rajeswari Devi	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
15.	Shri V Rama Mohana Rao	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
16.	Smt. P Vijaya Lalitha	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-

The President is pleased to promote the following Scientists of VRDE, Ahmednagar from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 July 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
01.	Shri R Ravichandran	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
02.	Shri D. Pandurangan	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
03.	Shri KS Lakshmanan	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
04.	Dr. N. Karuppaiah	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
05.	Shri RP Waykar	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
06.	Shri Supriya Pal	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
07.	Shri C. Manjunatha	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-

The President is pleased to promote the following Scientists of DEAL, Dehradun from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 July 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
1	2	3	4	5
01.	Shri K Siva Kumar	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
02.	Shri Virendra Singh Negi	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
03.	Shri SS Santara	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
04.	Shri Hemant Kumar Gupta	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
05.	Shri T K. Dasgupta	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
06.	Shri RC Kargeti	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
07.	Shri Aditya Kumar Verma	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
08.	Dr. Ved Prakash Dutta	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
09.	Shri Om Prakash Manocha	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
10.	Shri Krishan Lal	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-

1	2	3	4	5
11.	Shri Lai Chand Mangal	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
12.	Shri A. K. Bhagatji	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
13.	Shri A. K. Tiwari	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
14.	Shri Atul Dev	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
15.	Shri Jaipal Singh Pal	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
16.	Shri Devendra Singh Negi	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
17.	Shri Bhanu Pratap Singh	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
18.	Shri Raj Kumar	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
19.	Shri Deepak Awasthi	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
20.	Shri Satendra Kumar Yadav	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-

The President is pleased to promote the following Scientists of INMAS from their existing grade to the next higher grade with effect from 03 July 2006 as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
01.	Dr. Anupam Mondal	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
02.	Dr. Anil Kumar Mishra	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
03.	Dr. GU Gurudutta	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
04.	Dr. Manju Bala Popli	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
05.	Dr. Sripathi G	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-

The President is pleased to promote the following Scientists of SSPL, Delhi from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 July 2006 as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
01.	Dr. U. C. Ray	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
02.	Dr. S. K. Lomash	Sc 'F'	Sc 'G'	-Do-
03.	Shri Ashok Kumar	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
04.	Shri S. Ravi	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
05.	Dr. A. K. Kapoor	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
06.	Smt. Seema Vinayak	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
07.	Shri Sanjiv Kumar	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
08.	Dr. (Smt) Renu Tyagi	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
09.	Shri Alok Jain	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
10.	Shri M. N. Mudholkar	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
11.	Dr. J. K. Radhakrishnan	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
12.	Shri Devendra Verma	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
13.	Dr. J. P. Bordalai	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
14.	Smt. TVSL Satyavani	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
15.	Shri S. K. Tomar	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-

The President is pleased to promote the following Scientists of IRDE, Dehradun from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 July 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
1.	2	3.	4.	5.
01.	Shri GK Sharma	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
02.	Shri B. S. Rawat	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
03.	Shri Avval Singh	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
04.	Shri Avneesh Kumar	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
05.	Shri S. K. Singh	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
06.	Dr. M. K. Pande	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
07.	Shri P. K. Sharma	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
08.	Shri A. K. Pande	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
09.	Shri M. L. Sharma	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
10.	Shri Ashok Kumar	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
11.	Shri Sudhir Khare	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
12.	Shri Puneet Vashisth	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
13.	Shri Pradeep Kumar	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
14.	Smt. Lata Mainali	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
15.	Shri Sanjay Kumar Mishra	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
16.	Smt. Vimlesh Singh	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-
17.	Shri M. Sai Krishna	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-

The President is pleased to promote the following Scientists of CVRDE, Chennai from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 July 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
1.	2	3.	4.	5.
01.	Shri D. Murali Mohan Rao	Sc 'F'	Sc 'G'	Rs. 18,400-500-22,400/-
02.	Shri R. Perumal	Sc 'F'	Sc 'G'	-Do-
03.	Shri KC Samanta	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
04.	Shri VR Premkumar	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
05.	Shri GS Simon Sundara Raj	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
06.	Shri A. Kumarasamy	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
07.	Shri M Khader Basha	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
08.	Shri S. Suresh	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
09.	Shri S. Sivakumar	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
10.	Shri S. Ganesan	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
11.	Shri M. Ramanathan	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
12.	Shri M. Sampath	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-

1.	2.	3.	4.	5.
13.	Shri M. Satyanarayana	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
14.	Shri S. Veerasekar	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
15.	Smt. C. Sarada	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
16.	Shri T. Soundarapandian	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
17.	Shri J. Rajeshkumar	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
18.	Dr. A. Velayudham	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
19.	Shri P. Shanmugam	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 12,000-375-16,500/-
20.	Smt. V. Uma	Sc 'C'	Sc 'D'	-Do-

The President is pleased to promote the following Scientists of CFEES, Delhi from their existing grade to the next higher grade with effect from 01 July 2006 (F/N) as mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Existing Grade	Grade to which Promoted	Pay Scale of promoted Grade
01.	Shri A. K. Chawla	Sc 'E'	Sc 'F'	Rs. 16,400-450-20,000/-
02.	Dr. R. P. Singh	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
03.	Smt. Alka Diwan	Sc 'E'	Sc 'F'	-Do-
04.	Shri Vijesh Arora	Sc 'D'	Sc 'E'	Rs. 14,300-400-18,300/-
05.	Shri R. K. Tanwar	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
06.	Dr. Kiran Pal	Sc 'D'	Sc 'E'	-Do-
07.	Shri Devendra Gill	Sc 'C'	Sc 'D'	Rs. 14,300-400-18,300/-

JK KHADWAL
Joint Dir. (Pers.)

AIR BRANCH

No. 510, dated 18 September 2006.—The President is pleased to make the following substantive promotions :—

INDIAN AIR FORCE

FLYING BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

DC Kumaria (13366), F(P), 01 Jun 2006

AE BRANCH

To be Substantive GP Capt (AE Branch)

Sr. No., Rank, Name, Number BR and Date

GP Capt (ACTG) MP Mehta (15496), AE(L), 09 Jun 2005

(His name will appear between GP Capts KK Dhiman (15292) AE(L) and R Kumar (15631) AE(L) in the combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) SK Deshpande (16528), AE(L), 01 Sep 2005

(His name will appear below GP Capt JK Singh (16545) AE(M) in the combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) SK Agrawal (16743), AE(M), 04 Oct 2005

(His name will appear above GP Capt TB Mathew (17111) AE(L) in the combined Gradation List)

GP Capt (ACTG) DN Tripathi (15958), AE(L), 01 Jan 2006

GP Capt (ACTG) MF Khan (16154), AE(L), 01 Mar 2006

GP Capt (ACTG) AN Kulkarni (16155), AE(L), 01 Mar 2006

GP Capt (ACTG) D Sood (16306), AE(L), 01 Mar 2006

GP Capt (ACTG) J Joseph (16704), AE(L), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) J Nandan (16318), AE(L), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) KP Gowd (16321), AE(L), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) RP Sinha (16312), AE(L), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) D Sharma (16542), AE(M), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) JC Goyal (16547), AE(M), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) SK Mittal (16546), AE(M), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) MC Roy (16922), AE(L), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) H Saurabh (16536), AE(M), 20 Mar 2006

GP Capt (ACTG) MM Dangre (16750), AE(L), 01 Jun 2006

KV SHANKAR

Jt. Dir. of Personnel (Officers) 2(B)

(AIR BRANCH)

No. 511, dated 19 September, 2006.—The President is pleased to transfer the undermentioned officer from F(P) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Sqn Ldr S Bhattacharya (24104) Adm and Sqn Ldr GP Srivastava (24257) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of obtaining Permanent Low Non-Flying Medical Category i.e., 28 Mar 06 vide Air HQ/21901/23979/PO-3(E) dated 06 Jul 2006.

Flt Lt D Thakur (23979) F(P) to Adm wef 28 Mar 2006.

P SINGH
Wg Cdr
JDPO-3(E)

(ARMY BRANCH)

REGULAR ARMY

(SHORT SERVICE COMMISSION)

To be Lt

CORRIGENDUM

No. 512, dated 18 September 2006.—In the Govt. of India, Ministry of Defence Gazette Notification No. 337 published on 16 Jun 2001 under the heading 'Regular Army (Short Service Commission)' and sub heading "to be Lt" following is hereby amended as under :—

For — RITESH SHRIVASTAVA (SS-38620A) EME

Read — ————BLANK—————

SK SHARMA

Lt. Col

AMS 8B

(ARMY BRANCH)

CORRIGENDUM

No. 513, dated 15 September 2006.—Ministry of Defence Notification No. 227 dated 04 Apr 2006 published in the Gazette of India No. 17 dated 05 May 2006 in English version under heading "REGULAR ARMY" and sub heading "ARMY EDUCATIONAL CORPS" below :—

To be Subedar Major

For — Sub Thakur Singh (JC-225170A), 01 Jan 2006

Read — Sub Thakur Singh (JC-225470A), 01 Jan 2006

VK KAPOOR

Under Secy.